



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 13—अक्टूबर 19, 2007 (आश्विन 21, 1929)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13—OCTOBER 19, 2007 (ASVINA 21, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 03/2008-एनडीए-1

(आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 12-11-2007)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2008

(आयोग की वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in>)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2007

फा. सं. 7/3/2007 प. I (ख)--राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्पर्धों के लिए 30 दिसम्बर, 2008 में शुरू होने वाले 121वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 41वें पाठ्यक्रम 10+2 (कार्यपालक शाखा) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

20 अप्रैल, 2008 को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 335 होगी (जिसमें थल सेना के लिए 195, भौ सेना के लिए 39, वायु सेना के लिए 66 और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के लिए यह संख्या 35 होगी)। रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) उम्मीदवार को आवेदन पत्र के कालम 17(1) में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं के लिए वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) विभिन्न कोर्सों में अपनी वरीयताओं को निर्दिष्ट करने से पहले उम्मीदवार दोनों अकादमियों, अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) के लिए अपनी वरीयता सुनिश्चित कर लें। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है, तो उसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों अर्थात् थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में अपनी पहली वरीयता निर्दिष्ट कर देनी चाहिए तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को उसके बाद वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है तो उसे नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपनी पहली वरीयता निर्दिष्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों के लिए अपनी वरीयताएं देनी चाहिए। अतः जो उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) कोर्स के साथ-साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अन्य कोर्सों का भी चयन करते हैं उन्हें नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले या अंतिम वरीयता के रूप में विकल्प देना चाहिए।

नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता नहीं दी जा सकती है। यदि उम्मीदवार द्वारा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता भी दी गई तो उसे उम्मीदवार की अंतिम वरीयता समझा जाएगा।

(iv) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, चण्डीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मुंबई, नागपुर, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 12 दिसंबर, 2007 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार या तो :-

1. भारत का नागरिक हो, या

2. नेपाल की प्रजा, या

3. भूटान की प्रजा, या

4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जॉर्जिया, मलावी, जैरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर के आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म दो जनवरी, 1990 से पहले न हुआ हो तथा पहली जुलाई, 1992 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके

मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा 10+2 के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एस एस बी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एस एस बी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10+2 या समकक्ष प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें प्रमाणपत्र, उनकी फोटोप्रति सहित "अपर महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लाक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066" को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर (आर एवं आर) अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को 5 दिसंबर, 2008 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10+2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एस एस बी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एस एस बी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी। अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहरता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 5 दिसंबर, 2008 तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख की ओर आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2008 हेतु परिशिष्ट-V में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क:

(i) परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को आयोग को 50/- रु. (केवल पचास रुपये) के शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि समुचित मूल्य की एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में हो। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर भी किंतु आवेदन प्रपत्र में दिए गए स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द किए गए टिकट पर छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन प्रपत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो निम्नांकित पैराग्राफ के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट का दावा करते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

किसी भी हालत में केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के स्थान पर डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आदि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

341) थल सेना के जूनियर कमीशन्ड अफसरों, नान कमीशन्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों, भूतपूर्व नान कमीशन्ड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देते हैं। अर्थात् :

(क) वे मिलिट्री स्कूल (पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से ज्ञात)/सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और,

(ख) उनके आवेदन संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अग्रेषित किये जाते हैं।

टिप्पणी : मिलिट्री स्कूल/सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा अपेक्षित आवेदन पत्रों की संवीक्षा आयोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपर्युक्त, नोटिस के पैरा 4 (ii) के अंतर्गत शुल्क के छूट के हकदार हैं। किन्तु मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आयोग को अग्रेषित करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए कि वे नोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अग्रेषण पत्र भेजते समय आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख भी करना चाहिए। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग अथवा पिन नहीं करना चाहिए। आयोग प्रधानाचार्य के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन के साथ आयोग को अदा किये गये शुल्क को वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न उसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक आवेदन प्रपत्र तैयार किया है जिसे कम्प्यूटरिकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन

पत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध देश भर के निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उम्मीदवार केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्राधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए। लिफाफा 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110 069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी परीक्षा (1), 2008' भी लिखना चाहिए। उम्मीदवार को अपना टेलीफोन/फैक्स नं. लिखना चाहिए।

(ख) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अग्रेषण पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए, आयोग को अग्रेषित करेंगे।

भारतीय नौ सेना में नौ सैनिकों (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित) के आवेदन पत्रों को, तभी स्वीकार किया जायेगा जब उन्हें उनके कमांडिंग अधिकारियों द्वारा विधिवत् अनुशंसित किया गया हो। राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल कहा जाता था) देहरादून, मिलिटरी स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने आवेदन पत्र संबद्ध कालेज/स्कूलों के प्रिंसिपल के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वह अग्रेषण पत्र पर आवेदक का नाम तथा उसका आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए आयोग को अग्रेषित करेंगे। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग या पिन न किया जाये।

टिप्पणी 1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन पत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एक दम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृत के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के जुलाई, 2008 में घोषित होने की संभावना है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण-पत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर-पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

वह अपने को दण्ड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त :

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

और/या

- (ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है :

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

- (ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

- (i) पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069 को 12 नवम्बर, 2007 को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्पा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 19 नवम्बर, 2007 है। उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के मामले में ही दिया जाएगा।

वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन पत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान को ध्यान में न रखते हुए, अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में दिए गए कालम 13(II) में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां उनका निवास हो, के एरिया कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उसके आवेदन पत्र के प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा करके उसकी समुचित रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी को जमा करने के लिए दिए गए आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-III : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को आयोग के काउन्टर पर "दस्ती रूप से" जमा किए गए आवेदन पत्रों के रूप में माना जाएगा।

7. आवेदन पत्रों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन पत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर पावती कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. (8 अंकों में), नाम तथा परीक्षा का वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउन्टर

पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा।

केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन पत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रतिशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा।

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) उन उम्मीदवारों को जिन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, अनुक्रमांक, केन्द्र तथा कोर्स जिसके लिए प्रवेश दिया गया है आदि दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाएगा। प्रवेश प्रमाणपत्र में उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाणपत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुप्रति/अनुलिपि भेज दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी करके प्रेषित किए जाएंगे। अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण होना चाहिए।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हों तो वह परीक्षा में बैठने के लिए उनमें से किसी एक प्रवेश प्रमाण पत्र का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय को वापिस कर दें।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को गलती से किसी अन्य उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये तो उसे तत्काल आयोग को वापिस कर दें

तथा सही प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित करने का अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश प्रमाण-पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम तथा वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन पत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1) : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2) : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल;

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड (III), स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473;

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये--नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23011213;

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010151 एक्सटेंशन 7081; को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे-सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए.जी.ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड-III, स्कंध-(I), आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--नौसेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010151।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 के पते पर लिखने चाहिये।

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु आह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार सितम्बर, 2008—अक्टूबर, 2008 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना/नौ सेना अकादमी 10+2 (कार्यपालक शाखा) के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का निर्धारण किया जाएगा।

दो चरणों की चयन प्रक्रिया :

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्डों पर प्रारंभ की गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन केन्द्रों पर पहुंचने के प्रथम दिवस पर प्रथम चरण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया हो। वे उम्मीदवार जिन्होंने चरण-II उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाण पत्र की फोटो प्रति और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना और नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा तथा (2) अधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा, (2) अधिकारी क्षमता परीक्षा, (3) पायलट एप्टीट्यूट परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अन्तिम क्रम में तीन अलग-अलग सूचियों में एक थल सेना तथा नौ सेना के लिए, दूसरी वायु सेना के लिए और तीसरी नौ सेना के अकादमी कोर्स के लिए रखा जाएगा। जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सभी अंगों के लिए और नौ सेना अकादमी के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम तीनों योग्यता सूचियों में होगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना और नौ सेना विंगों में प्रवेश के लिए अंतिम चयन थल सेना तथा नौ सेना की योग्यता सूची में से रिक्रियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम में से किया जाएगा। वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए अंतिम चयन वायु सेना की योग्यता सूची में से रिक्रियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा में प्रवेश के लिये अंतिम चयन नौ सेना की योग्यता सूची में रिक्रियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा। जो कि शारीरिक स्वस्था और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के आधार पर होगा। जिन उम्मीदवारों के नाम तीनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर तीनों सूचियों में चयन हेतु विचार उनके वरीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से अन्तिम रूप से चुन लिए जाने पर शेष सूचियों से उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूट के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीट्यूट परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिए तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, अथवा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्था के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

रामेश्वर दयाल

उप सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे।

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2-1/2 घंटे	600
कुल			900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीजगणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द्व-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं-आधारभूत गुणधर्म, मापांक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति :

आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति; दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्क्रेन्द्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रैंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा,

मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन। निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्र रेखाओं द्वारा धिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी: आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण। ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता: यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटन, परस्पर अपवर्जित तथा निश्चेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ। पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी (अधिकतम अंक 200) :

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में

विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान (अधिकतम अंक 400) :

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कीमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां। ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का क्रान्तिरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में। स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, विद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फलास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन। अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्नरूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड (ग) (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव, संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार-भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण,

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

नीचे दर्शायी गई बीमारियां सामान्य छुट-पुट बीमारियों के अंतर्गत आती हैं :—

- (क) कान का मूल
- (ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार

(ङ) छाती कम होना

(च) बवासीर

(छ) गाहनी कामेस्टिया

(ज) टांसिल

(झ) वेरिकोसिल

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे—वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतर्रोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि—

(क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल कराना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/ अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूँ के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक-थल सेना/वायु सेना के लिए

सारणी-I

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	18-19 वर्ष
152	42.5	44	45
155	43.5	45.5	47
157	45	47	48
160	46.5	48	49
162	48	50	51
165	50	52	53
167	51	53	54
170	52.5	55	56
173	54.5	57	58
175	56	59	60
178	58	61	62
180	60	63	64.5
183	62.5	65	66.5

कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए

सारणी-II

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

उपर्युक्त सारणी-1 में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए ± 6 किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी :--

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेंमी.	120.00 सेंमी.
जांघ की लंबाई	--	64.00 सेंमी.
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेंमी.	96.00 सेंमी.

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेंमी तक ऊंचाई में 2.5 सेंमी (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेंमी (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बढ़ोत्तरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है।

(घ) छत्री भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेंमी. से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फसक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छत्री का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छत्री का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) हड्डियों और जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए।

मेरुदण्ड की हालत

(च) नीचे लिखा पिछला स्वास्थ्य वृत्त वायुसेना के लिए अयोग्य ठहराने वाला है :

- (1) मेरुदण्ड या तिरछे जोड़ों की ऐसी बीमारी चाहे उसके वास्तविक लक्षण हों या न हों--जिसकी वजह से उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक न बिता सकता हो।
- (2) प्रोलैप्स अंतरा-कशेरुक बिंदु तथा उस अवस्था के लिए शल्य चिकित्सा।

(छ) मेरुदण्ड की पूरी नैदानिक जांच की जानी है जिसमें उसकी आकृति स्थानिक कोमलता, यदि कोई है, मेरुदण्ड की हरकत आदि शामिल है। केवल हवाई कर्मी के कार्य के वास्ते उम्मीदवारों के लिए किटक्रिक कशेरुक का एक्स-रे (ए.पी.) तथा पार्श्विक दृश्यता किया जाना है।

(ज) हल्का कार्बोफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(झ) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिऑसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो-संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(ञ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएंगी :--

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्यूलोमेट्स बीमारी
2. आर्थराइटिस/स्पेण्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15° से अधिक हो। (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडॉसिस
5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलिसिस
6. हरनिएटिड न्यूक्लियस, पलपोसिस
7. कशेरुक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रेव पशुका
10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड को उपस्थिति
11. शीर्षधरानुकपाल (अटलांटो-आक्सिपीटल) तथा अटलांटो अक्षीय असंगतियां
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. एस.वी. 1 तथा एल.वी. 5 के इतर स्पाईनाबाइफिडा
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता

(ट) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए।

(ठ) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रव्यतामितिक परीक्षण किये जाएंगे। 250 एच. जैड, 4000 एच. जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितिक कमी +20 डेसिबल से अधिक नहीं हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ड) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ढ) जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ण) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा, ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गया हो।

(त) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(थ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(द) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ध) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि से पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। मायोपिया 2.5 डी. तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित	6/6
चश्मे के साथ संशोधित	6/6
निकट दृष्टि की सीमा	-0.75
दूर दृष्टि की सीमा	+1.5
दूरबीन दृष्टि	111
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1

दृष्टि संबंधी पेशी संतुलन मेडाक्स रॉड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्न से अधिक बिल्कुल न हो :

- 6 मीटर पर

एक्सोफोरिया	8 प्रिज्म डायोप्टर्स
एसोफोरिया	8 प्रिज्म डायोप्टर्स
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म डायोप्टर्स
- 33 से.मी. पर

एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म डायोप्टर्स
एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्टर्स
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म डायोप्टर्स

वायु सेना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं :

परिशिष्ट-II

जो उम्मीदवार प्रायः चश्मा पहनते हैं, वायु सेना हेतु योग्य नहीं हैं।

(सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण)

दूर की दृष्टि	6/6, 6/9 और केवल दूर दृष्टि के लिए 6/6 तक संशोधित प्रकट निकट दृष्टि की अनुमति नहीं है।
पास की दृष्टि	प्रत्येक आंख की एन-5
वर्ण दृष्टि	सीपीआई (एमएलटी)
मनीफैस्ट हायपरमेट्रोपिया	+2.00 डीसी से अधिक नहीं
एस्टिगमेटिज्म	+0.75 डीसी
मायोपिया	कुछ नहीं

मेडोक्स रॉड टेस्ट के साथ हैटरोफोरिया निम्नलिखित में अधिक न हो :

(1) 6 मीटर पर	
एक्सोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाइपर/हाइपोफोरिया	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
(2) 33 से.मी. पर	
एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाइपर/हाइपोफोरिया	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
(3) द्विनेत्री दृष्टि	अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है (फ्यूजन तथा स्टियरियोप्सिस) तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता

(न) यू. एस. जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना से अस्वीकृत किया जा सकता है।

(प) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(फ) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रूटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।

(ब) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

- (क) 15 मिनट में 2.4 कि.मी. की तेज दौड़
- (ख) उछल-कूद
- (ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)
- (घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)
- (ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे :

(क) इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-पत्र में जानबूझकर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद वहन करेंगे-सामान्यतया इन खर्चों के 400.00 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु. 400.00 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु. 400.00 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए रु. 400.00 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रतिमाह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/आश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक सरकार से किसी प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र

देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे-411023 के कमांडेंट को अग्रपिछित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये, उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

	रुपये
(क) प्रतिमाह रु. 400.00 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	2000.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	3200.00
(ग) 1 सेमिस्टर के दौरान प्रासंगिक व्यय	425.00
योग	5625.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

	रुपये
(क) 175 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	875
(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए लगभग	475

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350/- तथा रु. 500/- प्र.मा. के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमिशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किंतु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसकी माता-पिता की आयु निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल कैडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह 360/- रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37/- रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालिज तथा नौ सेना अकादमी, कोचीन में जहाँ कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30/- रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ : दो छात्रवृत्तियाँ 30/- रु. प्रति मास की तथा 400/- रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए 480/- रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह 500/- रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियाँ : तीन छात्रवृत्तियाँ—एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80/- रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियाँ कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000/- प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियाँ : निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियाँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :

योजना-I

छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियाँ।
छात्रवृत्तियों का विवरण : प्रत्येक वर्ष में आरंभ होने वाले दोनों सत्रों में थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिये एक-एक छात्रवृत्ति।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिये वित्तीय अनुदान:

पहले वर्ष : कपड़े खरीदने हेतु 2500/- रु. का एक मुश्त वित्तीय अनुदान तथा जेब खर्च के लिये 125/- रु. प्रति माह।

दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष : 129/- रु. प्रति माह का जेब खर्च।
योजना-II

छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियां।

छात्रवृत्तियों का वितरण : योजना I में दिये अनुसार।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता की वित्तीय : पहले/दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष - एक अनुदान मुश्त 100/- रु. प्रति वर्ष का अनुदान।

(10) पाइलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मेमोरियल छात्रवृत्ति : रु. 420/- प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट को दी जाती है जो वायुसेना कैडेटों के चौथे सत्र के अंत में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। (पांचवें और छठे सत्र के दौरान) यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़कर चला गया हो। जो कैडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40/- रुपये प्रतिमास मिलेंगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500/- रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30/- प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400/- सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500/- से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को, वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 और जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 कर्नाटक राज्य के उन कैडेटों को दी हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480/- रुपये प्रति वर्ष है।

रु. 480/- प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रतिसत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और

रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(15) फ्लाईंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(16) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता--
महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों को, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

भूतपूर्व अधिकारी : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत।

भूतपूर्व जूनियर कमीशन : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल प्राप्त अधिकारी जेब खर्च का 75 प्रतिशत।

अन्य रैंकों के भूतपूर्व : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल सैन्य कर्मों जेब खर्च का 100 प्रतिशत।

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी भेजने चाहिए जिनमें जेब खर्च की दरें दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदकों को माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे-411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:--

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले छह वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बी एस सी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौ सेना कैडेट, कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमेन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फेन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमेन कैडेटों को उनके शेपवन (SHAPE-ONE) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक इंजीनियरी और बिजली शाखाओं के लिए चुना जाता है, उन्हें छः महीने के लिए कैडेट प्रशिक्षण पोत पर समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडशिपमैन रैंक में पदोन्नत किया जाता है। संबद्ध शाखा में 6 महीने तक आगे प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक :

(i) कैडेट प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति

जैन्टलमैन कैडेट, सैन्य अकादमियां, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की पूरी प्रशिक्षण अवधि के

दौरान 8000/- रु. प्रतिमाह की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात भुगतान की गई वृत्तिका को सभी उद्देश्यों हेतु वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ii) वेतन :

(क) रैंक	वेतनमान
लैफ्टिनेंट	रु. 8250-300-10050/-
कैप्टेन	रु. 9600-300-11400/-
मेजर	रु. 11600-325-14850*

मेजर एवं समान क्षमता में समतुल्य पद के लिये प्रोन्नति होने पर प्रारम्भ में वेतन को, रैंक वेतन के अतिरिक्त, रु. 11600-325-14850/- के वेतनमान में रु. 11925/- की अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा।

रैंक	वेतनमान
लैफ्टिनेंट कर्नल	रु. 13500-400-17100/-
कर्नल	रु. 15100-450-17350/-
ब्रिगेडियर	रु. 16700-450-18050/-

(ख) वेतन के अतिरिक्त नीचे दिए गए अनुसार रैंक वेतन भी दिया जाएगा :

कैप्टेन	रु. 400/-
मेजर	रु. 1200/-

अधिकारी संवर्ग की पुनर्संरचना के कारण, ए.बी.एस. समिति की संस्तुतियों पर, प्रोन्नति काल को घटाया गया है तथा समयमान प्रोन्नति को कर्नल की रैंक तक बढ़ाया गया है तथा लेफ्टिनेंट कर्नल (टी.एस.) का पद उन्मूलित कर दिया गया है। कर्नल (टी.एस.), लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक वेतन के लिये पात्र है जो कि वर्तमान में रु. 1600/- प्रतिमाह है।

कर्नल	रु. 2000/-
ब्रिगेडियर	रु. 2400/-

(ग) रैंक	वेतनमान
मेजर जनरल	रु. 18400-500-22400/-
लैफ्टिनेंट जनरल	रु. 22400-525-24500/-
सेना स्टाफ व सेना संवर्ग के	रु. 26,000/- (नियत)
उप प्रमुख	
सेना स्टाफ के प्रमुख	रु. 30,000/- (नियत)

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान :

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 3000/-, 4500/-, 7500/- या 10,000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक रु. 250/- प्रतिमाह
- (ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I रु. 200/- प्रतिमाह
- (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II रु. 140/- प्रतिमाह
- (iv) मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक रु. 200/- प्रतिमाह
- (v) ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक रु. 140/- प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है--

- (क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर रु. 5250/-
- (ख) मेजर से कर्नल रु. 7000/-
- (ग) कैप्टन रु. 5500/-
- (घ) लैफ्टिनेंट रु. 4500/-

(iv) भत्ते :

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता तथा महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) रु. 200/- प्रति माह की दर से किट रखरखाव भत्ता।

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 3390/- रु. से 4200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता, 2100/- रु. से 2600/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 800/- रु. से 1000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) 9000 फुट से 15000 फुट की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों तथा 15000 फुट/अधिक ऊंचाई श्रेणी/(9000 फीट से 15000 फीट, 9000 फीट से कम दुर्गम क्षेत्र) अधिक ऊंचाई श्रेणी, (15000 फीट से अधिक) के लिए क्रमशः रु. 530/- से 1060/- तथा रु. 800/- से 1600/- रु. की दर से प्रतिमाह देय होंगे।

(ङ) सभी रैंकों के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड एरिया भत्ते के अतिरिक्त रु. 7000/- प्रतिमाह की दर से सियाचीन भत्ता देय होगा। सियाचीन भत्ता और उड़ान भत्ते के लिए प्राधिकृत कर्मचारी दोनों में से एक ले सकते हैं लेकिन एक साथ दोनों भत्ते नहीं ले सकते हैं।

(च) परिधान भत्ता : प्रारंभिक परिधान भत्ता रु. 6000/- तथा प्रत्येक 7 वर्ष की कारगर सेवा के बाद नवीकरण परिधान भत्ता 6000/- रु. है।

(छ) सभी अधिकारियों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा।

(ज) परिवहन भत्ता : ए-1 एवं ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता रु. 800/- प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर रु. 400/- प्रतिमाह, उन अधिकारियों को दिया जायेगा जिन्हें उनके कार्य स्थल से 1 कि.मी. की दूरी के भीतर सरकारी आवास नहीं दिया गया है अथवा कार्य स्थल के कैम्पस हाउसिंग तथा आवास में रहने की सुविधा नहीं दी गई है।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा निधि एक अनिवार्य अंशदायी ग्रुप स्कीम है जो नौसेना तथा वायुसेना कैडेटों सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों को कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में आने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने तक रु. 8 लाख की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है जिसमें 3 वर्ष के लिए अग्रिम रूप में रु. 4250/- की एकमुश्त राशि की बीमा किस्त का एक बार में भुगतान करना होगा। पदावनति के मामले में, प्रति पदावनति अवधि के लिए रु. 770/- का अतिरिक्त प्रीमियम पदावनति होते ही अदा किया जाएगा। वे उम्मीदवार जिन्हें अपंगता के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से चिकित्सकीय आधार पर अलग किया जाता है उन्हें 100 प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 100 प्रतिशत अपंगता के लिए 4 लाख रु. की बीमा सुरक्षा दी जाती है। इसी अनुपात में कम होते हुए 20 प्रतिशत अपंगता के लिए रु. 80,000/- किया जाना है। बाहर निकाले गए कैडेट जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें रु. 20,000/- की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के कारण अपंग होने पर अपंगता लाभ तथा किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जो कैडेट अनुशासनिक आधार पर या अवांछनीय या स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ता है तो वह भी अपंगता लाभ या अनुग्रह अनुदान का पात्र नहीं होगा।

(ख) भारतीय सैनिक अकादमी में जेन्टलमेन कैडेट जब रु. 8000/- प्रतिमाह वजीफा पाते हैं तो उन्हें रु. 15 लाख की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। वे कैडेट जो अपंगता के कारण चिकित्सकीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शत प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है अर्थात् शतप्रतिशत अपंगता के लिए 7.5 लाख जो 20 प्रतिशत अपंगता के लिए समानुपातिक रूप से घटकर 1.5 लाख हो जाती है तथा जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें 20,000/- रु. की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। मद्य एवं औषधि व्यसन तथा प्री एनरोलमेंट ओरिजिन की बीमारियों के कारण हुई अपंगता होने से अपंगता लाभ तथा अन्य किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जो कैडेट अनुशासनिक आधार पर या अवांछनीय या स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ता है तो वह भी अपंगता लाभ तथा अनुग्रह अनुदान का पात्र नहीं होगा। कमीशन प्राप्त करने पर जेन्टलमेन कैडेट नियमित सैन्य अधिकारियों पर लागू मुख्य सेना समूह बीमा योजना में शामिल हो सकेंगे।

13. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

14. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

रामेश्वर दयाल

उप सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. ओ.दो. 2346/87-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--डॉक्टर नीना सोनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ओ.जी.) (इरला-2592) ग्रुप केन्द्र, के.रि. पु. बल, रंगारेड्डी (आ.प्र.) ने स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 1.9.2007 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 1.9.2007 (पूर्वाह्न) से निकाला गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1),

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 सितम्बर 2007

सं. ई-28017/6/नोटि/2007/कार्मिक-2/230--अधिवार्षिका की आयु पूरी होने पर श्री बाल कृष्ण सरकारी सेवा से दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उन्होंने के.ओ.सुब मुख्यालय, नई दिल्ली से उप महानिरीक्षक (आई व पी) के पद का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 सितम्बर 2007

पत्रांक-153-जी.ई.-1/13-2006--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री

1. सैलेन्द्र पाण्डे	अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न)
2. बोडू राजू	त्याग-पत्र दिनांक 31.07.2007 (पूर्वाह्न)
3. एस. एस. रनवाडकर	अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न)
4. तरसेम लाल	अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न)
5. के. सी. सेन	अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न)
6. पी. के. गोयल	त्याग-पत्र दिनांक 10.08.2007 (अपराह्न)
7. सुनीत मेहता	त्याग-पत्र दिनांक 16.08.2007 (अपराह्न)
8. प्रशान्त एन.	त्याग-पत्र दिनांक 16.08.2007 (अपराह्न)

दीपक नारायण
सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. का. स्था (रोकड़)/पेन/10-2/2007-2008--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	श्री एस. नवीनकुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.8.2007	अधिवार्षिकी
2.	श्री वी. एन. शंकरपिल्लै वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणि.)	31.8.2007	अधिवार्षिकी
3.	श्री के. तंकप्पन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.8.2007	अधिवार्षिकी
4.	श्री बी. राजेंद्रन लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणि.)	31.8.2007	अधिवार्षिकी

दिवाकर सिंह
व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 20 सितम्बर 2007

सं. का. स्था/हव रो/ई-IV पें/82--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती एम. के. शारदा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय तिरुवनन्तपुरम	31.08.2007 अप. (अधिवार्षिकी)
2.	श्रीमती पी. के. कुञ्जन्नाम्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	31.08.2007 अप. (अधिवार्षिकी)
3.	श्रीमती एल. सुलेहा	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	31.08.2007 अप. (अधिवार्षिकी)

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. ए-19018/804/86-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री ए. के. सिन्हा, निदेशक (यांत्रिकी) इस संगठन के

अंतर्गत विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम) का कार्यालय से दिनांक 31.8.2007 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

महिन्द्र सिंह,
उप निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/352/2002 स्था. ए. पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री के. एन. कलोडे, सहायक खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 23.8.2007 (अपराह्न) से वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/461/2007 स्था.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री पी. जी. भट्टाचार्य, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम. ई.) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29.8.2007 (अपराह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/462/2007 स्था.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एम. आर. कावरे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम. ई.) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 24.8.2007 (पूर्वाह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 26 सितम्बर 2007

सं. 3113/ए-38012/1 (स्व. सेवानि.)/02/19ए--केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम-48(ए)(1) के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को श्रीमती कल्पना सेनगुप्त, निदेशक (भूविज्ञान) रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में 01.06.2007 (पूर्वाह्न) से प्रभावित स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई है।

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते, महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 27 मार्च 2007

आदेश

सं. 1/15(1)/2004-सतर्कता/2004--जबकि यह आरोप था कि श्रीमती के. लीला रानी, वैज्ञानिक अधिकारी/डी. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम, जिनका दिनांक 17.03.2003 से 15.04.2003 तक के लिए अर्जित अवकाश मंजूर किया गया था, पर अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुई और दिनांक 16.04.2003 से अनधिकृत रूप से ड्यूटी पर अनुपस्थित हैं :

- और जबकि उक्त श्रीमती लीला रानी ने पूर्वाक्त कार्य से ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखाई है और इस प्रकार का कार्य किया है जिसकी सरकारी कर्मचारी से आशा नहीं की जाती और इसके द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 के उप नियम 1(ii) और 1(ii) का उल्लंघन किया है;
- और जबकि दिनांक 10.05.2004 के ज्ञापन सं. 1/15(1)/2004-सतर्कता/3151 द्वारा श्रीमती लीला रानी को आरोप और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अधीन उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया था;
- और जबकि उक्त श्रीमती लीला रानी ने अपने बचाव में किसी प्रकार का लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया;
- और जबकि दिनांक 01.11.2004 के आदेश सं. 1/15(1)/2004-सतर्कता/7577 के द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अधीन जांच प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया;
- और जबकि जांच कार्यवाही के समापन के पश्चात् जांच प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उक्त श्रीमती लीला रानी के विरुद्ध आरोप सिद्ध थे;
- और जबकि जांच रिपोर्ट और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करके अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत है;
- और जबकि उक्त श्रीमती लीला रानी ने जांच रिपोर्ट के विरुद्ध किसी प्रकार का अभिवेदन प्रस्तुत नहीं किया;
- और जबकि जांच रिपोर्ट और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करके अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हैं और श्रीमती लीला रानी के विरुद्ध आरोप सिद्ध किये गये तथा श्रीमती लीला रानी को शक्ति स्वरूप सेवा से बर्खास्तगी का दंड प्रदान करना ही न्यायोचित होगा;
- और जबकि मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया गया और आयोग ने सभी संबंधित अभिलेखों और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद, दिनांक 12.12.2006 के आयोग के पत्र सं. एफ. 3/105/2006-एसआई द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न

है), उक्त श्रीमती लीला रानी पर 'सेवा से बर्खास्तगी' के दंड के अधरोपण की सलाह दी ;

11. और जबकि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर सावधानीपूर्वक विचार करके, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह मानने और उक्त श्रीमती लीला रानी पर 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंड देने का निर्णय किया है;
12. अब, इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति इसके द्वारा तत्काल प्रभाव से श्रीमती के. लीला रानी, वैज्ञानिक अधिकारी/डी. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र पर 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंड अधिरोपित करते हैं।

राष्ट्रपति के आदेश एवं नाम से

अनिल काकोडकर
सचिव

श्रीमती के. लीला रानी
वैज्ञानिक अधिकारी/डी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र कल्पाक्कम
निदेशक, इगापअके, कल्पाक्कम

} द्वारा

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 18 सितम्बर 2007

संदर्भ : क्रभनि/10006/भर्ती/4427--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई की क्रय सहायक, (वेतनमान रुपये 5,000-150-8,000/-), श्रीमती गीता एल बंगेरा को दिनांक 2, अप्रैल 2007 (पूर्वाह्न) से 29 जून, 2007 (अपराह्न) तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

संदर्भ : क्रभनि/10006/भर्ती/4428--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई की कनिष्ठ क्रय सहायक, (वेतनमान रुपये 4,000-100-6,000/-), श्रीमती कलावती सी. पिल्लई को दिनांक 23, अप्रैल 2007 (पूर्वाह्न) से 11 जून, 2007 (अपराह्न) तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 20 सितम्बर 2007

संदर्भ : क्रभनि/10006/भर्ती/4468--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई की कनिष्ठ क्रय सहायक, (वेतनमान रुपये 4,000-100-6,000/-), श्री वी. वाई. पटवर्धन को दिनांक 28, मई 2007 (पूर्वाह्न) से 11 जुलाई, 2007 (अपराह्न) तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

संदर्भ : क्रभनि/10006/भर्ती/4469--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई की कनिष्ठ क्रय सहायक, (वेतनमान रुपये 4,000-100-6,000/-), श्रीमती आर. उमा को दिनांक 1, जून 2007 (पूर्वाह्न) से 24 अगस्त, 2007 (अपराह्न) तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2007/74--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
1.	कुमारी कल्पना चद्रकांत खेडकर
2.	श्रीमती शुभांगी मनोज मिरापुरकर
3.	डॉ. (श्रीमती) वृन्दा प्रशांत चौधकंठीवर

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2007/75--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता, श्री प्रभाकर नासकर को दिनांक 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी', के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2007/76--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'एफ' के वैज्ञानिक सहायक, श्री बालसुब्रमनियम सुन्दरवडीवेलू को दिनांक 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2007/80--मुख्य कार्यकारी, ब्रिट, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायकों को दिनांक 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एसबी', के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम
1.	श्री देवब्रता पॉल
2.	श्री मनोज कुमार शर्मा
3.	श्री संजीत कुमार साहा
4.	कुमारी स्वाती श्रीपाल कशीद
5.	श्री तंगम सखनन

ओ. के. सत्यन
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 21 सितम्बर 2007

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2007/783--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के ग्रेड 'जी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियरों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर 'एच' के ग्रेड में (रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में) इसी इकाई में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तारीख से स्थानापन्न हैसियत में, भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
	(सर्वश्री/श्रीमती)	
01.	राम शरण झा	10.08.2007
02.	बी. प्रह्लाद	10.08.2007
03.	के. सत्य प्रसाद	03.09.2007
04.	जे. वी. मुरलीधर राव	10.08.2007
05.	शीला	10.08.2007

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/7/92-स्थापना 2--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कैप्टन दीपक रैना, वरिष्ठ हवाई चालक दिनांक 30.09.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

मीना शर्मा
उपनिदेशक, प्रशासन

कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रद्धा
इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./35123/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्रद्धा इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वीफ्ट रेप्रो सर्विसेस
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./31250/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्वीफ्ट रेप्रो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हर्षवर्धन फिन स्टोक
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./31836/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./31250/एसटीए/560/2007-08---कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसर्ण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्योना
आडियो विज्युअल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./30394/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अशरीता केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हाडिया स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./30051/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 कौ उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स हाडिया
स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया
गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी
जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिमांशु सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./30161/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स हिमांशु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैवीमल पोलीयार्न प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./38636/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जैवीमल पोलीयार्न प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. एस. टी. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./38824/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एच. एस. टी. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सत्यम एल्युमीनियम
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./38691/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सत्यम एल्युमीनियम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विशाखा ट्रेड लिंक
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./38858/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विशाखा ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्ट्रा लैंड स्केप
एंड एक्वाटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./28722/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अल्ट्रा लैंड स्केप एंड एक्वाटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुकन होटल्स
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./38918/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सुकन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री बालाजी इंफाटेक
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./24424/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्री बालाजी इंफाटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निशान्त स्टोक ब्रोकिंग
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./38934/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स निशान्त स्टोक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

सं. आर.ओ.सी./38498/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

इन्फोविजन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री जी बापा मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./37870/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्री जी बापा मशीनरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आशीश ओरगेनायजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./37862/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स आशीश ओरगेनायजर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री योगी ओरगेनायजर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./37861/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्री योगी
ओरगेनायजर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

सं. आर.ओ.सी./31243/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स तिरुपति बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनी लैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ત 2007

सं. आर.ओ.सी./31146/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सोनी
लैंड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित
कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रतन फिलामेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ત 2007

सं. आर.ओ.सी./31886/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रतन फिलामेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राईम बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ત 2007

सं. आर.ओ.सी./31886/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आर.ओ.सी./31842/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आर.ओ.सी./34701/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आर.ओ.सी./38048/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ग्रेट लैंड
मोटेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./38972/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स फेबटेक वाल्व्स एंड कन्ट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिनी टेक एजेंसीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रितुराज एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

सं. आर.ओ.सी./ /एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मिन्नी
टेक एजेंसीज एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल
कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./38998/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रितुराज एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शबनम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री आरती स्टील पाईप प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

सं. आर.ओ.सी./38082/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स शबनम इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./38996/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्री आरती स्टील पाईप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स घनश्याम मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./37828/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम.एस. प्रिंटोरियम प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./37414/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एम. एस. प्रिंटोरियम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिलेनियम कन्जूमर केयर प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./12999/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मिलेनियम कन्जूमर केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./37773/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गुजरात वेगप्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भारडिया टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संधवी सायबर प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

सं. आर.ओ.सी./37398/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स भारीडिया
टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित
कर दी जाएगी।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક-૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./37758/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स संघवी
सायबर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./26876/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एन्रद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्याम
इंटीग्रेटेड फार्मैस प्र्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गुप्ता ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विशांत गैसेस प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./24639/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विशांत गैसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पार्श पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./24587/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पार्श पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नोस्ट्रडेम फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./24576/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स
नोस्टरडेम फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

सं. आर.ओ.सी./24586/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रांसग्रैंड कोनयोन
फिसकल प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./27110/एसटीए/560/2007-08---कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ट्रान्सप्रॉड
कोनयोन फिसकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण
दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी
विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लाईफ इन्टर लिंक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./28187/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स लाईफ इन्टर लिंक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोय डेरी एंड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./28190/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जोय डेरी एंड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फुलमार्क कोम्पु सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./28719/एसटीए/560/2007-08---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स फुलमार्क कोम्पु सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेला फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./28711/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स बेलॉ फिनस्टोक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उज्जवल स्टील टेक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 20 અગસ્ટ 2007

सं. आर.ओ.सी./28439/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स उज्ज्वल स्टील टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धारा ग्रोथ लैंड प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૦ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आर.ओ.सी./28738/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./14370/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स प्राइम
सिलीकोन वेली प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./35034/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अदिति फिनस्टोक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

सं. आर.ओ.सी./14510/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./30564/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह
सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जिनेश्वर
लीजिंग एंड फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ममता फेब्रिक्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./30642/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ममता फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजपूताना फिनस्टोक
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./30841/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स राजपूताना फिनस्टोक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रीन लाईन ट्रेवल्ल्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./12290/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ग्रीन

लाईन ट्रेवल्ल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पदुमावती पेपर प्रोडक्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./12312/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पदुमावती पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पानोली टेक्स (इंडिया)
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./12340/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पानोली टेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

कोलकाता-700020, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. क.र./प.ब./आई.पी.सी./560 (एसएम)/07--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सू मोटो (Suo Motto) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

1	U28991WB1977PTC31129	ए करीम एलॉयज इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
2	U51909WB1953PTC21277	ए एन लाहा एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
3	U29299WB1977PTC30867	ए एन वाइ टूल्स प्रा०लि०
4	U51109WB1984PTC37208	ए आर ट्रेडिंग (मिनेरल्स) प्रा०लि०
5	U92200WB1990PTC49468	ए स्ववायर इलेक्ट्रोनिक्स प्रा०लि०
6	U24121WB1974PTC29383	ए.बी.एस.केमिकल्स प्रा०लि०
7	U51909WB1992PTC54833	ए.एच.मकैन्टाईल प्रा०लि०
8	U21014WB1990PTC49438	ए.एस.डुली कॉपियर्स प्रा०लि०
9	U32106WB1977PTC31181	आबी एसोसियेट्स प्रा०लि०
10	U70101WB1984PTC37947	आकाश प्रोपर्टीज प्रा०लि०
11	U20232WB1984PTC37246	आरके शिल्प उद्योग प्रा०लि०
12	U51109WB1995PTC70566	आवकिन्स गूड्स प्रा०लि०
13	U74140WB1992PTC54291	अब्बे मार्केटिंग कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
14	U51109WB1983PTC35905	अभी वृद्धि प्रा०लि०
15	U51109WB1995PTC75823	अभिलेख ट्रेडिंग प्रा०लि०
16	U74210WB1990PTC49257	अच्छी लेवर्स प्रा०लि०
17	U74300WB1994PTC63101	एड-ऑन-व्हील्स मार्केटिंग प्रा०लि०
18	U63090WB1995PTC75275	आदर्श ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
19	U05005WB1974PTC29185	अगाई प्रा०लि०
20	U99999WB1974PTC037243	अग्रणी इन्जीनियर्स प्रा०लि०
21	U63090WB1994PTC63062	एयर बोर्न ट्रेवेल्स प्रा०लि०
22	U85110WB1989PTC46004	एयरवे केयर क्लीनिक प्रा०लि०
23	U51909WB1995PTC70275	अकीन कोमोडोली प्रा०लि०
24	U65992WB1974PTC29491	अक्र शंकर सेविंग एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
25	U22219WB1984PTC38251	अल्बी ग्राफिक्स प्रा०लि०
26	U51391WB1972PTC28285	अलका सेविंग यूनिट्स प्रा०लि०
27	U36911WB1990PTC49659	अल्टा इण्टरनेशनल प्रा०लि०
28	U63021WB1971PTC28064	अमलगमेटेड ब्रिज एण्ड शेल प्रा०लि०
29	U70109WB1996PTC79726	अमिदेव बिल्डर्स प्रा०लि०
30	U17277WB1989PTC46344	अमके एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
31	U31104WB1991PTC51077	एएमएस इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
32	U74140WB1999PTC89282	अमट्रेड इम्पेक्स प्रा०लि०
33	U17111WB1997PTC85096	अनिमेक्स इन्टरप्राइजेज इण्डिया प्रा०लि०
34	U65992WB1973PTC28997	अंजाना सेविंग एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
35	U51109WB1996PTC79087	अंकुर कोमोडिटीज प्रा०लि०
36	U99999WB1974PTC029648	अन्नापूर्णा फ्लावर मिल्स प्रा०लि०
37	U65999WB1995PTC75427	अनरी इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
38	U23101WB1999PLC89389	अन्ताई बालाजी लिमिटेड
39	U51909WB1992PTC54786	अनुग्रह व्यापार प्रा०लि०
40	U51226WB1989PTC46969	अनूज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
41	U51909WB1997PTC84790	अनुसुइया ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
42	U45203WB1984PTC37663	अपेक्स कंस्ट्रक्टर प्रा०लि०
43	U74210WB1997PTC85431	अपेक्स इण्डस्ट्रीयल एण्ड फिनान्सियल कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
44	U65993WB1998PTC87457	अपरमजित फिन कैंप प्रा०लि०
45	U29248WB1984PTC37767	एरोहेड्स (इण्डिया) प्रा०लि०

46	U51109WB1996PTC79091	अरुणोदय कॉमर्स प्रा०लि०
47	U24231WB1997PTC85099	एसबी फार्मा प्रा०लि०
48	U52393WB1989PTC46084	अटलांटिक एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
49	U70200WB1989PTC46579	एटलस डेवलपर्स प्रा०लि०
50	U67120WB1993PTC60365	औरेलियन फिनान्स प्रा०लि०
51	U24231WB1984PTC37961	एवोन इण्डिया प्रा०लि०
52	U22219WB1984PTC37419	आवाज प्रकाशन प्रा०लि०
53	U63023WB1984PTC37658	आजाद हिंद बॉन्डेड वेयरहाउस प्रा०लि०
54	U70109WB1997PTC84775	बी बी हाउसिंग प्रा०लि०
55	U29306WB1998PTC88208	बी.बी.आईस फैक्टरी प्रा०लि०
56	U70101WB1992PTC54482	बी.जी.इन्टरप्राइज प्रा०लि०
57	U27109WB1974PTC29283	बी.एम.इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
58	U27101WB1985PTC39334	बी.पी.केबल्स एण्ड एसेसोरिज प्रा०लि०
59	U51109WB1997PTC84683	वैद इन्फोटेक प्रा०लि०
60	U51909WB1983PTC36752	वैष्णव व्यापार प्रा०लि०
61	U51109WB1996PTC77233	वैष्णो मर्केन्टाईल प्रा०लि०
62	U63022WB1989PTC46389	बालागढ़ कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
63	U51109WB1995PTC75296	बालाजी फ्लोरोटेक सील्स प्रा०लि०
64	U74940WB1972PTC28539	बलाका मूविज प्रा०लि०
65	U15209WB1996PTC76885	बालपद टाई-अप प्रा०लि०
66	U52324WB1977PTC31019	बनारसीलाल खेमका एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
67	U51109WB1997PTC85434	बंगला प्लास्टो सिनर्जिज प्रा०लि०
68	U55101WB1989PTC47519	बनोजा होटेल्स प्रा०लि०
69	U74140WB1992PTC54903	बंसल कंसल्टेन्सी एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
70	U99999WB1972PTC028332	बंसम एजेन्सीज प्रा०लि०
71	U51213WB1992PTC54440	बारासात पौल्ट्री एण्ड एलॉयड फार्म्स प्रा०लि०
72	U67120WB1994PTC61793	बीकॉन निवेश प्रा०लि०
73	U51109WB1996PTC80253	बीपेज प्रा०लि०
74	U99999WB1974PTC029609	बेन नेविस पॉलीमर प्रा०लि०
75	U24222WB1978PTC31811	बेंगाल रोसीज एण्ड तूरपेन्टीन प्रा०लि०
76	U52110WB1974PTC29488	बेंगाल सी फूड प्रा०लि०
77	U99999WB1990PTC049800	भगवती एग्रो-प्लान्टर्स प्रा०लि०
78	U17119WB1954PTC21677	भारत जूट रिफाइन फैक्टरी प्रा०लि०
79	U65993WB1996PTC79287	भट फिन्कॉन सर्विसेज प्रा०लि०
80	U74210WB1985PTC39070	भट्टाचार्य एण्ड बरारी प्रा०लि०
81	U70101WB1984PTC37691	भीकाजी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
82	U23109WB1984PTC37609	भूपेन्द्र मेटालिक्स प्रा०लि०
83	U45201WB1990PTC49772	भूवानिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा०लि०
84	U26921WB1983PTC35948	बि० ऍन एण्ड कम्पनी (प्रोपर्टीज) प्रा०लि०
85	U67120WB1975PTC29892	बिचित्रा व्हिट एण्ड इन्वैस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
86	U51109WB1994PTC63176	बील्ली फिनान्स प्रा०लि०
87	U24117WB1990PTC49840	बिष्णुपुर पॉली-ओलेफिन्स प्रा०लि०
88	U99999WB1984PTC037626	ब्लैक डायमण्ड फिल्म्स प्रा०लि०
89	U51909WB1984PTC38278	ब्लू बेल इम्पेस प्रा०लि०
90	U74210WB1984PTC37906	बोकारो सीमेन्ट्स प्रा०लि०
91	U01132WB1983PTC35791	बॉन अमिस ट्रकिंग एण्ड एजेन्सीज प्रा०लि०
92	U22219WB1985PTC39518	बोरिया प्रिन्टर्स प्रा०लि०
93	U99999WB1999PTC089284	बोर्नफ्री गारमेन्ट्स प्रा०लि०

94	U45201WB1983PTC36988	बोस एण्ड बोस प्रा०लि०
95	U19121WB1990PTC49953	ब्रासटेक्स एकजीम प्रा०लि०
96	U31901WB1983PTC36977	ब्रेमेन टेक्निक प्रा०लि०
97	U28932WB1983PTC36429	बुलएण्डबुल इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
98	U45201WB1977PTC31216	ब्यूरो ऑफ मेकेनिकल एण्ड स्ट्रक्चरल इन्जीनियर्स प्रा०लि०
99	U18101WB1982PTC34819	बर्मन कॉमर्शियल प्रा०लि०
100	U65929WB1974PTC29330	बर्नपुर लकी बेनेफिट सर्विसेस प्रा०लि०
101	U74140WB1977PTC31121	बिजनेस लाइक कंसल्टेंट्स एण्ड इन्जीनियर्स प्रा०लि०
102	U51109WB1997PTC85373	सी एण्ड पी कंज्युमर प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
103	U65993WB1997PTC85444	सी एफ सी इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
104	U01403WB1990PTC49889	सी जी एम टेस्टिंग कम्पनी प्रा०लि०
105	U15201WB1999PTC89337	सी आर दे लिक्स प्रा०लि०
106	U21029WB1982PTC35029	कलकत्ता कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
107	U99999WB1984PTC037881	कलकत्ता लैण्ड एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
108	U99999WB1973PTC029030	कलकत्ता लाइसेन्स मेजरर्स प्रा०लि०
109	U74140WB1975PTC29998	कलकत्ता सिन्थेटिक प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
110	U51909WB1996PTC79222	कलकत्ता ट्राकॉन प्रा०लि०
111	U23209WB1983PTC36855	कैलथेर्म इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
112	U01122WB1997PTC84823	कैलक्स एग्री प्रा०लि०
113	U24231WB1989PTC46823	कैरिओन एप्लियान्सेज इण्डिया प्रा०लि०
114	U99999WB1995PTC063451	कागो इन्स्पेक्टर्स एण्ड सुपेरिन्टेन्डेन्स कम्पनी प्रा०लि०
115	U63090WB1990PTC49792	कैरीवेल ट्रांसपोर्ट प्रा०लि०
116	U17111WB1971PTC28006	ककचाह टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
117	U63090WB1989PTC47473	कैलेन्ज सर्विसेज प्रा०लि०
118	U40001WB1986PTC39997	चामानिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
119	U01111WB1985PTC39042	चन्दा फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
120	U51909WB1996PTC79149	चन्दन सप्लाय प्रा०लि०
121	U92132WB1989PTC47718	चैनेल कम्युनिकेशन्स प्रा०लि०
122	U51909WB1996PTC79226	चेरिओट मार्केटिंग प्रा०लि०
123	U99999WB1972PTC028329	चटर्जी हेल्थ सर्विसेज प्रा०लि०
124	U51909WB1994PTC66298	चावला मार्बेल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्रा०लि०
125	U23109WB1990PTC49738	चेरी कोक मैन्युफैक्चरिंग प्रा०लि०
126	U51909WB1989PTC46449	छाजलानी पैकेजिंग प्रा०लि०
127	U51109WB1996PTC79086	च्वाइस विनिमय प्रा०लि०
128	U51109WB1943PTC11268	चौधरी राय एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
129	U45202WB1997PTC85054	चौधरी ग्रुप इन्जीनियरिंग कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
130	U74140WB1983PTC36061	सिफ्ट कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
131	U85199WB1990PTC49369	सिटी आई केयर प्रा०लि०
132	U45202WB1983PTC35952	सिवेन्जर्स अपोलो (इण्डिया) प्रा०लि०
133	U21012WB1985PTC39061	क्लासिक प्रोजेक्ट्स एण्ड पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
134	U74130WB1972PTC28333	कॉमर्शियल पॉलीमेक प्रा०लि०
135	U28920WB1997PTC84873	कोमेज सर्फेस ट्रीटमेंट्स प्रा०लि०
136	U74140WB1973PTC28686	कॉन्समैन इण्डिया प्रा०लि०
137	U52392WB1985PTC39016	कॉन्सोल बिजनेस सिस्टम (इण्डिया) प्रा०लि०
138	U15491WB1978PTC31819	कॉन्सोलीडेटेड टी डेवलपमेंट कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
139	U99999WB1999PTC89256	कॉन्सोर्टियम सोलुशन प्रा०लि०
140	U70109WB1996PTC79471	कोजी होम प्रा०लि०
141	U63090WB1992PTC54637	क्रैफ्कॉन सर्विसेज प्रा०लि०

142	U15146WB1993PTC61193	क्रीमी कफेक्शनेरी प्रा०लि०
143	U27130WB1996PTC79269	क्रिएटिव एस्थेटिक्स प्रा०लि०
144	U65929WB1994PTC61398	क्रिएटिव रियलटर्स प्रा०लि०
145	U51909WB1998PTC87057	क्रेडिबल एक्सपोर्ट प्रा०लि०
146	U51909WB1990PTC49793	क्युपिड इम्पेक्स प्रा०लि०
147	U65993WB1990PTC49610	साइक्लिक फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
148	U72300WB1985PTC39104	डी.आई.ओ. सर्विसेज प्रा०लि०
149	U63022WB1999PTC89345	दालकोला कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
150	U15313WB1989PTC46905	दालकोला दाल मिल्स प्रा०लि०
151	U24131WB1990PTC49612	दामोदर एग्रो-प्लास्टिक्स प्रा०लि०
152	U51109WB1995PTC75143	दास एसेम्बलिंग कम्पनी प्रा०लि०
153	U30009WB1990PTC49319	दास डेल्टा सॉफ्टवेयर प्रा०लि०
154	U72200WB1994PTC63104	दास डिजिटल सर्विसेज प्रा०लि०
155	U45201WB1998PTC87283	देबज्योति कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
156	U74300WB1984PTC38138	डेसेजन एसोसियेटेड्स प्रा०लि०
157	U52392WB1990PTC49510	डिसिजन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा०लि०
158	U70102WB1994PTC63185	डेकॉप डिजाइनर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
159	U74140WB1990PTC49502	दीपक मर्चेंटाइल प्रा०लि०
160	U51909WB1996PTC78724	डेम्पो ट्रेडर्स प्रा०लि०
161	U17099WB1992PTC54837	देव यार्न प्रा०लि०
162	U51109WB1995PTC70329	धनसफल विनिमय प्रा०लि०
163	U51109WB1996PTC79225	धनवंती मार्केटिंग प्रा०लि०
164	U01409WB1975PTC29989	धरित्रि जौठा खामार प्रा०लि०
165	U31909WB1985PTC39701	डिगि-स्कैल प्रा०लि०
166	U22219WB1998PTC88546	डिजिटल डिजाइन प्रा०लि०
167	U16006WB1972PTC28485	दीपक जर्दा एण्ड परफ्यूमेरिज प्रा०लि०
168	U63040WB1994PTC61716	डीएलएस एक्सप्रेस प्रा०लि०
169	U51909WB1996PTC79714	दोले मार्केटिंग प्रा०लि०
170	U27101WB1972PTC28282	डोमिनिओन मेटल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
171	U02423WB1989PTC46537	डोयले-वान लैब्स प्रा०लि०
172	U24234WB1984PTC37400	डॉ. एस.डी.देबनाथ होमियो लेबोरेटोरी प्रा०लि०
173	U24231WB1943PTC11210	ड्रागॉन केमिकल वर्क्स (रिसर्च) प्रा०लि०
174	U55109WB1996PTC79501	ड्रीम टच ट्रेवल्स प्रा०लि०
175	U25199WB1974PTC29339	दुर्गापुर रबड़ प्रा०लि०
176	U51109WB1995PTC70293	डस्टेन वाणिज्य प्रा०लि०
177	U99999WB1974PTC029736	दत्त-स्टेवेन्स प्रा०लि०
178	U70101WB1995PTC75083	ड्वेल (इण्डिया) कंस्ट्रक्टर एण्ड डेवलपर प्रा०लि०
179	U51109WB1996PTC79094	डायनेस्टी ट्रेडिंग प्रा०लि०
180	U24119WB1971PTC28181	ईस्ट कोस्ट केमिकल्स एण्ड मेटल्स प्रा०लि०
181	U99999WB1943PTC011477	ईस्ट एकरा कोलियरी कम्पनी प्रा०लि०
182	U85110WB1994PTC61702	ईस्ट इण्डिया बायो-टेक प्रा०लि०
183	U99999WB1983PTC035919	ईस्टर्न बोन्डेड वेयरहाउस प्रा०लि०
184	U35204WB1972PTC28331	ईस्टर्न इलेक्ट्रो टेक्निक्स प्रा०लि०
185	U70101WB1985PTC39225	ईस्टर्न रियल इस्टेट डेवलपमेंट प्रा०लि०
186	U65910WB1992PTC54486	ईस्टर्न टेक्नो एण्ड मिनेरल्स प्रा०लि०
187	U99999WB1978PTC031749	ईयू-टेरा प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
188	U65999WB1977PTC30861	एल्डोराडो सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
189	U32301WB1984PTC37915	इलेक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा०लि०

190	U63090WB1997PTC85413	इलिकसीर फैशन्स प्रा०लि०
191	U51109WB1997PTC84725	एलोरा मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
192	U25206WB1984PTC38073	इमार वायर्स प्रा०लि०
193	U45201WB1998PTC87538	इम्प्रो कम्लेक्स प्रा०लि०
194	U31909WB1977PTC31263	इम्सन्स इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
195	U51109WB1975PTC30324	इनार लाइनर (एजेन्सीज) प्रा०लि०
196	U74210WB1999PTC88792	एनर्जी सर्विसेज प्रा०लि०
197	U74140WB1977PTC31258	इन्टेक कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
198	U27106WB1994PTC61524	इन्जीड कॉमर्शियल प्रा०लि०
199	U45201WB1990PTC49722	इस्कोफियर फुड हाउस प्रा०लि०
200	U28113WB1996PTC79650	इस्केय राइटिंग्स प्रा०लि०
201	U99999WB1997PTC084882	इएसएस इएमएम इन्टेगरेटेड सिस्टेम्स प्रा०लि०
202	U24119WB1989PTC46187	इसेन्स केमिकल्स प्रा०लि०
203	U63090WB1994PTC61760	इवलैण्ड फ्रेट मूवर्स प्रा०लि०
204	U29195WB1985PTC39847	एवरेस्ट एस्बेस्टस प्रा०लि०
205	U02520WB1984PTC37660	एवरग्रीन पॉलीप्लास्ट इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
206	U51909WB1996PTC76907	एक्ससेलेन्ट मैनेजमेंट प्रा०लि०
207	U93321WB1971PTC28085	एक्जीबिशन स्टैण्ड्स इण्डिया प्रा०लि०
208	U51937WB1998PTC87506	एक्सफील कॉमर्शियल प्रा०लि०
209	U51109WB1984PTC37670	एक्सप्रेस एजेन्सीज प्रा०लि०
210	U65110WB1972PTC28215	एफ.के.ट्रेडर्स प्रा०लि०
211	U51109WB1990PTC49884	फेयरमेक्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
212	U51391WB1997PTC85455	फाइन हर्बल लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
213	U99999WB1972PTC028479	फ्लेयर एडवर्टीजिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
214	U22219WB1953PTC21278	फोरवार्ड प्रेसमैन (इण्डिया) प्रा०लि०
215	U91397WB1972PTC28374	फ्रेन्को-फार्मा एण्ड केमिकल वर्क्स प्रा०लि०
216	U01549WB1989PTC46372	फ्रेशर बेबी प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
217	U25203WB1983PTC36103	फ्रेण्ड्स कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
218	U24224WB1965PTC26479	फुमिगेटर्स इण्डिया प्रा०लि०
219	U65993WB1997PTC85433	जी एफ सी इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
220	U24294WB1994PTC63137	जी.सी.बी. डेवलपमेंट टिनसेल सिटी प्रा०लि०
221	U28121WB1974PTC29424	जी.डी.एम.कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
222	U51222WB1996PTC80189	जी.के.साहा डेयरी प्रा०लि०
223	U31103WB1983PTC35762	जी.पी.इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
224	U51909WB1998PTC86567	गाल्फॉन इक्विपमेंट प्रा०लि०
225	U51909WB1995PTC70654	गणदेवा मर्चेन्डाइज प्रा०लि०
226	U51909WB1978PTC31659	गंगेज डिस्ट्रीब्यूटिंग एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्रा०लि०
227	U24222WB1972PTC28483	गंगेज पेन्ट्स प्रा०लि०
228	U65929WB1999PTC89374	गांगुली-दत्ता कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
229	U24119WB1972PTC28320	गेयसन केमिकल वर्क्स प्रा०लि०
230	U45203WB1996PTC79839	जीडीसी इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
231	U65993WB1989PTC46113	गीता क्रेडिट एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
232	U70200WB1998PTC87519	गीताजली मैनेसन्स प्रा०लि०
233	U74999WB1993PTC61276	गिरिराज इन्टरएक्जीम प्रा०लि०
234	U74999WB1992PTC54409	गोल्ड रश काइर्स मार्केटिंग सर्विसेज प्रा०लि०
235	U74140WB1984PTC38059	गोल्डेन इण्डस्ट्रीयल मैनेजमेंट्स एण्ड प्लेसमेंट कम्पनी प्रा०लि०
236	U74210WB1981PTC34078	गुड होम्स कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
237	U85110WB1999PTC89501	गुड समरितान हॉस्पिटल प्रा०लि०

238	U51109WB1995PTC70650	गुडविश फेबट्रेड प्रा०लि०
239	U15209WB1985PTC38729	गोपाल पशु आहार उद्योग प्रा०लि०
240	U99999WB1983PTC035757	गौर बोर्ड फैक्टरी प्रा०लि०
241	U45201WB1995PTC74747	ग्राफिक स्ट्रक्चर्स प्रा०लि०
242	U01132WB1995PTC75610	गीन (इण्डिया) एग्रीटेक प्रा०लि०
243	U27202WB1984PTC37714	ग्रीन वूड मशीनरी प्रा०लि०
244	U67120WB1983PTC35873	गुड्डु प्रोपर्टीज प्रा०लि०
245	U34300WB1990PTC50027	गुरु महाराज मोटर्स प्रा०लि०
246	U21019WB1990PTC49594	गुरुहरि बोर्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
247	U72900WB1999PTC89045	गुरुकुल कम्प्यूटेक प्रा०लि०
248	U31300WB1997PTC84600	जीवी मार्केटिंग प्रा०लि०
249	U74210WB1972PTC28490	हल्दिया इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
250	U15141WB1989PTC47233	हनुमान ऑयल मिल्स प्रा०लि०
251	U67120WB1972PTC28462	हैप्पी फेमिनी सेविंग्स यूनिट कम्पनी प्रा०लि०
252	U51909WB1995PTC70723	हरिदर्शन व्यापार प्रा०लि०
253	U51909WB1996PTC78823	हरिओम ट्रेडर्स प्रा०लि०
254	U15511WB1990PTC49937	हरिपाल एग्रो-फेड प्रा०लि०
255	U32109WB1996PTC80605	हार्मोनी ग्राफिक्स प्रा०लि०
256	U67120WB1995PTC75758	हाय लक फिनवेस्ट प्रा०लि०
257	U19112WB1992PTC54009	हाइड एसोसोरिज इन्टरनेशनल प्रा०लि०
258	U27203WB1984PTC37330	हाइग्रोन टी कम्पनी प्रा०लि०
259	U65992WB1974PTC29705	हिलविउ यिड फण्ड प्रा०लि०
260	U70101WB1989PTC46690	हिमाद्री अपार्टमेंट्स प्रा०लि०
261	U72900WB1996PTC77398	हिमालयन इन्फोटेक सिस्टेम्स प्रा०लि०
262	U15492WB1999PTC89362	हिमाली टी प्लान्टेशन प्रा०लि०
263	U27108WB1984PTC38186	हिन्ड्रीक्स अवफेरमान (इण्डिया) प्रा०लि०
264	U27108WB1984PTC38186	हिन्ड्रीक्स अवफेरमान (इण्डिया) प्रा०लि०
265	U24134WB1989PTC46850	हिन्दुस्तान पॉलीमर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
266	U28939WB1953PTC21006	हिन्दुस्तान कोलेक्सिबल गेट कम्पनी प्रा०लि०
267	U67120WB1994PTC66283	हितकारी विनिमय प्रा०लि०
268	U21011WB1977PTC31238	हुगली पेपर बोर्ड मिल्स प्रा०लि०
269	U27320WB1973PTC28984	हुगली वायर एण्ड स्टीज इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
270	U24132WB1972PTC28427	हावडा पोटेरिज प्रा०लि०
271	U74140WB1995PTC67198	एचपीआर एडवाइजर्स प्रा०लि०
272	U70101WB1984PTC37692	आई एम प्रोपर्टीज प्रा०लि०
273	U22110WB1972PTC28236	इम्पाला एडवर्टीजिंग प्रा०लि०
274	U74210WB1974PTC29368	इन-सिटू कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
275	U29246WB1998PTC87060	इन्ड मेक प्रा०लि०
276	U74999WB1994PTC61578	इन्डेस्ट बिल्डर्स प्रा०लि०
277	U51109WB1960PTC24767	इण्डियन मेकर्स प्रा०लि०
278	U65993WB1990PTC49938	इन्द्रालय फिनवेस्ट सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड
279	U51109WB1993PTC60840	इन्द्रमनी मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
280	U52324WB1994PTC63041	इन्द्रोपा ट्रेडर्स प्रा०लि०
281	U45203WB1977PTC31057	इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट लिमिटेड
282	U70101WB1989PTC47055	इन्वोवेटिव डिजाइन सेन्टर प्रा०लि०
283	U74130WB1984PTC37423	इन्स्टीच्यूट ऑफ ह्यूमैन इकोसिस्टेम्स
284	U29120WB1997PTC85304	इन्सुमेट इलेक्ट्रीक प्रा०लि०
285	U45203WB1995PTC75090	इन्टेग्रेटेड हाउसिंग एण्ड डेवलपमेंट कम्पनी प्रा०लि०

286	U51909WB1989PTC46336	इन्टेरा टेक्निकल सर्विसेज प्रा०लि०
287	U67120WB1984PTC37256	इन्टेक्सको इन्वेस्टमेंट्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
288	U29308WB1984PTC37463	इसोमेरिक (इण्डिया) प्रा०लि०
289	U31909WB1984PTC37462	इसोमेरिक प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
290	U24112WB1987PTC41885	इस्पात गैसज प्रा०लि०
291	U63040WB1997PTC85449	आइवरी अल्प्स एक्सपेडिशनस प्रा०लि०
292	U27109WB1981PTC34279	जे एम इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
293	U01132WB1983PTC36565	जे एन टंडन टी कम्पनी प्रा०लि०
294	U74210WB1974PTC29406	जे पी कॉमर्शियल सर्विसेज एण्ड एजेन्सीज प्रा०लि०
295	U51909WB1985PTC38711	जे.एफ.रुस्तमजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
296	U45202WB1985PTC39131	जे.पी. विल्डर्स प्रा०लि०
297	U51909WB1995PTC70619	जगन्नाथ बार्टर प्रा०लि०
298	U51226WB1990PTC49709	जहान टी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
299	U27109WB1997PTC85270	जय अम्बा रोलिंग मिल प्रा०लि०
300	U28939WB1999PTC89919	जय दुर्गा मॉल्ड्स मैनुफैक्चरिंग प्रा०लि०
301	U51109WB1995PTC70336	जयधान व्यापार प्रा०लि०
302	U02519WB1979PTC31934	जैनान मैनुफैक्चरर्स प्रा०लि०
303	U25191WB1995PTC75284	जायसवाल इलेक्ट्रीकल्स प्रा०लि०
304	U24132WB1990PTC50089	जानकी प्लास्टिक्स प्रा०लि०
305	U29248WB1987PTC41838	जया टेक्नोक्राफ्ट्स प्रा०लि०
306	U51909WB1994PTC63123	जयम सेल्स एजेन्सीज प्रा०लि०
307	U51909WB1996PTC77405	जयपी वाणिज्य प्रा०लि०
308	U51109WB1990PTC49534	जेट रीट्रीड्स प्रा०लि०
309	U70101WB1995PTC75514	जीनेन फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
310	U65929WB1989PTC46386	जीवनदीप स्माल सेविंग एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्रा०लि०
311	U51909WB1991PTC52463	जेएमएस एक्साप्लोर्स इण्डिया प्रा०लि०
312	U24116WB1996PTC79797	जोगेस रिफ्रेक्टोरिज एण्ड केमिकल प्रा०लि०
313	U55101WB1998PTC87251	जोगमाया होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा०लि०
314	U99999WB1999PTC089285	जोने जोहन्स अप्परेल्स प्रा०लि०
315	U22211WB1999PTC89033	जयसिटी पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
316	U80211WB1990PTC49583	जूनिपर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
317	U45201WB1990PTC49704	के एण्ड एस कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
318	U51494WB1989PTC46038	के.के.एक्सपोर्ट प्रा०लि०
319	U36101WB1995PTC73557	के.एस.इन्टरप्राइस प्रा०लि०
320	U50300WB1990PTC49761	काजल इलेक्ट्रीकल कम्पनी प्रा०लि०
321	U74140WB1992PTC54107	कालिमानजोरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
322	U65993WB1989PTC46538	कलिंगा स्टोर्स प्रा०लि०
323	U51109WB1997PTC84864	कलिंगा व्यापार प्रा०लि०
324	U27310WB1995PTC75691	कल्याणेश्वरी स्टील्स प्रा०लि०
325	U60210WB1953PTC21208	कल्याणी मोटर सर्विस प्रा०लि०
326	U45201WB1984PTC37693	कामाजी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
327	U63090WB1972PTC28212	कमल रोडवेज प्रा०लि०
328	U28991WB1990PTC49687	कमला नेल एण्ड वायर मैनुफैक्चरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
329	U92141WB1984PTC37832	कर एण्ड एसोसियेट्स प्रा०लि०
330	U23209WB1977PTC31135	कारुकुत इन्जीनियर्स प्रा०लि०
331	U74210WB1972PTC28218	कशुबा इन्जीनियर्स प्रा०लि०
332	U67120WB1998PTC87338	कश्यप इस्टेट प्रा०लि०
333	U25209WB1971PTC28083	के के दी इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०

334	U65999WB1994PTC61367	काया फिनेस्ट प्रा०लि०
335	U24295WB1985PTC39072	केन्ट लेदर्स प्रा०लि०
336	U27209WB1984PTC37742	खड़गपुर स्टील्स प्रा०लि०
337	U51396WB1989PTC47202	किरण मर्केन्टाइल प्रा०लि०
338	U67120WB1996PTC76990	केकेजी शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रा०लि०
339	U99999WB1984PTC038005	कोसोन प्लास्टो (इण्डिया) प्रा०लि०
340	U35204WB1990PTC49649	केपीपीएस इंजीनियरिंग प्रा०लि०
341	U51909WB1993PTC61296	क्रेप्टन ट्रेडर्स प्रा०लि०
342	U63040WB1996PTC80039	कृपा ट्रेवल सर्विसेज प्रा०लि०
343	U15412WB1980PTC32849	कृप्सी फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
344	U70101WB1990PTC49604	कृष्णा राधा डेवलपर्स प्रा०लि०
345	U74140WB1989PTC46152	केआरपी कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
346	U72200WB1999PTC89597	केआरएस इन्फोटेक प्रा०लि०
347	U65923WB1959PTC24431	कुमार ग्रुप्स प्रा०लि०
348	U27101WB1977PTC31152	एल बी अलुमिनियम उद्योग प्रा०लि०
349	U65993WB1994PTC61944	एल.बी.रिसोर्सेज प्रा०लि०
350	U31300WB1997PTC84943	एल.एम.सी. वायर्स एण्ड केबल्स प्रा०लि०
351	U01409WB1971PTC28032	लैम्सडेन फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
352	U51109WB1994PTC63293	लारेडो कोमोर्ट्रेड प्रा०लि०
353	U24241WB1992PTC54300	लक्ष्मी सोप्स एण्ड डेटरजेन्ट्स प्रा०लि०
354	U24239WB1989PTC46550	लिटल ओयक फार्मासिएटिकल्स प्रा०लि०
355	U65992WB1975PTC29867	लिटल सेविंग्स एण्ड चिट फण्ड प्रा०लि०
356	U24121WB1989PTC46479	लोकमान केमिकल्स प्रा०लि०
357	U29191WB1998PTC86848	लॉर्ड जगन्नाथ एयरकॉन प्रा०लि०
358	U26933WB1990PTC49435	लॉडर्स टाइल्स प्रा०लि०
359	U51909WB1974PTC29720	लोटस सेल्स इण्डिया प्रा०लि०
360	U45202WB1997PTC86225	नवलॉर्ड डेवलपर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
361	U24139WB1974PTC29748	एम एन सेन एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
362	U74140WB1997PTC84833	एम आर मैनेजमेंट एण्ड कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
363	U14108WB1985PTC39087	ए.ऐकाथ चीना क्ले माइन्स प्रा०लि०
364	U74140WB1987PTC43233	एम.बी.फिनान्शियल एण्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
365	U24119WB1989PTC47246	एम.डी.फुड प्रोसेजिंग प्रा०लि०
366	U92111WB1989PTC47755	एम.एन.प्रोडक्शन्स प्रा०लि०
367	U01549WB1991PTC51956	मा मेड फुड्स प्रा०लि०
368	U51109WB1978PTC31569	माँ मार्केटिंग इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
369	U25209WB1991PTC52257	माँ सन्तोषी पॉलीप्रोप्लाईनेस प्रा०लि०
370	U70101WB1999PTC89357	माँ शीतला करस्ट्रक्शन प्रा०लि०
371	U51109WB1996PTC79643	माँ वैष्णो मर्केन्टाइल्स प्रा०लि०
372	U65999WB1989PTC47634	मधु फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
373	U70101WB1984PTC37857	मगध इस्टेट्स प्रा०लि०
374	U51109WB1995PTC70356	मेजिक विनिमय प्रा०लि०
375	U51909WB1998PTC87500	मैग्मा निर्यात प्रा०लि०
376	U51433WB1990PTC49692	मैग्मम इन्फोरमेशन सिस्टेम्स प्रा०लि०
377	U17301WB1939PTC9832	महावीर होजियरी मिल्स प्रा०लि०
378	U70101WB1999PTC89156	महापाश्वर्क इस्टेट प्रा०लि०
379	U51909WB1996PTC76977	महरूप ट्राकॉन प्रा०लि०
380	U51909WB1989PTC46385	महेश्वरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
381	U51909WB1998PTC86610	महिपाल ऑडियो एण्ड एडवर्टिजिंग प्रा०लि०

382	U51311WB1990PTC48824	मन कमल टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
383	U74300WB1993PTC61285	मानश प्रिन्टर एण्ड बाइन्डर्स इण्डिया प्रा०लि०
384	U51109WB1996PTC76976	मणिधर कोमोडिल प्रा०लि०
385	U51909WB1990PTC49741	मनोहर मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
386	U35921WB1973PTC29016	मनोहरलाल एण्ड कम्पनी ट्रेडर्स प्रा०लि०
387	U51109WB1995PTC73815	मानसरौर मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
388	U72300WB1992PTC54779	मानटेक कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा०लि०
389	U14104WB1984PTC37902	मेरिन मैग्नेसियम प्रा०लि०
390	U78859B1996PTC78859	मार्टिन कॉमर्शियल प्रा०लि०
391	U70109WB1994PTC61952	मास्टर फिनकॉन प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
392	U00000WB1943PTC11212	मथुरा प्रसाद मोहन लाल प्रा०लि०
393	U29199WB1993PTC61226	मैक्स पॉवर इन्जीनियर्स प्रा०लि०
394	U70101WB1989PTC47654	भायेर एकजीम प्रा०लि०
395	U99999WB1994PTC061599	मेल्लोरेट कॉमर्शियल प्रा०लि०
396	U32209WB1977PTC31034	मेनासियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
397	U92490WB1971PTC28058	मेनोका टॉल्किज प्रा०लि०
398	U99999WB1984PTC037762	मेटेक इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
399	U24232WB1953PTC21041	मेट्रोपोलिटन मेडिकल एण्ड फोटोग्राफिक स्टोर (प्रा.) लिमिटेड
400	U63090WB1999PTC89384	एमजी रोडलाइन्स प्रा०लि०
401	U25113WB1996PTC79804	माइक्रो साइक्लिस प्रा०लि०
402	U22110WB1991PTC51061	मिनेनियम पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
403	U51109WB1995PTC70311	मिलिया कोमोडील प्रा०लि०
404	U21022WB1985PTC39506	मिल्टन टी पैकेजिंग एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
405	U17123WB1974PTC29313	मिनेरल वूल एमएफजी (इण्डिया) प्रा०लि०
406	U13205WB1971PTC28089	मित्रा एस.के.कार्गो इन्स्पेक्शन प्रा०लि०
407	U51909WB1996PTC80010	मॉडर्न सेल्स प्रा०लि०
408	U70101WB1989PTC46499	मोहित लैण्ड एण्ड हाउसिंग प्रा०लि०
409	U27310WB1977PTC31228	मोना-लिजा स्टील्स एण्ड फोजिंग्स (पी) लिमिटेड
410	U15412WB1989PTC46893	मोनार्च कन्फेक्शनर्स प्रा०लि०
411	U27109WB1989PTC47122	मूलजी ऑयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
412	U85110WB1994PTC61713	मुखर्जी डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रा०लि०
413	U74140WB1978PTC31816	भल्लीकॉन प्रा०लि०
414	U27109WB1994PTC64885	मुधरा ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्रा०लि०
415	U15314WB1993PTC60414	मुनमुन मचैन्ट्स प्रा०लि०
416	U01222WB1995PTC75407	मुशिदाबाद पिम्मेरी एण्ड एलॉयड फार्म्स प्रा०लि०
417	U99999WB1974PTC029676	एन बी चिट फण्ड प्रा०लि०
418	U45402WB1996PTC80636	एन आर बी इन्टेरियर एण्ड डिजाइनर प्रा०लि०
419	U51101WB1944PTC11892	एन आर सरकर एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
420	U05005WB1998PTC87900	एन टी एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
421	U99999WB1992PTC054412	एन वी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
422	U15549WB1971PTC28014	एन.एल.आहूजा एण्ड एसोसियेट्स (फुड एण्ड बेवरेजेज) प्रा०लि०
423	U99999WB1983PTC036935	एन.एल.चुरीवाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
424	U24121WB1992PTC54175	नव दिशारी टेक्नो प्रा०लि०
425	U24177WB1998PTC87437	नागपुर रेसिन्स प्रा०लि०
426	U99999WB1997PTC085091	ननी ट्रेडर्स प्रा०लि०
427	U72900WB1995PTC73807	नरेश इन्फोटेक प्रा०लि०
428	U19129WB1998PTC86981	एनबीसी एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
429	U67120WB1995PTC75459	नीलव क्रेडिट प्रा०लि०

430	U51909WB1984PTC38027	नीलपाल्म प्रा०लि०
431	U99999WB1997PTC085088	नेहा पेपर एण्ड बोर्ड कम्पनी प्रा०लि०
432	U74300WB1983PTC36097	नील्ड एडवर्टिजिंग कम्पनी प्रा०लि०
433	U22219WB1972PTC28382	नेलिज प्रिंटिंग प्रा०लि०
434	U85110WB1989PTC46219	न्यू ब्लीस नर्सिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०
435	U72200WB1995PTC75422	न्यू इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजिज (इण्डिया) प्रा०लि०
436	U92490WB1975PTC29991	न्यू थियेटर्स प्रोडक्शन्स प्रा०लि०
437	U45209WB1999PTC89647	निदान सी टी सेन्टर प्रा०लि०
438	U24121WB1989PTC46413	निलम्बुज केमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
439	U55101WB1997PTC85343	निर्माण रिसोर्ट्स एण्ड मोटेल प्रा०लि०
440	U19201WB1981PTC34044	निशान (इण्डिया) रबड़ प्रा०लि०
441	U65910WB1985PTC39082	नीता ओसियन एक्सप्लोरर्स प्रा०लि०
442	U51909WB1973PTC28775	नितको (ग्लासवेयर्स) प्रा०लि०
443	U01111WB1994PTC63174	एनएम इन्स्टेंट राइस एण्ड फुड प्रा०लि०
444	U26931WB1999PTC89621	नोब्ल्स एण्ड फ्रेशर्स ब्रिक्स एण्ड टाईल्स प्रा०लि०
445	U80903WB1998PTC86915	नॉर्थ बेंगाल होटेल डेवलपमेंट प्रा०लि०
446	U45201WB1992PTC54298	नदर्न मेट्रोपोलिटन इस्टेट एण्ड इन्क्लेव प्रा०लि०
447	U24232WB1984PTC37782	नदर्न फार्मासियुटिकल्स प्रा०लि०
448	U51491WB1992PTC54883	नोवेल एजेन्सीज प्रा०लि०
449	U74140WB1984PTC37461	ओहमिक कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
450	U67120WB1989PTC46632	ओमगी इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेड्स प्रा०लि०
451	U24139WB1989PTC47613	वनटाइम पैकेजर्स प्रा०लि०
452	U51109WB1992PTC54863	ओरबिटल एक्सप्लोरर्स प्रा०लि०
453	U63090WB1990PTC49986	ओडिसा गुड्स कैरियर्स प्रा०लि०
454	U24134WB1989PTC46662	ओसवाल पॉलीमर्स प्रा०लि०
455	U74210WB1997PTC84631	पी एण्ड सन्स इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
456	U22219WB1972PTC28248	पेसिफिक पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
457	U91221WB1985PTC39775	पदमा तिरु (इण्डिया) ट्रेडर्स प्रा०लि०
458	U65929WB1993PTC60458	पंचभूज फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
459	U23101WB1997PTC84973	फनकॉम बिजनेस प्रा०लि०
460	U70109WB1985PTC39019	पकज रिसोर्स प्रा०लि०
461	U51109WB1996PTC76896	पैनटॉन कॉमट्रेड प्रा०लि०
462	U24231WB1989PTC46864	पाराबॉन्ड केमिकल्स प्रा०लि०
463	U31504WB1990PTC49724	पारबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एजेन्सीज प्रा०लि०
464	U74140WB1993PTC60552	पार्थ राय कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
465	U99999WB1974PTC029657	पारती म्युचुअल बनेफिट चिट फण्ड प्रा०लि०
466	U24119WB1975PTC29869	पटेनपगा केमिकल्स प्रा०लि०
467	U22120WB1984PTC38038	पत्रिका कंसर्न्स प्रा०लि०
468	U29303WB1989PTC46762	पवन फैन्स प्रा०लि०
469	U25209WB1990PTC49880	पीक पॉलीमर्स प्रा०लि०
470	U23101WB1984PTC38082	पेलिकन डायकेम प्रा०लि०
471	U45209WB1989PTC46777	पेनिन्सुला डेवलपर्स प्रा०लि०
472	U24222WB1977PTC31043	परफेक्ट पिग्मेन्ट्स प्रा०लि०
473	U74210WB1999PTC89234	पियोमा रियल इस्टेट्स एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
474	U74140WB1990PTC49650	पायनियर एडवाइजरी सर्विसेज प्रा०लि०
475	U67120WB1995PTC73179	पायनियर क्रेडिट केपिटल प्रा०लि०
476	U74210WB1953PTC21296	पाइप एण्ड पावर्स इक्युपमेंट्स कम्पनी प्रा०लि०
477	U51109WB1996PTC77355	पोजिटिव ट्राकोन प्रा०लि०

478	U27209WB1974PTC29379	ग्रूम फेब्रिकास्ट प्रा०लि०
479	U21097WB1999PTC89290	प्रकाश पेपर कंवर्टर्स प्रा०लि०
480	U45203WB1983PTC36066	प्रतीक कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
481	U65993WB1992PTC54907	प्रतिष्ठान क्रेडिट एण्ड फिनफेस्ट कम्पनी प्रा०लि०
482	U51909WB1997PTC84705	प्रतिक्षण एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
483	U27320WB1973PTC28963	प्रेसिजन कार्स्टिंग इण्डिया प्रा०लि०
484	U45209WB1989PTC46750	प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम इण्डिया प्रा०लि०
485	U51109WB1992PTC54799	प्रोटोटाइप्स ट्रेड एक्सपोर्ट प्रा०लि०
486	U24121WB1990PTC49918	पूर्वाचल वाणिज्य उद्योग प्रा०लि०
487	U51109WB1996PTC78630	पूर्वाशा कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
488	U32109WB1983PTC36964	पूर्वाशा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा०लि०
489	U65999WB1995PTC75421	पुरोहित सेकुरिटीज प्रा०लि०
490	U51909WB1983PTC35803	आर जे बॉन्ड्स एण्ड होल्डिंग्स प्रा०लि०
491	U70109WB1994PTC63294	आर एस बी आवासन प्रा०लि०
492	U45202WB1997PTC84794	आर एस कॉन्ट्रेक्ट्स प्रा०लि०
493	U71120WB1952PTC20341	आर.एच.रोज प्रा०लि०
494	U51909WB1989PTC47048	आर.खोसला एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
495	U70101WB1990PTC49963	रेस्सी डेवलपर्स प्रा०लि०
496	U51909WB1995PTC70413	रदान्त ब्रोकिंग एण्ड एजेन्सी प्रा०लि०
497	U51909WB1995PTC75976	रागिनी विन्कॉन प्रा०लि०
498	U45201WB1998PTC87467	राहुल टावर्स प्रा०लि०
499	U33119WB1997PTC84657	रेनबो मेडिकल सिस्टेम्स प्रा०लि०
500	U51490WB1999PTC89358	रेनबो साडीज प्रा०लि०
501	U51109WB1995PTC75641	रेनड्रोप एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
502	U51909WB1997PTC85218	राज कॉरपोरेट इन्टरनेशनल प्रा०लि०
503	U31909WB1984PTC37625	राज ट्रेड एण्ड कॉमर्शियल प्रा०लि०
504	U28911WB1972PTC39012	राज वनस्पति प्रा०लि०
505	U74992WB1985PTC39046	राजा शिपिंग प्रा०लि०
506	U27203WB1997PTC85259	राजश्री मेटल कार्स्टिंग्स प्रा०लि०
507	U27101WB1977PTC31064	राजगढ़ कॉगर्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
508	U99999WB1984PTC037312	राजगिरि महावीर टी चैस्ट एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
509	U99999WB1992PTC054059	राजश्री फिनकॉन एजेन्सी प्रा०लि०
510	U99999WB1997PTC084733	रामा ग्लास वर्क्स प्रा०लि०
511	U27310WB1981PTC33995	रामकृशोपर रोलिंग मिल्स प्रा०लि०
512	U51505WB1985PTC39134	रेन्ड्रोनिक्स इण्डिया प्रा०लि०
513	U74210WB1998PTC87514	रानिगंज इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
514	U51505WB1984PTC37652	रंजन इलेक्ट्रो मेकेनिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
515	U51505WB1972PTC28264	रेपिड टेकसेल्स प्रा०लि०
516	U65999WB1990PTC49714	रास फिरकल सर्विसेज प्रा०लि०
517	U29130WB1991PTC52255	रासिवासिदा एक्जीम प्रा०लि०
518	U20103WB1978PTC31686	रवि प्रेस्टेस्सड प्रा०लि०
519	U45208WB1990PTC49845	आरबीएम इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
520	U99999WB1974PTC029651	रेवेक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
521	U99999WB1974PTC029654	रीगल इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
522	U45201WB1997PTC84773	रीपोज कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
523	U51909WB1995PTC67228	रीताना कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
524	U27104WB1990PTC49774	रितु स्टील एण्ड ट्यूब इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
525	U74300WB1989PTC47515	रिया आर्टवर्क शॉप प्रा०लि०

526	U15412WB1990PTC49480	रिया फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
527	U18101WB1994PTC61359	आरएनआर इम्पेक्स प्रा०लि०
528	U63090WB1996PTC79480	रोडलाईन्स इण्डिया प्रा०लि०
529	U28113WB1997PTC85003	रोलेक्स फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
530	U27209WB1973PTC29049	रोलवेल इण्डिया प्रा०लि०
531	U51216WB1994PTC61928	रोनौल्ट एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
532	U21012WB1984PTC37856	रोरा पेपर कंवर्टर्स प्रा०लि०
533	U65921WB1997PTC84903	राउथ हायरपरचेज सेन्टर प्रा०लि०
534	U24134WB1998PTC88541	रॉयल टेक्नोक्रेसी इन्जीनियर्स प्रा०लि०
535	U31501WB1953PTC21287	रॉयज इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
536	U15209WB1996PTC76891	रुबीकाम फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
537	U18109WB1998PTC87524	रूपराग प्रिन्टर्स प्रा०लि०
538	U74940WB1989PTC46765	एस डी फिल्म पैकेजिंग प्रा०लि०
539	U99999WB1974PTC029755	एस एम ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रा०लि०
540	U99999WB1997PTC085162	एस एन डी सुपरटेक प्रा०लि०
541	U01122WB1998PTC87583	एस एन हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
542	U22219WB1990PTC49951	एस एस ए ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा०लि०
543	U85195WB1943PTC11384	एस सरकार एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
544	U15491WB1993PTC60135	एस.डी.टी पैकेजिंग प्रा०लि०
545	U99999WB1994PTC067005	एस.के.एल.फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
546	U24239WB1972PTC28255	एस.एम.मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
547	U51109WB1996PTC79276	एस.आर.(कलकत्ता) ट्रेडिंग एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
548	U01222WB1999PTC89724	एसए एग्रो फार्म प्रा०लि०
549	U70109WB1984PTC38171	साबिरिना (इण्डिया) प्रा०लि०
550	U65922WB1990PTC49439	सेफ एण्ड साउण्ड फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
551	U51909WB1996PTC80740	सहर्ष डीलर प्रा०लि०
552	U51909WB1983PTC36928	सहरशा एजेन्सीज प्रा०लि०
553	U51109WB1995PTC75119	साहाशिय्योति ट्रेडिंग प्रा०लि०
554	U67120WB1989PTC46728	साहिबा इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
555	U05005WB1989PTC46707	साई सीफुड इण्डिया प्रा०लि०
556	U45203WB1996PTC79511	साइओम प्रोपर्टीज प्रा०लि०
557	U65929WB1990PTC49867	समीर कुमार फिनान्स प्रा०लि०
558	U65992WB1972PTC28442	संयिता सर्विसेस स्कीम प्रा०लि०
559	U51909WB1984PTC37353	संदीर रोड कैरियर्स प्रा०लि०
560	U65993WB1997PTC84721	संदीक फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
561	U65993WB1983PTC36094	संदीपनी इन्वेस्टर्स एण्ड डीलर्स प्रा०लि०
562	U45201WB1981PTC34011	संधाई एसोसियेट्स प्रा०लि०
563	U55101WB1995PTC73238	संग्रीला इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
564	U63090WB1971PTC28191	सांता रोडवेज प्रा०लि०
565	U15209WB1996PTC76888	संतन डीलर्स प्रा०लि०
566	U51109WB1992PTC54278	सांति क्राफ्ट्स प्रा०लि०
567	U74140WB1989PTC46723	सांति नीर हाउसिंग लोन कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
568	U51397WB1999PTC89668	संतिका फार्मासिएटिकल्स प्रा०लि०
569	U26959WB1984PTC37394	सैप कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
570	U65999WB1990PTC49601	सप्तर्षी फिस्कल सर्विसेज कम्पनी प्रा०लि०
571	U51109WB1993PTC61007	सप्तऋषि व्यापार प्रा०लि०
572	U99999WB1984PTC037363	साराबेरिया केमिकल एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
573	U26921WB1972PTC28472	सारदा रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०

574	U65922WB1990PTC49413	सारादीप फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
575	U27209WB1989PTC47631	सराफ टेकरटील कास्टिंग एक्सपो (ओडिसा) प्रा०लि०
576	U65923WB1981PLC33981	सारनिका फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
577	U65999WB1993PTC61203	सारादीप विनियोग कम्पनी प्रा०लि०
578	U45201WB1996PTC79532	सर्वमंगला हिमधर प्रा०लि०
579	U74140WB1997PTC84608	सति ट्रेक्जीम प्रा०लि०
580	U51909WB1993PTC60883	सतकीर्ति कोम्मोट्रेड प्रा०लि०
581	U65929WB1992PTC54021	सत्यम शिवम फिनको एण्ड रिसोर्सज प्रा०लि०
582	U24131WB1978PTC31520	सत्यनारायण प्लास्टोकेम प्रा०लि०
583	U65910WB1985PTC39872	सत्यवादी इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्सियर्स प्रा०लि०
584	U51420WB1990PTC49237	सविता एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
585	U92113WB1991PTC50563	स्कैन मूदी प्रा०लि०
586	U51909WB1999PTC89366	सीगम्बुत मर्केन्टाईल प्रा०लि०
587	U18101WB1989PTC46407	सेफर्टॉन टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
588	U15499WB1989PTC47158	सेखसरिया ट्रेड्स एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
589	U10200WB1943PTC11460	सेलेक्टेड बाराबोनी कोल कम्पनी प्रा०लि०
590	U36991WB1977PTC31189	सेठी राइटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा०लि०
591	U51102WB1974PTC29584	शंकर केमिकल कम्पनी प्रा०लि०
592	U23109WB1972PTC28247	शंकर रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
593	U65993WB1983PTC35925	शर्मा तार बितुमेन्स प्रा०लि०
594	U21022WB1973PTC28983	शिव गौरव प्रा०लि०
595	U45201WB1964PTC26103	शिवनाथ इन्जीनियरिंग एण्ड कॉमर्शियल कम्पनी प्रा०लि०
596	U24231WB1985PTC39075	शीला फार्मार्सिउटिकल्स प्रा०लि०
597	U74300WB1999PTC89052	शिल्पायण कम्युनिकेशन प्रा०लि०
598	U70109WB1985PTC39077	शाइनिंग प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
599	U27310WB1990PTC49479	शिव शक्ति फेरो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
600	U92141WB1996PTC80051	शोटेक मोबाइल इन्टरटेनमेंट प्रा०लि०
601	U15112WB1943PTC11354	श्री गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
602	U27109WB1989PTC46193	श्री महावीर ट्रेड एण्ड सप्लाय प्रा०लि०
603	U99999WB1995PTC073449	श्री पसारी इलेक्ट्रीकल प्रा०लि०
604	U18101WB1997PTC85596	श्री पितरजी टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
605	U67120WB1990PTC49446	श्री श्याम इन्वेन्को प्रा०लि०
606	U67120WB1996PTC80060	श्रेय त्रिमपेक्स प्रा०लि०
607	U65921WB1984PTC37838	श्री स्वास्तिक सप्लाय कम्पनी प्रा०लि०
608	U52311WB1997PTC84975	शुभान्कर इम्पेक्स प्रा०लि०
609	U63090WB1990PTC49422	सिद्धार्थ रफीड मूवर्स प्रा०लि०
610	U24239WB1990PTC49540	सिग्मा ड्रग्स प्रा०लि०
611	U36991WB1990PTC49228	सिग्मा स्टाईल पॉली उद्योग प्रा०लि०
612	U51109WB1995PTC75738	सिन्कलेयर्स मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
613	U74210WB1984PTC37669	सिन्गेरकाच इन्टरप्राइज प्रा०लि०
614	U22219WB1972PTC28224	सिन्हा एजेन्सी प्रा०लि०
615	U99999WB1983PTC36122	सिरियस कॉमर्शियल प्रा०लि०
616	U99999WB1989PTC046624	सिस्कॉन इण्डिया डेवलपर्स प्रा०लि०
617	U74300WB1971PTC28095	स्कार्टन एडवर्टीजिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्रा०लि०
618	U51109WB1999PTC89526	स्मिफ्स इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
619	U92112WB1989PTC46100	स्मिता फिल्म्स प्रा०लि०
620	U14101WB1996PTC79565	स्नेहा माबेल्या प्रा०लि०
621	U51109WB1992PTC54897	स्नेहिल एकजीम (इण्डिया) प्रा०लि०

622	U51909WB1997PTC84968	स्नो-हिल कोमोडिटीज प्रा०लि०
623	U51109WB1999PTC89111	सोमनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
624	U17232WB1997PTC84524	सोनाली जूट मिल्स प्रा०लि०
625	U15491WB1978PTC31598	सोनाली टीम इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
626	U32109WB1975PTC29874	सोनेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
627	U31300WB1989PTC47030	सोनथालिया मेटल्स प्रा०लि०
628	U45202WB1996PTC79383	सोपान कंसोर्टियम प्रा०लि०
629	U70101WB1996PTC79644	सदर्न प्लाजा प्रा०लि०
630	U70103WB1984PTC37452	साउथवे बिल्डर्स एण्ड कान्स्ट्रक्टर्स प्रा०लि०
631	U28999WB1972PTC28464	स्पा इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
632	U21012WB1989PTC46999	स्पा ग्रावोफलेक्स प्रा०लि०
633	U74940WB1972PTC28258	स्पान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
634	U24294WB1999PTC88959	स्पार्क मूवीज प्रा०लि०
635	U32109WB1998PTC88385	स्पेक्ट्रम म्यूजिक प्रा०लि०
636	U61100WB1983PTC36119	स्पीडवेज ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा०लि०
637	U64202WB1997PTC84843	स्पीड इन्टरनेट सोलुशन्स प्रा०लि०
638	U33205WB1989PTC46473	स्टार फिल्म कम्पनी प्रा०लि०
639	U25209WB1999PTC89315	स्टार सेनिटेरीवेयर्स प्रा०लि०
640	U24219WB1990PTC49308	स्टार शिप इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
641	U32106WB1995PTC75118	स्टारलाइट डीलर्स प्रा०लि०
642	U63090WB1983PTC36946	स्टेलिंग सुपेरिन्टेन्डेन्स कम्पनी प्रा०लि०
643	U45203WB1999PTC89548	स्थापत्य एक्जेक्यूटर्स प्रा०लि०
644	U67120WB1972PTC28318	सुबनरेखा इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
645	U15311WB1981PTC34014	सुजीकॉन मैनुफैक्चरिंग प्रा०लि०
646	U99999WB1985PTC039004	सुखनी-दुगर कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
647	U51505WB1990PTC49740	सुलोचना कॉमर्शियल प्रा०लि०
648	U99999WB1992PTC054617	सन-ग्लो वायर्स एण्ड केबल्स प्रा०लि०
649	U15326WB1975PTC30312	सुन्दरबन ऑयल मिल प्रा०लि०
650	U70101WB1997PTC85312	सत्री रियल इस्टेट्स प्रा०लि०
651	U67190WB1997PTC85034	सनशाईन मैनेजमेंट प्रा०लि०
652	U60210WB1972PTC28311	सुपर एक्सप्रेस रोडवेज प्रा०लि०
653	U15131WB1996PTC79297	सुप्रिम हाइजेनिक फुड प्रोडक्ट्स एण्ड एक्सपोर्टर प्रा०लि०
654	U51909WB1990PTC49458	सुरुचि इम्पेक्स प्रा०लि०
655	U45202WB1990PTC50269	सूर्या कमल प्रॉपर्टीज प्रा०लि०
656	U51109WB1997PTC84677	सुर्जी एक्सपोर्ट प्रा०लि०
657	U22121WB1989PTC47178	स्वदेश वार्ता प्रा०लि०
658	U14107WB1974PTC29737	स्वाइका मिनेरल्स प्रा०लि०
659	U51496WB1990PTC49685	स्वामी पॉलीकेम प्रा०लि०
660	U70109WB1997PTC85579	स्वरण टॉवर्स प्रा०लि०
661	U51909WB1991PTC51046	स्वर्णिम कॉमर्शियल कम्पनी प्रा०लि०
662	U24241WB1978PTC31780	सिल्वैन ऑयल्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
663	U24300WB1984PTC37715	सिन्नत फाइबर्स प्रा०लि०
664	U19202WB1985PTC39068	सिन्धो मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
665	U99999WB1997PTC084792	टी साधु एण्ड एसोसियेट्स प्रा०लि०
666	U74140WB1989PTC47096	ताजट्रेड एण्ड क्रेडिट्स प्रा०लि०
667	U51909WB1989PTC46837	तंग्राम डिजाइन प्रा०लि०
668	U24239WB1979PTC31877	तन्न-केम इण्डिया प्रा०लि०
669	U65929WB1971PTC28193	तपस्या फिनान्शियर्स एण्ड चिट फण्ड्स कम्पनी प्रा०लि०

670	U67120WB1999PTC89305	तरणी सेकुरिटीज प्रा०लि०
671	U51420WB1974PTC29569	तौरस फाउण्ड्री प्रा०लि०
672	U15491WB1959PTC24311	टी इण्डिया प्रा०लि०
673	U74140WB1985PTC39098	टेक्निकल कंसल्टेन्सी एण्ड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज (इण्डिया) प्रा०लि०
674	U74210WB1989PTC47074	टेक्निको इण्डिया (स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन) प्रा०लि०
675	U45203WB1976PTC30394	टेक्नोमैन इण्डो-कॉस्मॉस प्रा०लि०
676	U64201WB1998PTC88037	टेक्नोवेशन्स सिस्टेम्स प्रा०लि०
677	U51909WB1989PTC46391	टेफपैक सील्स प्रा०लि०
678	U31402WB1971PTC28040	टेकॉय इन्जीनियर्स प्रा०लि०
679	U74140WB1994PTC61753	टेकटन कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
680	U51109WB1995PTC75003	टेमेक कोम्मोडिटीज प्रा०लि०
681	U74140WB1978PTC31555	टेपे कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
682	U45202WB1972PTC28527	ठकर सर्विसेज प्रा०लि०
683	U24134WB1999PTC89318	ठक्कर पॉलीमर्स प्रा०लि०
684	U45203WB1996PTC79570	टाईड्स इण्डिया प्रा०लि०
685	U63040WB1985PTC38580	टाईम-एन-स्पीड प्रा०लि०
686	U24121WB1987PTC41834	तिनमूर्ति केमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
687	U51109WB1998PTC87874	तिरुपति ट्रेक्जिमा प्रा०लि०
688	U31503WB1992PTC54121	तितानिया लाइटिंग इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
689	U51909WB1995PTC70606	टॉपर सेल्स प्रा०लि०
690	U99999WB1981PTC034376	ट्रास फार्मासिउटिकल्स (इण्डिया) प्रा०लि०
691	U67190WB1993PTC60867	ट्रेण्डसेट्टर फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
692	U29130WB1977PTC31171	ट्रेस-फिन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
693	U19201WB1989PTC47380	ट्रायड फुटवियर प्रा०लि०
694	U32101WB1984PTC37965	ट्रिडेन्ट टेलीविजन प्रा०लि०
695	U65993WB1975PTC29975	त्रिमूर्ति सेविंग्स एण्ड चिट फण्ड प्रा०लि०
696	U02610WB1985PTC38724	त्रिपुरा सेरॉमिक प्रा०लि०
697	U20221WB1984PTC37874	त्रिजा लेमिनेट्स प्रा०लि०
698	U28993WB1974PTC29199	टु-टेम मेटल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
699	U24231WB1983PTC36979	टुपेल फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
700	U70109WB1990PTC49561	तुलिका होल्डिंग्स प्रा०लि०
701	U31909WB1999PTC89371	तुषार इक्वुपमेंट प्रा०लि०
702	U51109WB1995PTC70212	उदयावनी कोम्मोड्रेड प्रा०लि०
703	U74210WB1989PTC46746	यूनिकॉन प्रोमोटर्स प्रा०लि०
704	U29299WB1984PTC38187	यूनिथन टैप एण्ड डाई प्रा०लि०
705	U70101WB1997PTC84894	यूनिपोष कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
706	U67090WB1997PTC85411	यूनाइटेड शिप मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा०लि०
707	U51909WB1972PTC28324	यूनिवर्सल डीलर्स एण्ड मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
708	U27310WB1998PTC88557	उपाध्याय रोलिंग मिल प्रा०लि०
709	U02001WB1990PTC49518	उर्वशी प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
710	U27310WB1974PTC29528	उषा एक्सपोर्ट प्रा०लि०
711	U29130WB1984PTC37994	उषा मशीनरी प्रा०लि०
712	U99999WB1995PTC075007	उत्तमासेल कॉमर्स प्रा०लि०
713	U01112WB1975PTC29865	उत्तरायण इन्स्ट्रियल ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
714	U45202WB1983PTC36060	उत्तरायण कॉमर्शियल कम्पनी प्रा०लि०
715	U74140WB1987PTC41816	वी.एम.कंसल्टेंट्स एण्ड एसोसियेट्स प्रा०लि०
716	U70109WB1994PTC61929	वैष्णो हैप्पी होम मेकर्स प्रा०लि०
717	U65191WB1984PTC37548	वैलेन्टीनो फिनान्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०

718	U67120WB1996PTC76936	वरुण स्टॉक्स प्रा०लि०
719	U52322WB1990PTC49778	वेंकटेश्वर कॉमर्शियल प्रा०लि०
720	U51109WB1996PTC78655	वेन्ट्रॉन मार्केटिंग प्रा०लि०
721	U65922WB1991PTC51503	विक्टोरी हाउसिंग फिनान्स प्रा०लि०
722	U27209WB1971PTC28097	विक्टोरी स्टीम एण्ड ऑयल इक्युपमेंट प्रा०लि०
723	U15312WB1996PTC79299	विद्यासागर राइस मिल प्रा०लि०
724	U15209WB1996PTC76890	विद्याश्री कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
725	U15142WB1990PTC49925	विक्रान्त कोटिंग प्रा०लि०
726	U511109B1994PTC66157	विल्लियर सेल्स प्रा०लि०
727	U26103WB1989PTC46700	विनायक कोंन्टेनर्स प्रा०लि०
728	U51909WB1997PTC85227	विशाल डीलकॉम प्रा०लि०
729	U31909WB1990PTC49675	विश्वकर्मा गौन्टलेट इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
730	U21012WB1997PTC85080	वीआरजीएस पब्लिकेशन्स (इण्डिया) प्रा०लि०
731	U22190WB1997PTC85125	डब्लू बायोग्राफिकल सेन्टर प्रा०लि०
732	U17121WB1972PTC28339	डब्लू.आर.हिल्ड्रेथ एण्ड कम्पनी (एजेन्सीज) प्रा०लि०
733	U99999WB1995PTC075073	वैन्गास सेकुरिटी सर्विसेज प्रा०लि०
734	U45202WB1999PTC89438	वेब एज इन्फोसिस्टेम्स प्रा०लि०
735	U65993WB1984PTC37442	वेल्फैट जेनरल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
736	U19129WB1985PTC39144	वेल्मैक लेदर्स प्रा०लि०
737	U51109WB1995PTC70057	वेल्टेक कॉमर्शियल प्रा०लि०
738	U28113WB1996PTC79389	वेप इन्टरप्राइज (इण्डिया) प्रा०लि०
739	U24239WB1985PTC39669	वेस्ट बेंगाल हर्बल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
740	U17113WB1974PTC29701	वेस्ट बेंगाल वूल्लेन होजियरी कम्पनी प्रा०लि०
741	U15420WB1972PTC28486	वेस्ट रामकनाली कोलियरी कम्पनी प्रा०लि०
742	U74910WB1999PTC89569	वेस्टर्न इन्टेलिजेन्स सेकुरिटी फोर्स प्रा०लि०
743	U20211WB1998PTC87537	व्हाइट प्लाई प्रा०लि०
744	U19201WB1999PTC89349	विंग सून एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
745	U6945 WB1995PTC75448	वाई टीक प्रा०लि०
746	U25209WB1997PTC84581	जेड.ए.पॉलीमर्स प्रा०लि०
747	U51909WB1996PTC79320	जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
748	U24117WB1996PTC79271	जिकॉनियम प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
749	U70101WB1985PTC39128	जोरेमा डेवलपमेंट्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०

चेन्नै, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. 14005 से 40824 तक/560(3)/SUO MOTTO-2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	14005	फुट राईट प्राइवेट लिमिटेड
2	14008	दक्षिण टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
3	14023	पारामाउण्ट ऑईल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	14035	ट्रीटोन ट्रांसर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	14080	ईस्टर्न डोर्स & पेनल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	14081	एन.के.एस. प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
7	14142	केटलिस्ट टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
8	14145	एम. एस. झीप्स प्राइवेट लिमिटेड
9	14147	मारजापुत्तूर फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	14159	इन्स्ट्रॉनिक्स वेहनेस्स प्राइवेट लिमिटेड
11	14164	विन्स (इण्डिया) फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड
12	15520	सेलाचेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
13	15534	सुबीक्शम केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	15545	पालयम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
15	15548	कोरल फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	15549	सेन्टर फॉर कम्युनिटी एक्शन प्राइवेट लिमिटेड
17	15553	श्री मूकाम्बिगै फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
18	15565	इन्टाक्वास प्राइवेट लिमिटेड
19	15603	कोबलर वन लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	15606	अन्नै फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	15608	विल्ल पॉवर लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
22	15616	श्री अंजानेय चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	15617	अडवान्ड जीयोनेविगेशन एड्स एण्ड एनेर्जेटिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
24	15679	क्रेडम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
25	15702	केन्नेज फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
26	15708	विजया नायलो इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
27	15718	लक्ष्मीप्रिया फायनेन्स लिमिटेड
28	15736	रिक्स होटल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
29	15743	तिरुचिरापल्ली थेवर फण्ड्स लिमिटेड
30	15745	सोलार ट्विस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	15781	ट्रस्टवेल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
32	15790	शान्ति कन्स्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	15796	आदिपराशक्ति विविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
34	15804	कोड्स पेन्टागन प्राइवेट लिमिटेड
35	15807	रामजे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	15808	किरण फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	15823	राजश्री प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
38	15826	मनीदेवी कन्सट्रक्शन्स एण्ड फायनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
39	15843	लवन मरीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
40	15846	लेण्डमार्क कन्सलटेन्ट्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
41	15848	वेनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	15855	विश्वादिती प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
43	15862	सानुम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	15865	केसी फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
45	15889	कम्प्लीट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
46	15893	सञ्जारीना सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
47	15897	फाइब्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
48	15900	सुपरचेफ किचन एक्ज्यूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
49	15904	प्रीमियर अप्लायेंसस प्राइवेट लिमिटेड
50	15905	सी पल्स फिशेरीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
51	15930	स्वीसीरा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
52	15931	एक्सीक्यूटिव मेनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
53	15952	प्रीमियर कन्सलटेन्ट्स एण्ड सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
54	15959	प्रसाद शू अप्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
55	15964	पिरामिड कास्टिंग्स लिमिटेड
56	15965	वडीवाम्बिकै चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
57	15969	फिल्म फेसिलिटीस प्राइवेट लिमिटेड
58	15983	एयरविंग टेक्सटाइल्स लिमिटेड
59	15987	ई डी पी ऑडिटर्स एसोसियेशन इण्डिया
60	15998	जावेझ शूस प्राइवेट लिमिटेड
61	16011	मुल्लै चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
62	16042	मद्रास केमिकल एक्वूपमेन्ट्स एण्ड लाइनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
63	16045	अब्रासिव्स मेन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया
64	16046	रेनी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
65	16052	हिल्डा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	16057	लाशा मार्केटिंग एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
67	16063	कुलथैवम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
68	16066	बी एण्ड एम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
69	16083	विंगोन टायर्स लिमिटेड
70	16102	नाज इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
71	16109	श्रीचक्रा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
72	16117	एरीयस स्ट्रक्चरल एनेर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
73	16119	सीरीन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
74	16122	श्री विष्णुकुमार मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
75	16123	लोकित कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
76	16140	जकार्त एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
77	16141	कोजी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
78	16144	ओवरसीस डाईस एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
79	16157	चक्रवर्ती ग्रेनाइट्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
80	16159	ओलिवर मार्क एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
81	16160	एस होमनीड्स प्राइवेट लिमिटेड
82	16170	प्रोग्रेसीव सिने आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
83	16174	सदर्न केरीयर्स & डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
84	16177	ओक्सालिक केमिकल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
85	16198	अष्टालक्ष्मी कोनसोलिडेट्स प्राइवेट लिमिटेड
86	16215	फ्रन्डली फूड एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
87	16224	सनफलो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	16225	शान्ति ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
89	16227	फोटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
90	16231	वेन्च्यूर गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
91	16235	कॉमनवेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
92	16236	पल्सर फायनेन्स & इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
93	16259	गिरी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
94	16402	त्रिची कम्प्यूटर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
95	16408	कावेरी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
96	16432	चेन्नई रब्लर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
97	16440	पी डी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
98	16446	पोलिमर मशीन्स मेन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
99	16447	यू-टेक अल्ट्राील प्राइवेट लिमिटेड
100	16450	अरुणा फिशेरीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
101	16451	अरुत जोथी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
102	16456	इण्डो वेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
103	16463	एस्सार पम्पस प्राइवेट लिमिटेड
104	16508	धनप्रिया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
105	16514	शान्ता फेब प्राइवेट लिमिटेड
106	16515	बुद्धा ग्रेनाइट्स इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
107	16538	ग्लानम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
108	16544	एम ए यू आइल्स प्राइवेट लिमिटेड
109	16553	तमिलनाडु एसिटीलीन प्राइवेट लिमिटेड
110	16570	सदर्न पारबोइलिंग ड्रायर राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
111	16591	संखव लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
112	16606	गंगापथी सोडियम क्लोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
113	16620	श्री कृपा मार्केटिंग डेवेलोपमेन्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
114	16636	वेल्पा मेनिसिया लिमिटेड
115	16654	देवी टैनरीस प्राइवेट लिमिटेड
116	16663	श्रीदेवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
117	16668	एस पी अल्गनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
118	16681	ओर्गालाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
119	16690	नागास फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड
120	16691	नागास इण्डस्ट्रीयल सोलवेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
121	16692	न्यूरंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
122	16713	रमेश एजेन्सीस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
123	16717	पेटमुर एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
124	16728	सनबीम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
125	16730	इवान्गिलाइन रबबर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
126	16733	रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड ऑटोमोबाइल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
127	16742	एच रुस्तम कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
128	16744	गेटवे कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
129	16754	उदयम फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
130	16756	जैवासरास फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
131	16770	ब्लू बैंड शूस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
132	16775	आईएसपीके इन्डेक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
133	16783	प्लस प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
134	16789	एम एस आर फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
135	16796	बेसिक प्लास्टिकैजर्स प्राइवेट लिमिटेड
136	16803	विजय लक्ष्मी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
137	16807	आशीर्वाद लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
138	16842	एसक्येर रेपोग्राफिक्स इंक प्राइवेट लिमिटेड
139	16849	पेकेज्ड कस्टमाइस्ड सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
140	16851	एन्स कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
141	16894	इन्दु फोम प्राइवेट लिमिटेड
142	16899	उषोदया क्लियरिंग एण्ड फोरवार्डिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
143	16906	वीव्स एण्ड सीम्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
144	16912	रेफ्फीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
145	16919	मंजुला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
146	16923	अवन्त ग्रेड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
147	16931	शक्ति शूस प्राइवेट लिमिटेड
148	16932	मंगलदीप ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
149	16955	टेलिकॉम पॉवरनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
150	16975	एक्सेस गोल्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
151	16978	नेचुरल प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड
152	16980	आस्था प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
153	17005	सेंट. ज्यूड मैराइन्स प्राइवेट लिमिटेड
154	17012	जे पी अनालीटीकल टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेटोरी प्राइवेट लिमिटेड
155	17014	ट्राईओ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
156	17019	ईस्टमन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
157	17026	होम फिट गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
158	17043	गायत्री केल्सियम एण्ड अलाइड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
159	17050	एन वी कन्सल्टेशन्स एण्ड इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
160	17059	ब्लोसम केम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
161	17064	मदुरा लैम्प्स एण्ड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
162	17087	सिवसक्ति फिशेरी प्राइवेट लिमिटेड
163	17097	अराकोणम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
164	17116	राम परफेक्ट प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
165	17117	सुगीसा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
166	17120	श्री रम्या रेजिन प्राइवेट लिमिटेड
167	17141	श्री कामाट्ची कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
168	17142	एडाकाट्टु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
169	17149	मद्रास जिप फास्टनर्स एण्ड एस्सेसोरीस प्राइवेट लिमिटेड
170	17153	मानस ह्यूमन रिसोर्स डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
171	17155	स्पेसवे डिजाइन इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
172	17157	मारब्लाइट टाइल्स एण्ड टॉप्स प्राइवेट लिमिटेड
173	17159	न्यू फोल्क हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड
174	17175	कोनवेक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
175	17178	वेनी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
176	17230	आर.एन. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
177	17231	नट्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
178	17238	थापासु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
179	17241	डाटमेट्रिक्स पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
180	17248	सीनीयर सीटिजन रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
181	17250	रॉक्स 'एन' रॉक्स ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
182	17255	इण्डस्ट्रीयल ड्राईंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
183	17257	अल फरहान इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
184	17270	सिदार्थी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
185	17276	एलेनार ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
186	17277	क्यूट कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
187	17278	पॉवरपाइप इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
188	17280	फ्लेक्सी क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
189	17281	विजयलक्ष्मी प्रियदर्शनी लेदर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
190	17289	मद्रास टाउनशिप डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
191	17295	पोली ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
192	17353	जनीश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
193	17354	सिनारा मैका माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
194	17357	रानी लेदर इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
195	17363	जोशी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
196	17368	रिलायेन्स लेटेक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
197	17385	नौ ऑन फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
198	17404	पेनिनसुलार कम्प्यूटर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
199	17408	आल्कोट इन्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
200	17412	इन्टॉप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
201	17422	नल्ली हॉर्न्स प्राइवेट लिमिटेड
202	17431	अन्नै अबिरामी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
203	17436	फार लेप अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
204	17439	अलीशा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
205	17442	साइंटिफिक इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
206	17444	के.जी.एल. हाउसिंग एण्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
207	17448	तिरु मारन रियल एस्टेट्स एण्ड हाउसिंग फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
208	17449	सॉफ्टसेन्स मेनेजमेन्ट सिस्टम्स डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
209	17455	सिवा रेड्डी ब्रदर्स एग्रो हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड
210	17456	अडोर शूस प्राइवेट लिमिटेड
211	17459	नूरानी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
212	17475	हरीसेन इंजीनियरिंग एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
213	17503	एस आर एम मेटालिन्क प्राइवेट लिमिटेड
214	17507	मनीष वेन्च्यूर्स प्राइवेट लिमिटेड
215	17508	गामा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
216	17536	अमूक इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
217	17538	पी सी बी टेक सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
218	17540	मोस्फेट टेकनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
219	17543	शक्ति एसीटेड एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
220	17584	विनायक शूस प्राइवेट लिमिटेड
221	17596	निद्या ट्रेड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
222	17599	न्यू सेन्चुरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
223	17605	गिलक्रिस्ट मारीटाइम ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
224	17621	सुप्रतिष्ठा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
225	17627	कुमार ट्रेडर्स ऑफ मद्रास प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
226	17628	कोब केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
227	17631	फिट वेल स्प्रोकेट्स प्राइवेट लिमिटेड
228	17635	केमेरोन अक्वा फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
229	17636	सेम्बी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
230	17641	ब्लू मून एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
231	17644	भाबा प्लास्टिक्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
232	17649	कोन्टुरा रबबर प्राइवेट लिमिटेड
233	17650	गुरु राघवेन्द्रा इंजीनियरिंग कान्ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
234	17685	प्रदीप ऑटो कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड
235	17690	जीवन ज्योति प्रेस एण्ड पब्लिशर्स
236	17691	अरुल कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
237	17700	सैनमेड एंटीबायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
238	17714	फोइनिक्स फिल्म रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
239	17717	फोर स्क्वायर लेदर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
240	17722	एस्थेटिक डिस्पोजेबल मेडीकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
241	17724	क्रेफ्टार लीफ स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
242	17728	रामा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
243	17736	टेबल टॉप टी प्राइवेट लिमिटेड
244	17740	एयरसी सर्वाइवल एक्जूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
245	17745	बेस्ट रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
246	17748	अमृता एक्सीम प्राइवेट लिमिटेड
247	17749	अमृता मिल्क बिबिरेजस प्राइवेट लिमिटेड
248	17754	होण्डा फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
249	17760	फेर्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
250	17813	जी जी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
251	17814	ड्यूटस्च्यू एयर प्राइवेट लिमिटेड
252	17818	एन ए के ऑटोमोबाइल्स इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
253	17820	सत्या ट्रान्स ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
254	17822	सुसरुथा मार्केटिंग क. प्राइवेट लिमिटेड
255	17828	कावेरी एनरिच फीड्स एण्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
256	17836	कुक्कवेल एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
257	17837	सनराइस फ्यूल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
258	17864	गेलेक्सी केबल एण्ड कण्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
259	17871	एविस कार रेन्टल्स प्राइवेट लिमिटेड
260	17891	राज्हा कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड
261	17894	गुर फ्रेन्ड्स फायनेन्सियर्स प्राइवेट लिमिटेड
262	17895	विसुधा कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
263	17896	धर्मपाल न्यूसप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
264	18137	मदुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
265	18012	सप्तगिरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
266	18015	एसआरबी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
267	18018	श्री मीनाक्षी क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
268	18040	साबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
269	18064	श्वेतागणेश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
270	18065	श्री आण्डाल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
271	18067	फिदा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
272	18068	वैयापुरी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
273	18072	वेस्टएण्ड येल्लो पेजस प्राइवेट लिमिटेड
274	18084	अन्टो पोलिमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
275	18116	आर्ट एण्ड कलर्स मेन्यूफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
276	18118	श्वेता इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
277	18120	मदुरा यीस्ट एण्ड केमिकल्स एमएफजी कं. प्राइवेट लिमिटेड
278	18122	प्रोवेस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
279	18131	स्टरलिंग स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
280	18132	नित्या दर्शनी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
281	18136	सनटेक प्लास्टिक इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
282	18141	गोल्डन सेण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
283	18156	एलेक्सको मार्केटिंग एण्ड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
284	18161	कलन्जियम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
285	18185	सुन्दर एण्ड कम्मल (मेन्यूफेक्चर एण्ड एक्सपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड
286	18188	कोम्पेक्ट हाउसिंग फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
287	18189	सरवना पाम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
288	18195	सुकभोग डोर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
289	18197	नेनसन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
290	18199	चिन्नामेनर ओम शाक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
291	18204	बिनोद ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
292	18205	तवक्कल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
293	18216	फ्यूचूरा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
294	18225	एम.के. एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
295	18226	ब्रिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
296	18237	कोस्टल मेराइन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
297	18243	बी.वी.एस. लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
298	18244	लीफिन सी फूड्स लिमिटेड
299	18247	सौम्या फार्म सर्विसस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
300	18254	शिप्स एण्ड कार्गो एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
301	18259	जेमिनी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
302	18271	यूनाइटेड टेन्कर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
303	18283	बॉस बैटरीस प्राइवेट लिमिटेड
304	18285	कूक पेक फिशेरीज प्राइवेट लिमिटेड
305	18294	जेन्यून माइन्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
306	18300	होचल गीता (विल्लुपुरम) प्राइवेट लिमिटेड
307	18303	सत्या फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
308	18320	एस.सी. ग्रेनाइट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
309	18322	मणीभारती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
310	18334	कोरोमण्डेल ऑक्सिजन प्राइवेट लिमिटेड
311	18343	थैन्डाडु पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
312	18355	बार्टर मार्केटिंग एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
313	18381	अलंकार मरीन प्राइवेट लिमिटेड
314	18383	एनेमटेक इण्डस्ट्रीयल एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
315	18384	श्री सुंदरकोडी टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
316	18387	डेट रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
317	18395	एवोम एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
318	18394	विन्शार सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
319	18402	टेलर बर्ड प्राइवेट लिमिटेड
320	18410	सूसेवेल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
321	18413	कावेरी कलर लेब प्राइवेट लिमिटेड
322	18432	लिंगम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
323	18435	सन शेल्टर्स लिजिंग एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
324	18441	सुकला चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
325	18444	वथीयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
326	18455	सुन्दरम अप्लायेंसस रेफ्रिजरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
327	18461	सैकोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
328	18463	श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड अप्लायेंसस लिमिटेड
329	18468	वैल्यूएबल स्टील्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
330	18480	चेम्बर ऑफ हाउसिंग डेवेलोपमेन्ट लिमिटेड
331	18482	श्री लता ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
332	18491	इस्वर्या पेकेजस प्राइवेट लिमिटेड
333	18497	तुलसी डिवाइसस प्राइवेट लिमिटेड
334	18499	सेवर कोडियाओन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
335	18500	टाइल्स एण्ड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
336	18516	विजय टेक्सटाइल्स एण्ड वाटर प्रूफिंग इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
337	18536	टेकनौ डिजाइन कन्सलटेन्सी रोड प्रोजेक्ट्स एन
338	18544	ईस्ट कोस्ट ग्रान डेवेलोपमेन्ट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
339	18548	आरसीएम फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
340	18566	लीडर ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
341	18570	डेगा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
342	18576	ग्रेनाइट कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड
343	18578	ओडिस्सी ट्रेड लिन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
344	18580	एमसी कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
345	18581	जेमिनी स्पिनिंग मिल (त्रिची) प्राइवेट लिमिटेड
346	18584	एमक्यूब एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
347	18589	सार्क एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
348	18591	पोलकॉन कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
349	18598	अनु स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
350	18600	मदरलेण्ड सेटलमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
351	18615	मद्रास कटारी हाउसिंग फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
352	18634	श्री राघवेन्द्रा डिटेरजेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
353	18636	सिल्वर स्ट्रीक अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
354	18639	साज विजन प्राइवेट लिमिटेड
355	18640	स्केजोन-केम प्राइवेट लिमिटेड
356	18647	निर्मल लेदर गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
357	18648	श्रेयास माइक्रोटेक्नोलॉजी एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
358	18657	नीरा केप्स लिमिटेड
359	18664	स्काईलाइन मरीन्स प्राइवेट लिमिटेड
360	18674	स्वाति क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
361	18687	मेस्सीना शिपिंग एजेन्सीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
362	18689	डोक्युमेड लेबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
363	18692	ब्रिल्लीयन्ट इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
364	18695	श्री प्रभा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
365	18698	सबरी लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
366	18705	पैरामिड बिल्डर्स एण्ड इंटरियर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
367	18711	सिरीयस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
368	18716	गारडियन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
369	18718	विनस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
370	18719	मैईलै राज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
371	18720	एम ए रामकृष्णा नायडु स्टेनलेस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
372	18726	लेदर स्पेशियलिस्टीस प्राइवेट लिमिटेड
373	18731	मेनचिट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
374	18732	माइकोम्प कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
375	18746	बिल्डटेक हाउसिंग (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
376	18748	इण्डविन पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
377	18759	एस ए फिश नेट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
378	18760	क्रोमेटन लेडर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
379	18763	मनीअम्मे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
380	18764	श्रेष्ठा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
381	18768	इन्स्टिट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सिक्यूटिक्स एण्ड प्रोफेसनल्स
382	18770	मेगन्म रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
383	18774	मार्क एग्रोस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
384	18783	हाल मार्क इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
385	18788	अजन्ता गारमेन्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
386	18790	जेनलाइट सेल्स एण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
387	18791	कोसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
388	18799	विसकोस लेदर मेन्यूफेक्चर एण्ड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
389	18803	बेडरॉक इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
390	18804	अल्फा फ्लेट वेन्टिलेटर प्राइवेट लिमिटेड
391	18823	जय भुवनेश्वरी फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
392	18825	पेलिकान ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
393	18826	विनस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
394	18828	रेड फील्ड्स फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
395	18837	श्री विजय फिन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
396	18857	मोनार्क एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
397	18858	मोनिका फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
398	18860	राधामोहन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
399	18866	स्टीलेट्रो लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
400	18868	हार्ड-इटा पम्पेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
401	18882	अबाराजिता एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
402	18890	महासुदर्शना टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
403	18897	कॉसमॉस फ्राइट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
404	18910	थर्मल कन्ट्रोल सिस्टम (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
405	18912	इन्का इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
406	18915	रिलायन्स सीझर्स एण्ड वेयरहाउसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
407	18931	रेक्सोन्स ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड
408	18957	मून रेस फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
409	18977	वीटीआर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
410	18980	पेन्नारासी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
411	19004	कोरवेटाइट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
412	19011	सन लेदर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
413	19012	श्री पद्मालया फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
414	19013	लोकएयर एजी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
415	19020	पोन-फाइन लेदर्स एण्ड शूस प्राइवेट लिमिटेड
416	19023	ईस्वरी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
417	19025	जेमपेक कन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
418	19026	स्टेर्लिंग ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
419	19027	हाइ-टेक ऑटो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
420	19035	गौतम बेनर्जी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
421	19040	ओल्गा थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
422	19049	स्टेण्डर्ड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
423	19052	माइको-फिनो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
424	19070	श्री वल्लुवर टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
425	19073	आल फाइन कॉस्मेटिक इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
426	19082	रेवती क्रोम-केम प्राइवेट लिमिटेड
427	19091	शक्ति बोन मिल प्राइवेट लिमिटेड
428	19092	बालाजी डिटेरजेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
429	19100	बी एन टी एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
430	19101	इन्टेक्स स्टाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
431	19116	चर्पी कन्सल्टन्ट्स एण्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
432	19120	करन्ट ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
433	19126	आल्विनफेब प्राइवेट लिमिटेड
434	19128	लोटस मीनरल एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
435	19131	डेक्कान टेलि-कॉम प्राइवेट लिमिटेड
436	19132	राजाली कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
437	19135	वेंकटेश्वरा प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
438	19144	प्रगती अडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
439	19150	जीयूसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
440	19154	येस्सार अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
441	19158	टेलिग्राण्ड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
442	19163	बोन अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
443	19166	पाइपलाइन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
444	19167	डायना ऑटोमोटिव कोम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
445	19173	उदया हेचेरीस प्राइवेट लिमिटेड
446	19174	महाकाली चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
447	19178	वर्मा कोल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
448	19179	वर्मा कोल लिंकेज प्राइवेट लिमिटेड
449	19187	न्यो पेक एक्स्ट्रूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
450	19192	गैन हाउस फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
451	19202	नाजीउल्लाह वासीमुल्लाह एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
452	19206	पेक सील मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
453	19209	ब्राइट आयरन डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड
454	19211	कमलम कलर एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
455	19225	प्रिंस शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
456	19253	श्री वेलवन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
457	19256	बेटा बाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
458	19257	सायी पोली पेपर प्राइवेट लिमिटेड
459	19263	वेडन्तानाल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
460	19269	करपग विनायगर लिजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
461	19273	ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
462	19276	राघव कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
463	19283	मेक्सवेल रेमेडीस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
464	19291	एमीको ट्रोफीस प्राइवेट लिमिटेड
465	19292	ब्लू चिप्स ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
466	19297	मेहता फायनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
467	19302	झोयटिक इण्डिया लेबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
468	19304	कोप्पारम मोनीटर्स प्राइवेट लिमिटेड
469	19320	सेम्बी स्टील एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
470	19322	अरगुस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
471	19325	टूटिकोरिन आरबीयेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
472	19340	ब्लूशोर फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
473	19351	विजया अलुमिसल्फेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
474	19352	विजया केमएग्रो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
475	19354	श्री विर्गो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
476	19367	निरम स्पिन्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
477	19372	बोजेन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
478	19376	श्रीकास प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
479	19391	पाइमरैइन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
480	19392	यूनिटी लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
481	19397	सुरभी जनरल फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
482	19400	कॉसमोस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
483	19405	हुन्डयै इण्डो स्टोन इण्डस्ट्री कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
484	19409	के एन एस स्पिन्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
485	19418	भारद्वाज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
486	19422	केप्सन ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
487	19429	सुन्दरानाचिअरम्मान ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
488	19436	ट्राइको इन्टरनेशनल ट्रेवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
489	19437	हन्ना इन्वेस्टमेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
490	19439	राजलक्ष्मी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
491	19440	अडलर हम्सा लाइम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
492	19441	होटल शिवलोक प्राइवेट लिमिटेड
493	19451	सन फिशेरीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
494	19469	गीतांजली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
495	19476	वेम्बु फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
496	19479	मक्केना कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
497	19489	बेस्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
498	19494	फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु ट्रेडर्स असोसियेशन
499	19496	स्किनटिला कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
500	19497	कोरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
501	19502	सनराइस पेपर एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
502	19508	विजया स्केनर्स प्राइवेट लिमिटेड
503	19519	कोरियम अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
504	19525	बापरोह केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
505	19527	वेस्टल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
506	19543	ललित श्री सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
507	19547	यूनिक अलायंस मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
508	19549	साउथ इण्डियन पाइप्स (पायनियर्स) प्राइवेट लिमिटेड
509	19550	वन्दवासी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
510	19556	प्रियदर्शनी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
511	19557	कोवलम पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड
512	19564	पारकर असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
513	19567	से टेक्सटाइल एस्सेसोरीस प्राइवेट लिमिटेड
514	19570	श्रीमती ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
515	19575	तिरुमलै डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
516	19576	जगनमोहन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
517	19578	एस. सन्तोसनाडार एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
518	19585	बीसीआई ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
519	19589	मेनेजमेन्ट सर्विसस एण्ड इन्फोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
520	19613	अमाजिन कन्सलटेन्ट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
521	19623	चांदनी अलूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड
522	19637	पुष्पवल्ली तंगवेलु टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
523	19644	श्रीवल्ली वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
524	19653	इडंगकोट्टै फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
525	19681	ए पी एस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
526	19702	अडलेर एरोमेटिक्स एण्ड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
527	19716	पेन एशिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
528	19720	श्री दुर्गा सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड
529	19740	सदर्न ओलियोरेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड
530	19752	यादवा फायनेन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
531	19779	चारित्रा लेदर एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
532	19790	वी एस एम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
533	19805	एरिक एण्ड शान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
534	19822	रामकृष्णा मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
535	19827	प्रिया मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
536	19832	शशिरखा एक्सपोर्ट (आई) प्राइवेट लिमिटेड
537	19834	तमिलनाडु सिंथवुड लिमिटेड
538	19835	आइडियल लेदर एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
539	19838	विग्नेश शूस प्राइवेट लिमिटेड
540	19840	जे आर बी बी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
541	19844	ऑटोमोबाइल ट्रेड लिन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
542	19845	सोलिड फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
543	19848	अलवर रबबर फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
544	19851	सैनर्जी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
545	19853	मेचलेस मेन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
546	19856	टेकनो लिडर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
547	19869	थायर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
548	25311	गंगा-कावेरी अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
549	25509	मिल्कीवे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
550	25523	सुक्रा एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
551	25541	रामशेकर सर्जिकल कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
552	25557	प्रहती अम्यूसमेन्ट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
553	25564	अलिया प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
554	25573	क्वीन अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
555	25603	ग्रीन पार्क प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
556	25632	पूवन होसियेरीस प्राइवेट लिमिटेड
557	25649	मद्रास ऑटोमेशन कोन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
558	25651	एस.जे.ए. चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
559	25696	सुमंगली चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
560	25745	गेलेक्सी एस्टेट्स एण्ड हाउसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
561	25772	केके ग्लाउडाइस फायनेन्सियर्स प्राइवेट लिमिटेड
562	25781	सेन्दुरन प्रान फार्म प्राइवेट लिमिटेड
563	25798	ग्रीनपीस ओरचार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
564	25812	क्लब रेन्डेजवाउस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
565	25953	लाइन सिटी डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
566	25958	मेचलेस फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
567	25992	बॉडी ओम नारायणा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
568	26157	अटलान्टा ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड
569	26254	सिग्नेट अक्वा फार्म्स लिमिटेड
570	26258	ग्रेस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
571	26497	अभीरामी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
572	26521	प्रीतम कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
573	26559	एसन्यू लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
574	26566	डार्ट वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
575	26583	पेन्टा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
576	26586	श्री सदासीवम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
577	26588	अनन्थु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
578	26680	सृष्टि टीक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
579	26692	जगलक्ष्मी प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड
580	26722	फोइनिक्स डेकोरेटिव पोलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
581	26737	कोन्गु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
582	26753	बाल्सन बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
583	26772	सुरबी क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
584	26776	आई वी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
585	26790	कन्सै ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
586	26799	अम्बुली इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
587	26824	सीमेन एल्सी प्राइवेट लिमिटेड
588	26839	वाटन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
589	26855	श्रीराम शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
590	26886	उरबाना फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
591	26892	श्री उदयम चिट फण्ड्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
592	26918	पोथन फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
593	26985	विष्णु टेकनिकल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
594	27021	सनसुला फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
595	27029	मथुरा पॉवर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
596	27041	गोपी प्रिया ट्री प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
597	27067	चन्द्रकान्त फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
598	27090	कुम्बाकोणम आरवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
599	27108	वेट्री डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
600	27116	टॉरस ओवरसीस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
601	27118	ग्राण्डलेयोन टेक-मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
602	27148	श्री विजया सरस्वती स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
603	27161	टी.डी. बालाजी अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
604	27206	सरवना चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
605	27225	वसन्त सेल्वीस चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
606	27233	अच्युता केमटेक प्राइवेट लिमिटेड
607	27238	ब्लू बेस अक्वा हारवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
608	27247	कोविलपट्टी ओम आदिपराशक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
609	27254	ट्राईलक्स पॉवर एक्वूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
610	27255	स्प्रिंग शील्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
611	27293	राजा गिरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
612	27306	लक्ष्मी बालाजी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
613	27319	यूनिकोर्न सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
614	27362	अक्षय ब्रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड
615	27367	श्री साई पारधा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
616	27522	बागम प्रियल फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
617	27575	शेयर क्राफ्ट फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
618	27576	बालाजी ऑटोमेशनस प्राइवेट लिमिटेड
619	27585	प्रेसिडो लेदर्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
620	27630	मास मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
621	27912	महाजना ट्रेड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
622	28039	एनटी मीडियावेयर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
623	28083	तेनी ओम श्री प्रकाश चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
624	28162	श्री लेक्ष्मी अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
625	28204	सॉफ्टलिनक कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
626	28232	कार्तिक शेयर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
627	28304	श्री वन्नी विनायगर चिट फण्ड्स (सातपुर) प्राइवेट लिमिटेड
628	28310	मेग्नम न्यूस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
629	28320	के.के. कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
630	28336	मड्डोन्ना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
631	28393	सन कन्ट्रोल फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
632	28397	बी.निरमा कन्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
633	28459	मेगट्रेण्ड्स इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
634	28462	स्वर्णा अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
635	28474	वल्लवन चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
636	28494	अरसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
637	28513	कम्बाइन्ड कूरियर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
638	28518	जे.पी. फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
639	28534	इन्डस रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
640	28542	इन्टर मोड फ्राइट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
641	28544	रान्स फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
642	28555	मायुरम श्री रेंगा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
643	28570	स्टालवार्ट कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
644	28588	एक्सेल कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
645	28704	ओपीएस बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
646	28712	प्रिन्स फार्म्स एण्ड एग्री कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
647	28730	ज्ञान भारती चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
648	28732	जे.के. मरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
649	28770	रापीकुर रेमेडीस प्राइवेट लिमिटेड
650	28772	श्री अकल्या चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
651	28774	तिल्लै लक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
652	28868	पदम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
653	28869	श्री सर्वसिद्धिविनायगर चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
654	28885	जेम ओरचार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
655	28894	वेस्टर्न घाट्स हिल प्लान्टेशन्स लिमिटेड
656	28904	मेरक्यूरी इलेक्ट्रिकल असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
657	28924	ट्रेड स्पेक्ट्रम प्राइवेट लिमिटेड
658	28925	नरबवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
659	28926	जन सेवक फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
660	28931	वैरवन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
661	28932	मदुरै अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
662	28938	रेई ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
663	28941	अग्रोहा ग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
664	28973	कार्गो पूल इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
665	28982	आरोन फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
666	29016	इन्टरनेट ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड
667	29026	एक्सल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
668	29054	पाल एण्ड प्रिया एस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
669	29082	ट्राइनेट फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
670	29134	मगामाई बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
671	29139	कुमरन एण्ड कुमरन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
672	29170	ऊयू ड्रोप अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
673	29175	फास्ट फोरवार्ड कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
674	29198	आईनित सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
675	29201	मेक्सिमा इंटरियर डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
676	29209	एकनाथ कम्प्यूनिकेशन्स लिमिटेड
677	29256	दीपनिक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
678	29262	जेनित मार्केटिंग एण्ड सेल्स सर्विसस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
679	29276	प्रोक्सी-मेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
680	29279	सीएमएस स्टोन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
681	29293	श्री मुत्तुलक्ष्मी नगर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
682	29303	मेट्रो इन्वेस्टमेन्ट्स सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
683	29313	सन चिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
684	29356	मेटर एण्ड मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
685	29441	बीबीए सेक्युरीटीस एण्ड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
686	29450	अन्नातूर डेयरी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
687	29469	जुपिटर गारमेन्ट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
688	29491	टेस्सको कन्सल्टेशन्स एण्ड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
689	29509	रैनबो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
690	29512	केमिन अक्वा हेचरीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
691	29562	जी.डी.आर. फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
692	29570	जी.पी. ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
693	29614	अल्फा कम्प्यूटर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
694	29615	आन्धा एग्रो एण्ड अक्वा सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
695	29637	मधुरा फार्म्स हाउस एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
696	29649	न्यू-लिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
697	29669	ट्रेजर ट्रोव कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
698	29701	कार्डिनल फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
699	29730	ओरियन्टल सीम्स प्राइवेट लिमिटेड
700	29750	क्लासिक बिजनेस फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
701	29770	देवीकृष्णा अक्वा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड
702	29802	वाई.के. लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
703	29808	चिन्नु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
704	29953	आईसा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
705	30032	रत्ना चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
706	30040	एम्लोई-नेट प्राइवेट लिमिटेड
707	30041	सेफनेट फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
708	30042	टी.के.एन. होलिडे रिसोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
709	30072	मेट्रो एक्सप्रेस कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
710	30074	एमए इक्वीटी मेनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
711	30096	एस वी फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
712	30103	मद्रास सीटिजन्स बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
713	30123	बालाजी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
714	30136	केएनपी ट्रेडिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
715	30166	ट्वेल्वो फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
716	30175	यूनि बिल्ड एक्सिम्य प्राइवेट लिमिटेड
717	34657	केवीआर लेदर प्राइवेट लिमिटेड
718	34662	गोल्डन बायो टेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
719	34669	शिरडी साई होम वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
720	34673	के जी पंचलाइन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
721	34675	श्री नारायणा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
722	34680	मेरूर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
723	34689	अमफहज मार्केटिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
724	34692	कोनकोर्ड एयर वोयेजस प्राइवेट लिमिटेड
725	34712	तमन्ना प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
726	34714	पी जे एक्सीम्स प्राइवेट लिमिटेड
727	34741	क्लीन वे ड्राई क्लीनर्स प्राइवेट लिमिटेड
728	34742	एक्सीओम कन्सलटेन्ट्स एण्ड कान्स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
729	34751	बी के आर प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
730	34767	धारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
731	34790	सागा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
732	34795	केलिप्सो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
733	34796	जोडियाक इन्टरग्रेटेड एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
734	34831	ट्राइमेक्स हरी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
735	36058	स्वर्णलक्ष्मी सेक्युरीटीस लिमिटेड
736	40009	ओम मुरुगा मंदीरम स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
737	40824	वेंकटेश्वरा फोन्स प्राइवेट लिमिटेड

डी. सूर्यनारायणा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

चेन्नै, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. 15127 से 44999 तक/560(3)/SUO MOTTO-2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	15127	एसक्यूब टेक्नोजोलिस प्राइवेट लिमिटेड
2	15134	दर्शन एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
3	15138	प्रभा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	15151	श्री एस फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	15158	रैनबो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
6	15169	आर आर प्लास्टो प्राइवेट लिमिटेड
7	15183	श्री यन्त्रा फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	15187	सिन्धूबाद सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
9	15221	बिल्लमस एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	15224	शाशीस मार्केटिंग कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
11	15229	कुमार रजर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	15255	मोडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
13	15262	प्रेसटाइन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट्स इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
14	15264	बी एस जे कन्सलटेन्सी प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
15	15281	क्रिस्टल एयर कन्डिशनर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	15290	टेलिसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
17	15291	श्री बेलकोम्प सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
18	15319	टेक्निकोन पवन इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	15343	एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
20	15347	सोलार एनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
21	15348	अन्बु इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	15352	शुभा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
23	15354	पावलेडिस शिपिंग एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
24	15356	मंत्रालया इलेक्ट्रॉनिक्स इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
25	15357	श्री डीन्स अक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
26	15358	अर्चना फायनेन्स एण्ड हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
27	15359	वेन-जोह स्पाइसस् प्राइवेट लिमिटेड
28	15361	बायो-केर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	15364	से. मेरिस कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
30	15372	एवीएस एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	15375	वल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
32	15376	सीडीई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
33	15377	यूनिक इन्टेलिजन्स एजेन्सी एण्ड सेक्युरीटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
34	15381	वन्डर टेक्नोआर्ट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
35	15386	छारत फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	15392	अन्नामार टरमेरिक एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
37	15398	मल्ली पेन प्राइवेट लिमिटेड
38	15402	कोरोमण्डल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	15404	गुप्ता फायनेन्स एण्ड हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
40	15405	रमणी फिशिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड
41	15502	मेघालिथ लिमिटेड
42	15753	बी के एस एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
43	15754	बाल सिवा ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
44	15761	आर परमसिवम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
45	15767	शान्ति मात्सुओका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
46	15769	प्लान ओ ट्रेवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
47	15779	रेंक लेदर प्राइवेट लिमिटेड
48	16284	ए वी जी शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
49	16315	शालिमार (टूटिकोरिन) पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
50	16319	कॉलेज ब्रूक्स-लॉयड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
51	16331	डोव टेलिमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
52	16333	सूयामेन्डर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53	16334	इन्ड-सर्वो प्राइवेट लिमिटेड
54	16336	इन्सटेन्ट ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
55	16359	स्वाति कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
56	16364	कीर्तन पब्लिसिटीज प्राइवेट लिमिटेड
57	16366	वेगा इंजिनियर्स एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
58	16367	सिस्टेमेटिक कूरियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
59	16377	विरुधा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
60	16378	विसुधा फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
61	19873	सणबस्ट हौसिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
62	19878	वोगू एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	19886	फेलक्स एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
64	19901	सुरज एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
65	19903	वोगू एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	19906	जार्ज टर्ने फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
67	19907	वेट-मेड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
68	19911	अस्तलक्ष्मी फैनान्स एण्ड रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
69	19918	टाक्सनिल पालीवेइल प्राइवेट लिमिटेड
70	19920	श्री लक्ष्मी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
71	19975	रोट्मेक्स कणसल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
72	19976	स्वागद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
73	19977	पी.एन.गणेशन हौसिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	19994	परफेक्ट प्लेस्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
75	19995	श्री देवी तुगा लक्ष्मी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
76	19999	युशोडयम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
77	20006	वेट्री इन्सुलेशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
78	20026	नाफा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
79	20031	देवराज हाउसिंग एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
80	20066	श्री आर.बी.एस. स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड
81	20071	नेट फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
82	20075	सेट्रेन्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
83	20076	सैल रोक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
84	20089	कुमार एक्सट्रूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
85	20107	नाच्चम्मै फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
86	20117	श्री दुगा देवी स्पिन्सर्स प्राइवेट लिमिटेड
87	20128	टीएनटी प्लास प्राइवेट लिमिटेड
88	20131	शिवानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
89	20132	कल्पका फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
90	20135	ब्रुकलैण्ड्स मोटल्स एण्ड हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
91	20137	सिटिजन इन्यूलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
92	20144	वृन्दावन अप्लायन्सस प्राइवेट लिमिटेड
93	20146	गायत्री इलेक्ट्रीक एण्ड इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
94	20147	रजीनी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
95	20154	मुबीन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
96	20156	प्रिया इन्टिग्रेटेड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
97	20179	रीबोबोथ फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
98	20181	हेक्स कुडिल्स प्राइवेट लिमिटेड
99	20226	एक्टूडर फूड प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
100	20231	कोलातूर हाऊसिंग फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
101	20242	थील्लर लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
102	20245	सिन्थेटिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
103	20258	श्याम सुन्दर आइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
104	20272	सिइजेर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
105	20275	स्प्रिंगफील्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
106	20278	थाई इण्ड केमिकल्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
107	20293	स्टोन टेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
108	20326	एबीसन्स पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
109	20336	एन वी आर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
110	20344	गेलेक्सी ग्रैन्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
111	20347	अग्रोटेक सिस्टम्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
112	20357	लिन्टेक्स ओवरसीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
113	20362	रोबा केम प्राइवेट लिमिटेड
114	20370	विजयन फायनेन्स कम्पनी तिरुच्ची प्राइवेट लिमिटेड
115	20379	एवरपेक लिमिटेड
116	20383	श्री बालाजी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
117	20396	ट्रिनीटी फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
118	20411	स्पॉक्स शूस प्राइवेट लिमिटेड
119	20423	रिहोबोध चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
120	20429	निशान्त प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
121	20436	श्री श्रीनिवासा विडियो प्राइवेट लिमिटेड
122	20437	विन्टेक्स पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
123	20439	नवीन स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
124	20453	विल्लुपुरम चक्रा असोसियेट्स एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड
125	20477	हेक्स टीम क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
126	20504	लिनटेक्स फायनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
127	20507	जी ट्रेवल्स एण्ड टूर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
128	20508	सिग्मा कन्ट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
129	20512	श्री श्रीनिवासा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
130	20532	ईस्टर्न टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
131	20548	डीएलएस एसवी एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
132	20550	लक्ष्मी साइन सर्व्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड
133	20555	न्यू पुष्पम मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
134	20562	इन्डोमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
135	20577	एन जे शाह फुच प्रोडक्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
136	20591	हिमालयन पोलिमर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
137	20593	बूमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
138	20596	आर के बी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
139	20597	राजिन्द्रा सूरि इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
140	20599	रॉकसिटी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
141	21004	तिरुच्ची लाइट लेदर प्राइवेट लिमिटेड
142	21016	केजीएम इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
143	21022	इन्दुमति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
144	21028	बी पी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
145	21033	श्री कामाक्षी फायनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
146	21055	वीयेन पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
147	21057	यूड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
148	21058	यूड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
149	21059	यूड ओवरसीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
150	21060	यूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
151	21065	येसेमेल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
152	21066	काली ब्राण्ड होम अप्लायसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
153	21079	एसोसियेटेड एक्पोरियेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
154	21086	अम्बी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
155	21092	कनारा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
156	21118	सदर्न मैराइन फिशरिज एण्ड प्रॉन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
157	21130	यूनिफेब मेटो प्राइवेट लिमिटेड
158	21138	स्कोरपियो वेहबेचिंग प्राइवेट लिमिटेड
159	21164	ओम विनायगर इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
160	21174	सर्वमंगला चिटफण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
161	21186	अनु विजय अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
162	21194	कुलशेखरा पाण्डियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
163	21195	टेक्नो कम्प्यूटर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
164	21201	पोन्नी अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
165	21213	दौलानी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
166	21222	श्री विग्नेश फायनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
167	21230	सतीमाता फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
168	21232	सी बी एम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
169	21236	इन्सिट्यूशनल मार्केटिंग एजेन्सीस (इलेक्ट्रॉनिक्स) प्राइवेट लिमिटेड
170	21238	यूबेरस स्टेशनर्स लिमिटेड
171	21243	ऐश्वर्या फ्राइट कनेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	21252	भारत फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
173	21256	पीआरएस ओवरसीस एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
174	21257	अप्सरा ग्रेनाइट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
175	21263	एतिराज एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
176	21264	श्री रामजयम फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
177	21267	सेकेम प्राइवेट लिमिटेड
178	21285	नाथोनी एक्सीम प्राइवेट लिमिटेड
179	21290	वेनस्वार ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
180	21294	अमालगेमेटड ओसियनस्केन प्राइवेट लिमिटेड
181	21298	अम्बासेडर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
182	21302	जनरल फ्राइट केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
183	21311	रिलायन्स कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
184	21337	प्लेटिंग प्रोसेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
185	21339	गजलक्ष्मी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
186	21340	एमको सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
187	21344	रानी फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
188	21348	फेक्ट लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
189	21349	रेवलोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
190	21350	मा ऑनलाइन सिस्टम्स एण्ड मैनेजमेंट कंसलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
191	21353	आर जे आर फर्नीचर एण्ड फेब्रीकेटर प्राइवेट लिमिटेड
192	21355	रॉकफोर्ट फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
193	21357	एक्सेल कोम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
194	21371	पवर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
195	21377	सारटोरिया लेदर स्टोर्स लिमिटेड
196	21405	बेटामेक्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
197	21412	सरोजिनी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
198	21423	सीमाकोन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
199	21436	हरिणी जनरल फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
200	21440	करपगम कमर्शियल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
201	21468	कोवलम केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
202	21469	प्रदान इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
203	21470	बी के चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
204	21472	अरुणा मरैन प्रोटक्ट्स एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
205	21482	तमिलनाडु इन्सुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
206	21508	अभ्युदया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
207	21510	हैटेक रिफ्रेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
208	21541	राम रंजित कम्प्यूटर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
209	21558	पोन्मणी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
210	21599	आरणी श्री राजलक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
211	21602	विष्णुवर्धन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
212	21607	मोडर्न कम्प्यूटर ग्राफिक्स एण्ड इन्फोरमेशन सिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
213	21608	श्री लक्ष्मी टेक्नोफेब्स प्राइवेट लिमिटेड
214	21609	अल्फाबेटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
215	21610	बर्लीस होमफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
216	21613	आरुर लिजिंग एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
217	21614	ईश्वर लिजिंग फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
218	21628	प्रीमियर ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
219	21636	सेरन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
220	21668	यूनिफाइन लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
221	21669	शाविन इन्स्ट्रुमेन्टेशन कन्ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
222	21674	एलएसजेड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
223	21676	भानु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
224	21721	हिन्दुजा एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
225	21780	मक्कल नेसन पब्लिकेशन (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
226	21805	राघवेन्द्रा लेदर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
227	21810	सूर्या रोलोन प्राइवेट लिमिटेड
228	22082	बेस्को एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
229	22085	साउत इण्डिया कोरुबॉक्स नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
230	22102	बालाजी ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
231	22106	स्वामी डेन्टल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
232	22107	पीसी पाइन्ट सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
233	22114	डायना फ्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
234	22130	धरनी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
235	22133	फयूल सेवर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
236	22142	विश्वमित्रा हेरबल रिसर्च लेबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
237	22162	अमारी मार्केटर्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
238	22172	मोनार्क ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
239	22218	रादीप डेवेलोपमेन्ट एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
240	22226	टैटानियम जिकोनियम प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
241	22252	वसुन्धरा टिम्बर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
242	22288	अरुणोधयम स्ट्रकचरल्स एण्ड अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
243	22290	स्काई हाई टेक प्राइवेट लिमिटेड
244	22295	अप्पोलो निच वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
245	22297	मिडिया अनिमेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
246	22324	एस पी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
247	22326	एनरिच एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
248	22407	एमआरपी मेनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
249	22415	पेलिकॉन इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
250	22427	रेलटेक्स टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
251	22474	स्टाइल सेरेमिका प्राइवेट लिमिटेड
252	22780	कन्नवारीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
253	23010	मनली लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
254	23022	केर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
255	23030	गौरी ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
256	23049	ए के केमिकल्स प्रोडक्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
257	23068	दरन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
258	23074	सन प्लास्टिक कोम्पोसाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
259	23080	रॉयल प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
260	23085	इन्टर-फ्रेश फूड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
261	23086	वी.बी. ऑफिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
262	23090	वेन्कीस केपिटल मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
263	23095	कॉसमोस पेटेन्टर्नल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
264	23099	मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
265	23103	श्री एसवीएस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
266	23106	मेनहट्टन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
267	23108	फैर डील शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
268	23110	के एण्ड के निटवेयर प्राइवेट लिमिटेड
269	23111	एम्डीयार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
270	23114	कॉनमेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
271	23122	पाम्पा ग्रेनाइट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
272	23128	अरुमी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
273	23137	गोल्ड सिनेमा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
274	23138	रिक स्पाइसस् एण्ड टॉप डेलिकेसीस प्राइवेट लिमिटेड
275	23139	वेलांगन्नी विजन होटल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
276	23142	एसुन ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
277	23143	सन्नी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
278	23144	साबी प्लाई प्राइवेट लिमिटेड
279	23147	जेम्स गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
280	23156	कन्नवाडरीस फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
281	23169	सुरेश गणेश हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
282	23177	श्री वेंकटेश्वरा निर्विग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
283	23189	रॉयल मेरायन प्रोडक्ट्स (तंजावुर) प्राइवेट लिमिटेड
284	23218	वीआइएसएस पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
285	23223	ए.आर. पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
286	23224	पेकार फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
287	23235	सिम्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
288	23244	इला फायनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
289	23245	शर्मिला इम्पेक्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
290	23247	एन.जी.आर. एकजीम प्राइवेट लिमिटेड
291	23249	अलीफ एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
292	23256	माधवी होम अप्लायन्सस् प्राइवेट लिमिटेड
293	23281	कुटिपुलान एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
294	23289	मयूरम कामाक्षी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
295	23290	वीके एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
296	23300	सेल्वा अरसी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
297	23336	लॉयल टीक्स प्राइवेट लिमिटेड
298	23342	पांडियन क्राफ्ट पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
299	23346	सैफलेक्स सिस्टम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
300	23347	सदर्न एलेवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
301	23352	राघवेन्द्रा एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
302	23362	ट्रान्स क्विक प्राइवेट लिमिटेड
303	23391	स्वान डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
304	23576	निशान्त स्ट्रकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
305	23680	पीनाकिनी पैप्स प्राइवेट लिमिटेड
306	23756	बेस्ट आगो आयिल्स प्राइवेट लिमिटेड
307	23768	रुस्टीक आगो प्लान्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
308	23771	एम.एस.के. पील्लै चिट् फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
309	23777	काट्टन क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
310	23784	जोती लक्ष्मी फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड
311	23807	गंगा हाऊसिंग प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
312	23810	नवधान ग्रेनाइट्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
313	23819	नोगा बिल्डर्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
314	23820	रामकृष्णा कम्प्यूटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
315	23837	तेन्नमाल फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
316	23843	बोरडिअक्स फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
317	23868	ए.एन.वी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
318	23892	इसीए ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
319	23896	तंगम चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
320	23901	वी केयर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
321	23920	गुड पम्प प्राइवेट लिमिटेड
322	23929	फारचून स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
323	23998	मेड्रास कोरिया फिस्शींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
324	24004	श्री अम्मानावारु प्लान्देशन्स प्राइवेट लिमिटेड
325	24015	एस.ए.एस. ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
326	24021	आराम सिटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
327	24023	मेडिमेटिक्स कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
328	24034	कालहरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
329	24039	एक्यूपमेन्ट मार्केटिंग (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
330	24040	केपशेल्स लेबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
331	24049	कॉनवेल कन्ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
332	24053	युनाइटेड इम्पेक्स (कोयम्बतूर) प्राइवेट लिमिटेड
333	24056	विक्टरी केमिकल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
334	24074	सिटी-लिन्क एयरवेस प्राइवेट लिमिटेड
335	24083	श्री सौन्दर्या चिट्स (तंजावुर) प्राइवेट लिमिटेड
336	24087	मेट्रो कुरियर एण्ड कारगो प्राइवेट लिमिटेड
337	24090	हारमोनी अडरवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
338	24102	सीसन्स रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
339	24126	श्री कृष्णा बोरवेल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
340	24213	अगस्तिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
341	24256	श्री अंगाला परमेश्वरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
342	24258	माइक्रोडाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
343	24266	वैश्या चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
344	24303	डेन्टल अमालगेम्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
345	24305	चक्रा एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
346	24307	फालन्क्स गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
347	24310	जे.बी.एस. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
348	24379	श्री सरवना स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
349	24381	वावर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
350	24383	एल.ए.बोय्स (फेशन्स) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
351	24384	नवदीप क्रेडिट एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
352	24387	रॉयल फ्राइट विंग्स प्राइवेट लिमिटेड
353	24393	ब्लू सी अक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड
354	24408	सुपर रिट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
355	24507	श्री राज राजेश्वरी गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
356	24527	किरण रैजिंग प्राइवेट लिमिटेड
357	24532	के.सी.एस. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड
358	24544	न्यू ग्रीन टीक प्लानटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
359	24550	कान्न्वारीस इन्टरनेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
360	24552	श्रीनिवास शेयर एण्ड सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
361	24553	श्री भगवान चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
362	24572	विमोचनम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
363	24582	एस्पना स्टीमर एजेन्सीस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
364	24593	स्काईविंग कारगो प्राइवेट लिमिटेड
365	24596	अरुणोदया सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
366	24651	सिद्धार्थ फायनेन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
367	24652	हीजो इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
368	24676	टेम्पल ट्री प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
369	24679	मास्टर क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
370	24683	सुपर श्रीम्स फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
371	24783	न्यूट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
372	25059	खलीत अक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड
373	25073	मिडास टच कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
374	25080	रॉयल डोमेस्टिक एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
375	25086	एसजी एण्ड एसएस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
376	25093	टेक्नोक्राफ्ट्स कम्बाईन प्राइवेट लिमिटेड
377	25105	क्लोवर इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
378	25147	गीन पेस्टर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
379	25148	मेघा प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
380	25181	जोदी सैट बिड़ी प्राइवेट लिमिटेड
381	25241	लीरा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
382	25244	हार्ड रिजोलूशन विडियो इमेज प्राइवेट लिमिटेड
383	27375	फ्रागरेन्ट फार्म्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
384	27377	श्री राजम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
385	27413	इन्का केब्स प्राइवेट लिमिटेड
386	27419	टेट्रा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
387	27448	मयूर ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड
388	27453	के.के.आर. रेसिडेन्सी क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
389	27492	टूटिकोरिन सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
390	30183	मेक्सीमा मेटल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
391	30191	ग्रीन हेवन प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
392	30196	श्री सामी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
393	30200	वेक्कालीअम्मन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
394	30204	सूरज सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
395	30211	मूकाखिगै फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
396	30225	ओम गणेश स्टील प्राइवेट लिमिटेड
397	30230	मडोन्ना फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
398	30234	राजा रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
399	30245	सीकर्स फार्म्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
400	30255	सीवाश्री चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
401	30269	कोरोनेशन ज्वेलरी मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
402	30311	एम्बियेन्स लीजर होलिडेस् इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
403	30313	एक्सेल मेडीकल टेक्नोलोजिस् प्राइवेट लिमिटेड
404	30318	एन.पी.आर.के. फायनेन्स एण्ड लिजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
405	30323	रतन फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
406	30324	वेक्स फेब्रिक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
407	30327	अक्रोन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
408	30332	मोडर्न लेदरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
409	30335	विजया ग्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
410	30349	इन्डा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
411	30353	श्री करपगा विनायगर सेक्यूरिटीस् प्राइवेट लिमिटेड
412	30365	श्री शक्ति भगवती प्राइवेट लिमिटेड
413	30381	श्री वैष्णवी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
414	30390	टेनवेल्ल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
415	30393	मेजस्टिक बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
416	30400	एसबीआर एग्रो एण्ड शीप फार्म प्राइवेट लिमिटेड
417	30401	नेल्लै बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
418	30406	वर्धमान फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
419	30409	स्टार एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
420	30411	धनन्जयम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
421	30422	मेडिया नेट प्राइवेट लिमिटेड
422	30423	एन्कार केश्यू गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
423	30425	वेंकटेश कोकोनट प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
424	30432	बार्नाबास अर्थ मूविंग प्राइवेट लिमिटेड
425	30433	फेक्सटोन कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
426	30457	रॉयल मेरीटाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
427	30458	प्राइम लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
428	30489	फ्रीज लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
429	30490	धवल फिल्मस् इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
430	30497	सुरेखा हेरबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
431	30505	इन्फिनाइट करियर डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
432	30507	अटलान्टा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
433	30516	रामसरोज अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
434	30523	आदी भगवती स्टील्स एण्ड फेब्रीकेशन प्राइवेट लिमिटेड
435	30532	इम्प्रेसिव फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
436	30576	एमपीके इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
437	30583	क्रेसेन्ट ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
438	30601	तिरुचेन्दुर प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
439	30619	क्वालिटी स्पाइसस् प्राइवेट लिमिटेड
440	30627	के एण्ड के कम्प्यूनिक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
441	30630	टोटल सेफ्टी सोल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड
442	30637	मेघ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
443	30647	जया सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
444	30648	ब्लूसी फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
445	30664	मूलचन्द शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
446	30670	फोनिकस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
447	30686	रजीनी कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड
448	30688	श्री विनायगा फ्लोरी एण्ड होटी प्राइवेट लिमिटेड
449	30705	सुपर फाइन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
450	30735	केडमेक्स कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
451	30742	श्री सरसु एण्ड कम्पनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
452	30757	स्ट्राटेजिक इक्विटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
453	30763	सागर इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
454	30775	अम्बिगा प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
455	30777	वल्ली सुधन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
456	30784	गोखर सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
457	30793	सी रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
458	30805	शोभा कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
459	30833	वर्धमान फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड
460	30835	प्रणाम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
461	30836	चांदनी अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
462	30842	एम.एम.सी. बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
463	30870	ऐश्वर्या फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
464	30875	ब्लू बेल्स फायनेन्सियल सर्विसस लिमिटेड
465	30879	न्यूट्रेण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
466	30894	रोनक फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
467	30896	श्री सत्यासाई स्पाइसस् प्राइवेट लिमिटेड
468	30905	अग्मा बिल्डर्स एण्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड
469	30908	डोली बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
470	30913	सीजेएसके कॉरपोरेट रिस्ट्रिक्चरिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
471	30914	वेन गोघ डेवेलोपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
472	30926	टेलिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
473	30941	मा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
474	30971	कावेरी केपिटल एण्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
475	30979	मोटोरन ऑटो एस्सेसोरीस् प्राइवेट लिमिटेड पीपीआर

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
476	30981	परफिक्स शू कोम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
477	30982	मास एनेर्जी एड्सर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
478	30990	टेरी कोसमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
479	30996	लेखा सोनोटोन रिकॉर्ड म्यूजिक लाइब्रेरी प्राइवेट लिमिटेड
480	31013	टेकनिक्स जियोसिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
481	31015	सिरेमल हीराचन्द ऑटोपार्ट्स लिमिटेड
482	31034	मेक्सीमा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
483	31049	स्वर्ण रत्ना फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
484	31057	सार्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
485	31070	रॉयल स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
486	31073	राम-सुन्दर कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
487	31095	तेनी श्री वेंकटा लक्ष्मी चिटफण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
488	31101	तमिलनाडु एक्स-रे एण्ड स्केन्स प्राइवेट लिमिटेड
489	31102	श्री गुरु शान्ति अग्रो फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
490	31110	ग्लो ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
491	31111	डीप वूड्स एण्ड वाइल्ड फ्लोवर्स प्राइवेट लिमिटेड
492	31112	मोलासर ओरचार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
493	31117	ए.एस.मुत्तू प्लान्टेशन्स डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
494	31124	सुजैन कमर्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
495	31138	मेल्कोन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
496	31139	सिन्डीकेट फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
497	31188	ज्ञानम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
498	31190	अमेजर लेदर प्राइवेट लिमिटेड
499	31193	अय्या तुनै फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
500	31209	मास्को ग्रानेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
501	31215	श्री बालाम्बिका चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
502	31268	राजा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
503	31299	सेवल कोडीयोन फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
504	31300	पोन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
505	31304	माइक्रोफिट ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
506	31305	एक्सेल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
507	31313	महा दीपम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
508	31320	विक्टस् इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
509	31326	स्वाति फाइनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
510	31355	तेन्ल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
511	31361	सदर्न ग्लूस् प्राइवेट लिमिटेड
512	31368	नेचर टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
513	31379	योगम सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
514	31390	प्लैन पेपर कोपियर्स सिस्टम्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
515	31391	रामलास् इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
516	31425	टोपो ग्राफिक्स एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
517	31432	मेक्सीमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
518	31433	के.जी. स्ट्रक्च्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
519	31434	मेक्सीमा क्लोथिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
520	31440	सरवना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
521	31452	पोन कार्तिक मेनपॉवर एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
522	31458	एवीटी अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
523	31459	एम.टी.आर. ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
524	31460	अडरोइट ट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
525	31467	ट्रान्सलाइन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
526	31478	नूरज अग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
527	31479	पोजिटिव एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
528	31480	पीकॉक इलेक्ट्रॉनिक्स फाउण्डेशन लिमिटेड
529	31491	मनी पॉइन्ट फायनेन्सियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
530	31511	बीएसएस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
531	31528	फ्रेण्ड्स फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
532	31533	नांजिल अपार्टमेंट कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
533	31536	ग्रीन इन्वेस्टमेंट फार्म एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
534	31542	अलानविस होमलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
535	31547	श्री एलुमलैयान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
536	31555	अबीरामी अक्वा अन्नेक्सा मद्रास लिमिटेड
537	31568	मेट्रोलाइन फायनेन्स लिमिटेड
538	31569	एईसी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
539	31583	केआरसी फायनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
540	31588	मेरीटेक एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
541	31593	श्री अखिलान्देश्वरी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
542	31599	चोय्स फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
543	31601	शक्ति दुर्गा इंजीनियर्स एण्ड कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
544	31616	विन्टेज हरबल्स प्राइवेट लिमिटेड
545	31622	डिजिटल इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
546	31628	सेल्का वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
547	31635	साई सत्या नारायणा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
548	31644	मेक्सीमा कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
549	31650	नवी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
550	31652	के.के. इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
551	31655	एम.एस. कन्सल्टन्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
552	31661	केवीयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
553	31665	ओरियन्टल ग्लूकोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
554	31671	सदर्न ट्रान्सएयर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
555	31675	श्री सेल्वाबालाजी चिट प्राइवेट लिमिटेड
556	31694	सिप्पी हाउसिंग एण्ड एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
557	31696	रिलायबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड
558	31706	ओम्कार चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
559	31707	सोनीगरा फायनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
560	31708	सतीश लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड
561	31712	भूपति डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
562	31715	बेस्ट इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
563	31716	के.जे.आर. पौलट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
564	31740	दिवियान लेदर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
565	31758	मास मार्केटिंग एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
566	31791	झिग्मा एक्सपर्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
567	31792	सेन्दिल शिवशक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
568	31794	मनी मेनेजमेंट सेक्यूरिटीस् प्राइवेट लिमिटेड
569	31815	वेप ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
570	31817	श्री लेड्स फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
571	31836	इण्ड एयर ट्रीटमेन्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
572	31844	श्री कोपुडैअम्मन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
573	31864	नेताजी सेक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
574	31868	सीटि ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड
575	31925	पीक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
576	31926	रेड्रानसाई फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
577	31981	मेजरवेल इन्टूमेन्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
578	31983	निक्वी कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
579	31997	एयर मास्टर इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
580	32003	हिलिओस एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
581	32011	वेन्टेज अडवरटाइजिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
582	32014	पेन्टागन सेक्युरीटि सर्विसस लिमिटेड
583	32021	फ्रेमिरा फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
584	32046	एडिल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
585	32048	लाया कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
586	32056	सरवना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
587	32061	माइटी टेक्स लिमिटेड
588	32089	वी.आर. इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड लिसिंग प्राइवेट लिमिटेड
589	32090	एम.के.ग्रानैट्स & मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
590	32093	मूकाम्बीकै एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
591	32108	औरो इक्वीटि मैनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
592	32114	युरो शूस प्राइवेट लिमिटेड
593	32122	आरती टेक्सटैल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
594	32130	राफियल टेक्सटैल्स प्राइवेट लिमिटेड
595	32137	गुडवर्थ ओरगार्ड्स लिमिटेड
596	32142	अशा इण्डियन एयरवेस प्राइवेट लिमिटेड
597	32143	अशा विन्ड एनरजी कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
598	32144	अशा विन्ड एनरजी प्राइवेट लिमिटेड
599	32150	श्री विग्नेश्वरा प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
600	32151	तमिलनाडु फाम्स एण्ड हारचेड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
601	32161	श्री साईराम टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
602	32166	केरला ट्रांसपोर्ट सर्वीस (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
603	32169	शिल्पा आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
604	32174	अनुभव सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
605	32179	स्वास अप्पेरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
606	32197	ऐसक & पाल आग्रो फाम्स & फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड
607	32205	सम्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
608	32206	वेरजिन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
609	32207	जे.सिल्वरहिल्स शीप फार्मिंग लिमिटेड
610	32215	ग्रीन पार्क गारडेन्स प्राइवेट लिमिटेड
611	32218	श्री जयम स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
612	32220	ब्रिलियन्ट ऑटो स्पेर्स प्राइवेट लिमिटेड
613	32228	जीवीएल ब्रेडर्स विंग इलक्ट्रीक जेनरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
614	32232	डेल्टा फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
615	32244	पुदुक्कै पेक्टीन प्राइवेट लिमिटेड
616	32254	गलन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
617	32257	तेजस्वी मीनाक्षी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
618	32258	कोकून टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
619	32259	अबलूम फैनान्शियल सर्वीसेस & इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
620	32261	ईवा इलक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
621	32263	वेन्यू ऐस रिटोर्ट फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
622	32285	पळमुदीर सोलै आग्रो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
623	32304	पलाई हाई सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
624	32308	पी&डब्ल्यू ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
625	32323	फेब्टेक्स एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
626	32324	ब्रूकेम्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
627	32328	वेट्रीवेल हायर परचेज एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
628	32331	श्री विरिजेस्वरी मेरगन्डैसरस प्राइवेट लिमिटेड
629	32335	अबे फिन्स्टाक प्राइवेट लिमिटेड
630	32350	ईगल इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
631	32357	कपिटल शिप्पेर्स एण्ड कोरियर सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
632	32369	मीरा चिट् फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
633	32390	फैव् फाल्स होटल्स & रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
634	32403	फारमालाइड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
635	32407	इन्टिग्रेटेड बिजनस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
636	32421	सिंगर फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड
637	32446	पकालोन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
638	32447	इसण प्रोपरटी फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड
639	32454	कुन्बा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
640	32460	गोल्डन हिल ग्रीन फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
641	32465	सउद फसिपिक लेदर इम्पोरट्-एक्सपोरट् प्राइवेट लिमिटेड
642	32466	परफेक्ट मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
643	32469	एनएसएम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
644	32470	सशी फैनान्शियल एण्ड टेक्निकल सरवीसेस लिमिटेड
645	32481	कसिनो रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
646	32486	गेलाड़ा रीम्स प्राइवेट लिमिटेड
647	32488	प्रोफेशनल असोसियेट्स कणसल्टेन्ट्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
648	32491	कन्सूल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
649	32514	नैस निट्टेर्स प्राइवेट लिमिटेड
650	32516	सदर्न एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
651	32518	आर.के.सिस्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
652	32524	इसण बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
653	32534	श्री राजेश्वरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
654	32542	जियन्ट ब्लूमेन्टेल्स प्राइवेट लिमिटेड
655	32543	न्यूटन इन्डस्ट्रीरियल डेवलपमेन्ट कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
656	32548	मेक मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड
657	32554	आशीमा हॉस्पिटल एण्ड हेल्थ केयर लिमिटेड
658	32560	मल्टीपल एग्रो-टेक लिमिटेड
659	32561	हिल क्वीन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
660	32562	मार्स हारडवेर्स प्राइवेट लिमिटेड
661	32569	ग्रीन हेवन बिल्डर्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
662	32571	ग्रीन हेवन होलिडे रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
663	32574	रस्मी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
664	32581	एग्रोस्केप बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
665	32593	जेएमसी प्रोमोटेर्स प्राइवेट लिमिटेड
666	32615	रतीनवेल सुब्रमण्णीयम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
667	32616	रतीनवेल सुब्रमण्णीयम् फौनान्स प्राइवेट लिमिटेड
668	32648	सिग्नल टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
669	32659	आरक् है-टेक कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
670	32672	क्यूक मैन्डेयिनेन्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
671	32676	मायोपुरा होली रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
672	32688	श्रीसिवा ट्रेवल्स एण्ड बिजनेस कॉन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
673	32692	अम्बासडर लिजिंग एण्ड फायनेन्स लिमिटेड
674	32707	डिक्वीजै मारकेटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
675	32711	पेगासस कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
676	32720	फ़िक्वीयेन्सी मिडिया सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
677	32735	योगम फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
678	32744	एमबीआरएन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
679	32750	सिलोम् इवनजीलिकल मिशीन प्राइवेट लिमिटेड
680	32756	रामजयम बिल्डर्स लिमिटेड
681	32763	विकेवी हिल्ल गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
682	32778	जे.आर.वी.एस. फायनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
683	32781	क्रिस्टाल बिसिनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
684	32796	शिम्ला स्टील एण्ड अलाइड प्राइवेट लिमिटेड
685	32800	अक्शीता गारमेन्स प्राइवेट लिमिटेड
686	32802	अण्णै चिन्ता मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
687	32812	राडम वेदर सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
688	32813	साइनाड् सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
689	32814	एल्लाम वल्लन बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
690	32822	ए.सी. फायनेन्स मेनेजमेंट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
691	32823	गोल्डन डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
692	32835	इम्पाक्ट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
693	32876	रेम इम्पेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
694	32887	एस्सेम ग्रीन वोरट् प्राइवेट लिमिटेड
695	32891	डी-वेल एकाडमी फॉर इको टूर्स एण्ड अडवेंचर स्पोर्ट्स लिमिटेड
696	32897	जेवीआर फार्म रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
697	32907	देनी ओम सक्ती चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
698	32919	वीजीएम गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड
699	32920	क्लीफ़ इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
700	32929	आर.डी. ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
701	32932	जीके इन्वेस्टमेन्ट्स रिचर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
702	32939	रायल टीक एण्ड आग्री प्लान्डेशनस प्राइवेट लिमिटेड
703	32945	पिच्चावरम् गोल्डन अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
704	32955	एमएमआर प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
705	32959	आर्म्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
706	32960	अग्नि मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
707	33008	अमेरिसन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
708	33014	शेल्डन ब्लू मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
709	33016	करेन ब्लू मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
710	33025	वेक्स कम्प्यूटर फोर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
711	33029	हाई पॉवर इलेक्ट्रीकल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
712	33032	श्रीपुरम बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
713	33051	जेबीआर प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
714	33057	एसजे प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
715	33060	ई सी वी एग्री फार्म्स लिमिटेड
716	33069	श्री अय्यनार स्पिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
717	33074	विश्वास चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
718	33075	टेलन्ट इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फायनेन्सियल्स प्राइवेट लिमिटेड
719	33079	सदर्न तार प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
720	33088	श्री वेंकटेश्वरा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
721	33089	एनएमके फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
722	33091	एनएमके कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
723	33095	क्लैरवोयी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
724	33097	लतास् टेक्सटाइल्स लिमिटेड
725	33121	डी.पी.बिटमेट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
726	33126	तेनी श्री अंगालेश्वरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
727	33143	ग्रेन्डयूर सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
728	33152	माइक्रोफाइन मिनरल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
729	33160	क्वानटम आइडियास् एण्ड सपोर्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
730	33169	एस.बी.ए. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
731	33176	मद्रास जनरल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
732	33194	श्री इन्वेस्टमेन्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
733	33220	सोलंकी फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
734	33222	एन्को मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
735	33229	कलाकृति इम्पोर्टस् प्राइवेट लिमिटेड
736	33237	साकल्या एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
737	33239	श्री करपगाविनायगर स्टॉक एण्ड शेयर्स लिमिटेड
738	33261	रोला एग्रोटेक फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
739	33304	पूवूलागिन नन्बरगल कन्सुल्टिंग एण्ड इन्फार्मेशन प्राइवेट लिमिटेड
740	33306	घेन्जी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
741	33342	अदुलाथ फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
742	33352	परीमलेश्वरर फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
743	33355	एजेटी सेक्यूरिटीस् प्राइवेट लिमिटेड
744	33363	श्री रासी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
745	33368	गंगा कावेरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
746	33375	वाटन फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
747	33392	अबीरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
748	33421	विन्फ्रेड असोसियेट्स एक्जीम प्राइवेट लिमिटेड
749	33445	बुचानन केपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
750	33477	इमयम क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
751	33478	पी आर के फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
752	33495	वी आर स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
753	33508	मोहता फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
754	33536	बालासाई शेयर्स एण्ड सेक्यूरिटीस् प्राइवेट लिमिटेड
755	33542	कलंगी इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड सेक्यूरिटीस् लिमिटेड
756	33547	फू जेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
757	33554	पेरफिक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
758	33559	क्रिश डाटा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
759	33587	नन्दीनी डेयरी एण्ड एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
760	33607	यूनिकार्ड मार्केटिंग सीबीई प्राइवेट लिमिटेड
761	33627	क्वीनटेस्सेन्स मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
762	33629	सागा नीटिंग प्राइवेट लिमिटेड
763	33639	क्लासिक सुपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड
764	33641	फेशन्स कोस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
765	33651	गे फिन्सेर कॉरपोरेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
766	33659	अनुभव इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
767	33661	ए जे इन्फोरमेशनस प्राइवेट लिमिटेड
768	33666	सन्ट्रान फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
769	33667	सन्ट्रान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
770	33672	ऐश्वर्या क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
771	33674	कॉसमोस फोरेस्ट लिमिटेड
772	33703	रॉयल फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
773	33719	एएटी सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
774	33733	जीसेन फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
775	33734	जी डी हाई टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
776	33743	आंजनेया पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड
777	33746	कान्द्रास्ट अडवरटाइजिंग एण्ड डिजायनिंग एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
778	33762	लॉगमेन ट्रेडिंग इण्डिया लिमिटेड
779	33773	केट्टल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
780	33779	सुबीश प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
781	33789	अनुग्रहा गोत फार्म प्राइवेट लिमिटेड
782	33815	तिरुमगल लिजिंग लिमिटेड
783	33843	ट्रोपिकाना सॉफ्टवेयर लिमिटेड
784	33854	एलिम हाउसिंग एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
785	33863	रिलोझ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
786	33865	कमला शन्मुगा फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
787	33870	मदुरै विनायका विविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
788	33874	अन्नै गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
789	33878	वैगै सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।
790	33882	इभार फेशनस प्राइवेट लिमिटेड
791	33906	जोदी इण्ड फिन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
792	33908	सीम्मीन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
793	33910	सिल्वर हेम्पर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
794	33920	वास्तु होम्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
795	33960	हिन्दुस्तान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
796	33979	राइट चॉयस प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
797	33982	मेरलिन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
798	34001	डिजिटल चैनल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
799	34005	डायनाको कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
800	34016	सुगन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
801	34031	गोल्डन विंग एड्स प्राइवेट लिमिटेड
802	34037	श्री अकिला फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
803	34039	किस्मत इन्वेस्टमेन्ट एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
804	34044	संघमित्रा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
805	34060	ओस्मानिक आइल मिल प्राइवेट लिमिटेड
806	34063	पाम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
807	34065	कलिमा ट्रेवल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
808	34069	सी एन ए सॉफ्ट विज़न प्राइवेट लिमिटेड
809	34071	टेक्नो ट्रेसिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
810	34079	टॉपनोट्स कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
811	34086	लेजेण्ड इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
812	34092	पैलेस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
813	34094	गीत सागर प्रोपर्टिस प्राइवेट लिमिटेड
814	34097	तिरुच्ची केटल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
815	34108	श्री मूकाम्बिकास चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
816	34112	स्वाति स्पाईस एण्ड कोण्डिमेन्ट्स लिमिटेड
817	34141	वेत फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
818	34143	मीझान कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
819	34146	प्रियादीप फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
820	34170	सनशाइन हेल्थ फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
821	34172	मणी मणी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
822	34176	जेट होलिडे टूर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
823	34177	मेक्रो चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
824	34199	सन फ्रूट प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
825	34217	भगत मिनरल्स प्रोसिसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
826	34237	विजयलक्ष्मी फ्लोरिटेक प्राइवेट लिमिटेड
827	34256	जीवीआर फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
828	34259	ट्रेवल सर्विसस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
829	34292	स्विफ्ट एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
830	34296	वेल पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
831	34312	विमल ऑटो फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
832	34314	मदर इण्डिया गोट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
833	34324	ट्राइडेन्ट मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
834	34373	ईस्ट वेस्ट अक्वा वेन्च्यर्स प्राइवेट लिमिटेड
835	34377	डेक्कान एयरलायन्स प्राइवेट लिमिटेड
836	34399	इल्लमोर्या स्क्रीप्स एण्ड सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
837	34410	शक्तिवेल असोसियेट्स आरकितेक्चर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
838	34411	श्री कालीगाम्बाल एग्रो गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड
839	34424	जेयास चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
840	34435	श्री वैद्यनाथ टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
841	34484	वी जी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
842	34499	आरबी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
843	34505	जे आर मैराइन फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
844	34528	सरवना फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
845	34532	अल्फा केड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
846	34534	जार्ज बदर्स फ्लेट प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
847	34581	झीयोन फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
848	34847	शक्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ हाउसकीपिंग प्राइवेट लिमिटेड
849	34863	सुन्दर चिट्स मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
850	34866	प्लेसेन्ट प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
851	34872	सेनग्यूनो मेडी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
852	34873	राजदान बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
853	34879	ग्राम्स स्ट्रकचर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
854	34880	तमिल पाण्डियन चिट्स तिरुच्ची प्राइवेट लिमिटेड
855	34890	एमके ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
856	34892	तमिलनाडु थर्मोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
857	34897	ब्लूमाउण्ट एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
858	34904	आरफा (इण्डिया) फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
859	34906	माबेल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
860	34907	केनान टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
861	34930	जे के डिकोइलर्स प्राइवेट लिमिटेड
862	34948	अप्पाका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
863	34949	भार्गवा मल्टीमीडिया इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
864	34952	डीएमआर लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
865	34956	वलर होम्स प्राइवेट लिमिटेड
866	34957	श्री शंखेश्वरा फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
867	34959	आरुधरा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
868	34960	अहाना सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
869	34974	जे ए जे टेलिकोम सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
870	34982	अन्नैकनी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
871	34983	इण्डो एशियन स्टील्स एण्ड एल्लोयस् प्राइवेट लिमिटेड
872	34992	कम्बम अन्नै ऑटो फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
873	34996	चक्रा अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
874	35032	एमए कान्टेक्ट क्लब प्राइवेट लिमिटेड
875	35039	धनवन्तरी मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
876	35041	वीटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
877	35127	झूम विजन प्राइवेट लिमिटेड
878	35141	हॉक इंजिन्स प्राइवेट लिमिटेड
879	35268	देवकी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
880	35602	सीएमएस शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
881	35613	सी.पी.एन. चिट् प्राइवेट लिमिटेड
882	35615	हैटेक लाम्स प्राइवेट लिमिटेड
883	35618	पेरम्बूर पौल्ट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
884	35625	मोनाच इन्जीनियर्स & कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
885	35627	फिडी फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड
886	35631	सार एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
887	35632	क्वालिटी चिट्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
888	35640	डीनेस नीटवेर्स गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
889	35656	अट्लांटिक कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
890	35668	अश्वीन नीटवेर्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
891	35669	अरुल ट्रेड्स & एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
892	35678	रोमला एयर्ड मुवर्स प्राइवेट लिमिटेड
893	35680	सचीया सिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
894	40021	शिरडी साई महाराज मार्केटिंग सर्विसस एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
895	40023	विशाल क्लोथिंग्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
896	40037	जयन्ती होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
897	40040	केवीआर फूड्स एण्ड सर्विसस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
898	40088	सक्सेस पोलिमर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
899	40124	परफेक्ट लिन्क सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
900	40140	कदीरवन कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
901	40145	प्रिया इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
902	40146	श्रीदी आण्डवर एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
903	40251	हेप्पी रेजिडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
904	40350	एएनएन चेरियन्स ट्रेवल हाउस प्राइवेट लिमिटेड
905	40400	सैबेर सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
906	40402	चैतन्या फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
907	40403	ए.आर. हाउसिंग एण्ड एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
908	40410	एआरआर ताम्पूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
909	40411	रेसॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
910	40413	वेस्टा मार्केटिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
911	40419	तिल्लै टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
912	40424	होटल श्रीराम नल्लामणी प्राइवेट लिमिटेड
913	40436	पी.जी. हाई वेल्थू एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
914	40448	लोटस् पेइन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
915	40478	विमग्रास शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
916	40479	प्रसन्ना इम्पोर्टर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
917	40483	जी सी एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
918	40493	टीवी मीडिया मार्केटिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
919	40495	ओमेगा मारीटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
920	40498	चेन्नई टेलिवर्किंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
921	40546	विसागम कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड कान्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
922	40547	प्रीथिपाल हाइ-टेक एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
923	40569	सर्टिफाइड मार्केटिंग सर्विसस इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
924	40584	कस्टोस्स फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
925	40644	इन्टेलिजेन्स फॉर जेनेरेटिंग अडवान्स कम्प्यूटर इजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
926	40671	विशाल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
927	40673	ए.जी.पी. फायनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
928	40702	इन्दुशक्ति कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
929	40714	विक्टरी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
930	40753	रिलायन्ट मेनपॉवर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
931	40759	इडनेट इन्फोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
932	40767	टीएसई शूस प्राइवेट लिमिटेड
933	40824	वैकटेश्वरा फोन्स प्राइवेट लिमिटेड
934	40973	अम्बाडी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
935	42476	सुपर पेक्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
936	44000	सीआर माइक्रोटच पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
937	44036	लिन्क्स नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
938	44040	वेब कम्प्यूटर्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
939	44043	सेन्टम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
940	44237	सुन्दरागणपति चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
941	44416	जेड कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
942	44480	ब्राडबेण्ड टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
943	44673	ईएलएसआर कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
944	44676	ओमेगा सिग्नलमेट्रिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
945	44687	माट्टु सन्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
946	44688	वेट्री मारुती पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
947	44695	क्लाराबेन्स कन्सलटेन्सी एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
948	44697	टूनेट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
949	44703	श्री येम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
950	44709	कोरोनेशन प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
951	44713	टाइकून प्रोडक्शन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
952	44729	डोक्टनेट प्राइवेट लिमिटेड
953	44730	औरोविन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
954	44734	मीकामण्डपम् के.पी.एस. फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
955	44740	प्रिया शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
956	44743	श्री विद्यालक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
957	44753	आर.आर.एन. एण्ड असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
958	44785	निस्टेम्स लोजिस्टिक्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
959	44786	सुखदेव डेक्कान फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
960	44797	यामी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
961	44798	अरुहु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
962	44822	मालिक टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
963	44836	उषोदया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
964	44838	शोलिंगर डाइयिंग एफ्फुलेंट ट्रीटमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
965	44840	टू स्टार ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
966	44843	कलैमगल कोच प्राइवेट लिमिटेड
967	44850	पसुपती डेयरीस प्राइवेट लिमिटेड
968	44866	जम्प सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
969	44872	प्राइस मिडिया प्राइवेट लिमिटेड
970	44876	विजयदत्ता मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
971	44882	क्वालिटी क्वेस्ट एक्चूपमेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
972	44884	श्री वाणी स्टील एण्ड फोरजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
973	44892	थर्ड मिल्लेनियम कम्प्यूटर्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
974	44898	जेसमारिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
975	44900	इण्डोपेल्ल लेदर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
976	44908	जग वरणम फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
977	44921	एम-डायरेक्ट इण्डिया मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
978	44958	ईआरएल सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
979	44976	आर्डरोन्नेट.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
980	44993	श्री टायर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
981	44999	पोर्टल पोटेन्शियल.कॉम प्राइवेट लिमिटेड

डी. सूर्यनारायणा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :—

चेन्नै, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. 14016 से 40920 तक/560(3)/SUO MOTTO-2006—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	14016	सी टी हीट एण्ड मास प्राइवेट लिमिटेड
2	14039	सिवा गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	14053	मोती फिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
4	14069	यू एण्ड मी कन्स्यूमर्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
5	14077	प्रियदर्शनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	14103	के बी सुब्रमण्यम ' असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	14106	एनजे फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	14113	लोटस अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	14118	चक्रा होममेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	14126	कैलाश ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
11	14140	लक्ष्मी मोरोक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	15110	मोहनोत कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
13	15114	सिल्वरशिप रियल एस्टेट कं. प्राइवेट लिमिटेड
14	15117	ग्रिनसीस शिपिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड
15	15119	किस्गो शूज प्राइवेट लिमिटेड
16	15128	कार्गो विंग्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
17	15143	बोजाज़ बोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	15147	कारैकुडी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	15150	मरक्यूरी हाऊसिंग डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
20	15191	केम पेक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
21	15226	रुद्रम प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	15242	वासन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
23	15243	लायन ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	15249	सदर्न कार्बाइड्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
25	15251	अमरावती इंजिनियरिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड
26	15252	विडकॉम केमरा एण्ड एसेसोरिस् प्राइवेट लिमिटेड
27	15295	टाप-स्टिच प्राइवेट लिमिटेड
28	15311	वि जे कमर्शियल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	15312	कंगारू इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	15409	शुभरागम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
31	15411	अन्नामलैयार जेनरल एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	15446	जी बी मिनेरल्स एण्ड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
33	15447	कन्द एण्ड सूरी लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	15449	डेल्टा ब्रॉइलर फार्म प्राइवेट लिमिटेड
35	15452	स्काइलाइन कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	15454	ट्रिनिटी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	15473	ओसियन ब्लू शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
38	15530	अश्विन मेडीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
39	15620	सारथी ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
40	15631	रेंक्स ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
41	15634	ओम-इण्ड इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
42	15640	श्री लक्ष्मी ओर्नामेन्ट्स मेन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
43	15677	एनरिचड केमिकल्स एण्ड रिफायनेरी प्राइवेट लिमिटेड
44	15685	सेन्चूरी डिटेक्टिव एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
45	15694	चेन्दुर कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
46	15729	एकाडेमिक साइन्टिफिक टेक्निकल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
		मंगल चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
48	15762	ओयसिस विडियोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
49	15831	मेडीसोनिकस प्राइवेट लिमिटेड
50	15838	आदित्या मल्टी वाल सैक्स प्राइवेट लिमिटेड
51	15867	विडियो बैंक प्राइवेट लिमिटेड
52	15869	तेज फेशनस् प्राइवेट लिमिटेड
53	15870	नील्स टेक्नो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
54	15877	मुरली मैराइन एंसिल्लेरीस प्राइवेट लिमिटेड
55	15878	गंगाधरन स्पिन्निंग मिल प्राइवेट लिमिटेड
56	15884	एस.एम. असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
57	15909	ईमयम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	15910	योगाम्बिगै पुलवेरीसर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
59	15917	इन्टर एड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
60	15919	श्री गणेश लीथो प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
61	15945	लेक्स शूस प्राइवेट लिमिटेड
62	15946	माकाबीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	15968	गेलेक्सी बेटरी प्राइवेट लिमिटेड
64	15973	शनशाइन अब्रासीव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
65	15974	रोहिणी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
66	16017	आर्या गेलवानिसिंग प्राइवेट लिमिटेड
67	16018	बीहियर टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
68	16021	अनन्था फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
69	16024	पोन्नी वालानाडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
70	16043	तिरुच्ची टेन्निंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
71	16044	बारर पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
72	16048	आर्ट सिनेमाटोग्राफी ग्लोरियस डेवेलोपमेन्ट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
73	16064	श्री साईलाम एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड
74	16081	शोरलाइन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
75	16084	सूयामेन्डेर इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
76	16085	इन्टान केम्स प्राइवेट लिमिटेड
77	16087	विजया आदित्या सोह सेन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
78	16092	पेस ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
79	16152	प्रार्थना फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
80	16201	जेनेक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
81	16244	सेलेक्ट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
82	16253	नेल्स ट्रेडिंग एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
83	16254	कल्पक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
84	16257	शटल कूरियर प्राइवेट लिमिटेड
85	16258	श्री मीनाक्षी फिशेरीस प्राइवेट लिमिटेड
86	16260	सुजाता एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	16262	श्री मरुधरकेसरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
88	16262	श्री मरुधरकेसरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
89	16270	सनजीत लूम्स प्राइवेट लिमिटेड
90	16297	राखी ग्रेनाइट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
91	16344	सुप्रीम विडियो प्राइवेट लिमिटेड
92	16347	मद्रास लेदर गार्मेन्ट्स एक्सपोर्टर्स कन्सोरटियम प्राइवेट लिमिटेड
93	16383	मेर्क हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
94	16439	गुडविल शूस प्राइवेट लिमिटेड
95	16445	हाईटेक अडेटिव्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
96	16462	रॉयलक्स कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
97	16470	सी-सेट मेन्युफेक्चरर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
98	16485	तंजै फिशेरीस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
99	16488	तमिलनाडु वायर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
100	16491	ललित पोलिपेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
101	16499	साउतो फायनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
102	16529	अपेक्स अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
103	16534	रामकृबा फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
104	16539	एवरग्री इंजीनियरिंग कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
105	16540	एम्ब्रोनिक्स टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
106	16548	केयेम इण्डस्ट्रीयल वाल्वस् प्राइवेट लिमिटेड
107	16721	मेट्रीक्स अडवरटाइजिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
108	16762	सिनेटेक्स कम्प्यूटर डिवाइसस प्राइवेट लिमिटेड
109	16769	पुरुषोत्तम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
110	16808	पोलिमेड लेबोरेक्टोरीस प्राइवेट लिमिटेड
111	16825	आर. जे. ग्लास एण्ड प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
112	16826	सिस्टम्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
113	16829	बालसरवणा चिट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
114	16831	श्री अरुल मुरुगन फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
115	16832	सन्तनाम सारीस एन सी प्राइवेट लिमिटेड
116	16869	रेडहेक्स कोरेशन कन्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
117	16891	बालाजी स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड
118	16966	एक्स्ट्रूप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
119	17053	तुलीप बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
120	17072	एम. के. फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
121	17123	इण्डियन लिक्विड गैस प्राइवेट लिमिटेड
122	17189	हन्शेल ट्यूब्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
123	17204	आप्पोलो वाल्व प्राइवेट लिमिटेड
124	17206	स्वागत लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
125	17226	हेरिटेज वायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
126	17303	अम्मा चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
127	17307	पर्ल फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
128	17324	श्री चक्रा रब्वर इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
129	17326	वीना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
130	17327	प्लास्टिक फेन्स प्राइवेट लिमिटेड
131	17342	वेदिक औषधालया प्राइवेट लिमिटेड
132	17371	इण्डस्ट्रीयल क्लोथिंग कम्पनी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
133	17388	अलावी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
134	17467	ए.के.जी. सिने आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
135	17477	फाउण्डेशन इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
136	17478	ट्रान्स अल्यूमीनियम कण्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
137	17484	स्टेल्लर बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
138	17496	बिल्डिंग इन्वेस्टमेन्ट एण्ड डेवेलोपमेन्ट सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड
139	17519	एस.पी. सोलवेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
140	17525	सीटी रियल एस्टेट एण्ड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
141	17530	श्री ह्याग्रीवा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
142	17533	फ्लोरेन्टाइन एग्रो इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
143	17552	शिवासंकरा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
144	17553	भक्ति लिजिंग फण्ड्स लिमिटेड
145	17568	श्री कामाक्षी टाइल्स एण्ड मोनुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
146	17618	सफारी पैक प्राइवेट लिमिटेड
147	17660	श्री पलनीयप्पा फायनेन्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
148	17671	तुंगभद्रा एल.पी.सी. एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
149	17672	ऐसटेक शूस प्राइवेट लिमिटेड
150	17772	एच.टी. एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
151	17791	ऑलमाइटी पोलिमर्स एण्ड रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
152	17796	रामाकृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
153	17802	रिच रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
154	17830	जीआर मेनेजमेन्ट एण्ड फायनेन्सियल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
155	17846	गौतम पब्लिसिटीस प्राइवेट लिमिटेड
156	18262	लेसर ग्राफिक्स रेप्रो सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
157	18270	फार्मा हुवेट प्राइवेट लिमिटेड
158	18293	विश्वक सेवा फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
159	18310	विग्नेश्वर कम्प्यूटर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
160	18406	एबीनेजर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
161	18417	सान्ता इण्डस्ट्रीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
162	18425	एस आर के फाइन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
163	18429	श्री रामचन्द्रा केटल फीड इण्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
164	18495	औरोशिका केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
165	18498	औरोमा कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
166	18501	लेदर आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
167	18520	स्टार एलिवेटर्स एण्ड एक्जूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
168	18525	प्रागमेटिक एक्सीम्पो प्राइवेट लिमिटेड
169	18529	विष्णु प्रिया होम एप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड
170	18538	ब्राइटवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
171	18573	चोलापुरम रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	18575	मद्रास इन्स्टीट्यूट ऑफ साइकोलोजिकल मेडीसिन
173	18590	सदर्न मिल्लिंग सिस्टम्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
174	18653	टेलीस्केन आर्ट क्रियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
175	18712	शंकहरा एप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
176	18886	मेहेर-हम शूस प्राइवेट लिमिटेड
177	18893	देवी सोलवेन्ट एक्सट्राक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
178	18895	लेट्राग्राफी साइन्स प्राइवेट लिमिटेड
179	18900	अरुण लियो शूस प्राइवेट लिमिटेड
180	18963	ओम वेल फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
181	18965	श्री अनुशम कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
182	18992	अम्बिका फ्लोरिंग टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
183	19018	चिन्तादरीपेट फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
184	19062	इन्वोल्यूट हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
185	19113	बालाजी लेदर फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
186	19119	जिन्ना स्टील एण्ड अलोईस् लिमिटेड
187	19548	वेड्ज ऑटो बल्बस् प्राइवेट लिमिटेड
188	19582	क्लास शूस कं. (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
189	19670	बीहीव टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
190	19694	बेनार शिपिंग एण्ड क्लीयरिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
191	19760	फायबर बॉण्ड पोलिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
192	19777	श्री थिल्लै वेंकटेश्वरा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
193	19872	सुराश्री ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
194	19968	सदर्न टूल्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
195	20053	राजदूर्गा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
196	20054	एस के पेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
197	20163	बंगाल पर्ल शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
198	20170	जमानी पेपर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
199	20172	गेलेक्सी फोर्जिंग एण्ड मेटल कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
200	20201	डायना डिटेरजेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
201	20202	दिव्या पेकेजिंग सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
202	20203	डेक्कान रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड
203	20220	विचर्यूअल सैनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
204	20268	विकास लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
205	20273	ड्यूटस्चे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
206	20288	लॉरेल एजेन्सिज प्राइवेट लिमिटेड
207	20292	रिसर्च एण्ड मिडिया कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
208	20294	जेन्सल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
209	20301	राजा एस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
210	20324	एनडीआर इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
211	20448	गणेश वेल्ली टी प्राइवेट लिमिटेड
212	20517	अनुशुका कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
213	20518	बंसल केमलाइन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
214	20519	के एस एम टेक्सटाइल्स (मद्रुरै) प्राइवेट लिमिटेड
215	20530	गजानन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
216	20531	ई आई टी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
217	20536	गौतम प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
218	20572	इम्पिरियल स्टोन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
219	20574	सिलिकॉन सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
220	21144	ओम शक्ति ऑक्सिजन प्राइवेट लिमिटेड
221	21152	आर्यास लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
222	21172	मेन्सफील्ड चिटफण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
223	21177	सदर्न फेशनस् प्राइवेट लिमिटेड
224	21202	कार्तिक फिशेरीस् प्राइवेट लिमिटेड
225	21326	टेकोट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
226	21327	राजदर्शनस् लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
227	21332	गौरीशंकर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
228	21359	न्यू एरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
229	21374	बैट राइट डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
230	21393	अलीम एण्ड इकबाल कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
231	21411	मद्रास मूवी लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
232	21451	ओप्टिमा डाटा लोजिक प्राइवेट लिमिटेड
233	21452	धनधारा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
234	21453	रेंगा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
235	21458	श्री रंगा गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
236	21466	केरवेल्ल होम्स प्राइवेट लिमिटेड
237	21467	रामवी इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड हायरपर्वेज कं. प्राइवेट लिमिटेड
238	21480	उत्तम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
239	21483	हॉडोन प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
240	21484	वैष्णवी होम प्रोडक्ट्स एण्ड अप्लायन्स प्राइवेट लिमिटेड
241	21487	ट्रिनिटी सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
242	21488	आधारम अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
243	21491	अम्मीराजु इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
244	21493	पॉम्स प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
245	21502	श्री रंगा टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड
246	21553	सुजडाग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
247	21650	धीयाज कन्सट्रक्शन एक्वूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
248	21667	न्यू भारत सूज़ प्राइवेट लिमिटेड
249	21675	इन्टर-इंजिनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
250	21691	एसवीएस रोक्कीन स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
251	21698	शेरवुड ग्रेनाइट ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
252	21752	इम्मेल ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड
253	21753	होरिजोन क्राफ्ट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
254	21788	सिल्वर कलर लेब प्राइवेट लिमिटेड
255	21822	बीवीएम रिजोर्टस् कॉम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड
256	21831	श्री कुमारन चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
257	21848	विजयश्री हाऊसिंग एण्ड डेवेलोपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
258	21869	अल्मेक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
259	22012	एनिटाइम फूड्स एण्ड बिबेरेजस् प्राइवेट लिमिटेड
260	22013	अर्गुस् सॉफ्टवेयर सर्विसेस् प्राइवेट लिमिटेड
261	22019	ओवरसीस मेकैन्ट्राइल प्राइवेट लिमिटेड
262	22024	रिप्रो लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
263	22025	हनीफा प्लान्टेशन्स् प्राइवेट लिमिटेड
264	22034	सेल्सियन डाटा फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
265	22037	श्री वडुवामबिगै ट्रान्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
266	22061	मैनियर इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
267	22066	शुभश्री इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
268	22084	टेली विक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
269	22132	श्री शक्ति साई इडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
270	22138	तिरुवेंगडम फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
271	22156	पुष्पावल्ली फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
272	22179	श्रीपती चिट्स मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
273	22183	अल्टिमेट एयरफ्राइट प्राइवेट लिमिटेड
274	22186	अंडिधश्वरा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
275	22188	नागा एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
276	22189	जेम्स-नॉर्टन मेशिन्स प्राइवेट लिमिटेड
277	22190	स्टेला मॉरिस स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
278	22198	योगम रियल एस्टेट्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
279	22202	इन्जापनेड गेरिटा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
280	22203	निधिप्रिया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
281	22204	प्रभात ट्रेवल्स एण्ड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
282	22205	तिरुमला होसियेरीस प्राइवेट लिमिटेड
283	22206	ग्लिट ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
284	22215	विक्टरी मूवीस प्राइवेट लिमिटेड
285	22265	कोन्सोलिडेटेड अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
286	22267	एसजी अल्लोय कार्स्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
287	22271	जीएनआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
288	22273	ट्रेमेन्डाऊस लेडर प्राइवेट लिमिटेड
289	22276	ए एण्ड ई ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
290	22282	अबीरामी सरफेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
291	22285	एवीआर-भारत ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
292	22286	के एल एण्ड एम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
293	22287	वर्जिता होसियेरिस प्राइवेट लिमिटेड
294	22338	जेफकोट्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
295	22339	कीवितास् शू एण्ड लेडर प्राइवेट लिमिटेड
296	22342	विन्टेज इन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
297	22353	पारामाउन्ट रबबर प्राइवेट लिमिटेड
298	22372	इक्सको (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
299	22383	पॉक बे इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
300	22386	सेल सेबिल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
301	22393	मोनिग्यू अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
302	22437	नेयवेली चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
303	22438	डिलेगेन्ट फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
304	22443	क्रिश माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
305	22448	गौवेल गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
306	23011	हनीवेल पेकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
307	23014	नवन रोड टेक्स् प्राइवेट लिमिटेड
308	23024	टी डी एस बिल्डर्स एण्ड प्रोमोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
309	23032	प्रीमियर टीक फार्म प्राइवेट लिमिटेड
310	23043	लिंगम लिजींग एण्ड फाइनेन्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
311	23044	सुनेजा फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
312	23046	प्रोग्रेसिव प्लान्टेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
313	23073	हाउसेर शूस प्राइवेट लिमिटेड
314	23129	टॉप नोच फाइनेन्सियर्स प्राइवेट लिमिटेड
315	23133	शक्ति लक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
316	23155	तमिल अरसी पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
317	23190	चेन्नई आर्क प्राइवेट लिमिटेड
318	23210	डाटापंच सिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
319	23213	तमिलनाडु टीक प्राइवेट लिमिटेड
320	23215	शिवशक्ति प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
321	23216	कामीज़ टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
322	23260	अबेरदीन स्टीमर एजेन्सीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
323	23279	राकेश एकजीम प्राइवेट लिमिटेड
324	23301	तेनाम्बिका चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
325	23323	जोयनअस बिजिनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
326	23349	रोयल अक्वा प्रोटक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
327	23363	मेलिन होटल्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
328	23388	सेवन हिल्स अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
329	23396	थेनी श्री शक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
330	23398	नोहस फिशेरिस् प्राइवेट लिमिटेड
331	23399	श्री लेड्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
332	23403	श्री रामजयम बेनेफिट फण्ड लिमिटेड
333	23410	श्री गौरी अम्बिका चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
334	23411	श्री सेल्वा तिरुपति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
335	23415	क्रूडसेर राइटिंग इन्व्हेन्टस् प्राइवेट लिमिटेड
336	23425	ओप्टिमल एनेर्जी सोलुसन्स प्राइवेट लिमिटेड
337	23426	मणी फाइनेन्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
338	23428	शुक्रा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
339	23433	राजेश्वरी पेकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
340	23441	सोर्नासागर हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड
341	23450	कानिका फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
342	23464	एस एफ चिट फण्डस् प्राइवेट लिमिटेड
343	23467	सरन टोय्स प्राइवेट लिमिटेड
344	23468	डेय्टी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
345	23492	यामिन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
346	23498	प्रागोसा वेन्चर्स लिमिटेड
347	23501	कान्धेरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
348	23507	कल्पना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
349	23514	त्रिशूल ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
350	23515	केसीआर प्लान्टेशन्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
351	23518	जे जे मेराइन प्रोडक्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
352	23520	कुमारी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
353	23531	असेण्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
354	23534	सीबी फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
355	23535	शक्तया मणिकन्दन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
356	23537	रत्ना इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
357	23539	कॉमडेट माइक्रो लोजिक प्राइवेट लिमिटेड
358	23542	होटल माही (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड
359	23545	युनाइटेड कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
360	23548	अल्लेग्रो कन्सलटेन्सी एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
361	23549	कल्याणा चक्रवर्ती टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
362	23551	थरनी लेदर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
363	23560	मोसागा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
364	23565	विशाल हॉस्पिटल एक्वूपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
365	23567	के आर वी पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
366	23569	लेक्लान्चि इंजिनियरिंग एण्ड रबबर लाइनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
367	23571	हेन्नेस्सी इन्टरनेशनल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
368	23572	गुडविल इलेक्ट्रीकल्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
369	23574	श्री राघवेन्द्रा ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
370	23577	श्री वेंकटेश्वरर चिट्स (तंजावुर) प्राइवेट लिमिटेड
371	23593	विसूअल पेरसेप्सन्स प्राइवेट लिमिटेड
372	23608	भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
373	23612	कार्निटेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
374	23618	होरिजोन हॉस्पिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
375	23624	सुपरसन रबबर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
376	23626	आस्मा एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
377	23628	रांका स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
378	23638	कुरुंची ग्रेनाइट इण्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
379	23647	श्रीगेरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
380	23652	स्पॉट फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
381	23658	एच के कॉसमॉस एक्पोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
382	23660	एएए फास्ट ग्रौथ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
383	23667	बीआरबी ट्रेडर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
384	23675	माही फाइनेन्स एण्ड लिजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
385	23678	रवीराग चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
386	23682	एसएमपी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
387	23683	जी.टी. रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
388	23691	बानु चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
389	23715	गोल्डन चिट फण्ड्स (कोविलपट्टी) प्राइवेट लिमिटेड
390	23719	नासी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
391	23726	मदुरा नीडल्स प्राइवेट लिमिटेड
392	23738	ग्रेट मोगल कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
393	23741	बिसमिल्ला ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
394	23742	स्पान पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
395	23744	सोफिन चिट्स कम्पनी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
396	23752	केपीजेपी फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
397	23754	एस.ए. केमिकल आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
398	23791	विंग एण्ड व्हील्स कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
399	23792	इन्टर डायनेमिक्स टेलिकम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
400	23794	विक्टरी हाऊस कीपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
401	23804	मुत्तुराज स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
402	23859	इमेज डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
403	23864	साई संगम फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
404	23874	एस.एस.पी. फूड्स एण्ड एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
405	23879	क्लासिक डाटा फोर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
406	23903	हेल्प दि पूअर फाउण्डेशन
407	23911	अक्वा कन्सलटेन्ट्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
408	23917	यूनियन फार्म एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
409	23935	श्री गायत्रीदेवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
410	23940	धनज्योति एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
411	23942	अस्टन कन्सलटेन्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
412	23945	ग्रीनग्रोव एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
413	23966	ऑरकाट श्री कलैमगल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
414	23975	ईस्ट कोस्ट पिकनिक प्रायन्ट प्राइवेट लिमिटेड
415	23987	केमट्रोन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
416	23990	सुगम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
417	23992	बोबिन्स कन्फेक्शनेरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
418	23995	हायग्रिवा फाइनेन्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
419	23996	टेप्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
420	24008	रोहिणी नैल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
421	24010	जे.बी. पेकेजिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
422	24014	जग्गा चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
423	24041	अरुण कवी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
424	24045	रिजोय्स रिजोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
425	24050	आल इण्डिया ग्लोव मेन्यूफैक्चरर्स असोसियेशन

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
426	24058	केड केर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
427	24060	आन्जनैया प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
428	24067	सुपरफिश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
429	24068	बे ऑफ बेन्गाल सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
430	24125	सी रॉक ट्रेड-एक्सपो (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
431	24129	अंजली पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
432	24134	अम्बोरिसा फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
433	24136	बरकत एण्ड रहमत फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
434	24137	वीबीसी फाइनेन्सिलय एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
435	24151	सुभा प्रदा फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
436	24156	स्वेज लोकस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
437	24162	कारुमुत्तु टीक प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
438	24182	किंग प्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
439	24199	शिवा काम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड
440	24201	जोदी तिरुमणा मण्डपम् प्राइवेट लिमिटेड
441	24239	शियटोन एकजीम प्राइवेट लिमिटेड
442	24271	श्री अलमेलू मंगे ट्यूब वेल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
443	24272	टेक्स-इन-टेक्स इम्ब्रोइडरी प्राइवेट लिमिटेड
444	24279	हाईफ्रीक शूस् एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
445	24285	ओरीक्स अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
446	24287	एमेराल्ड वेड-लॉक प्राइवेट लिमिटेड
447	24290	लेदर ट्रान्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
448	24297	केप्रो एक्पोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
449	24300	प्रकाश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
450	24324	बेथल इण्डस्ट्रीयल इंजिनियरिंग फेब्रिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
451	24325	अष्ठा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
452	24339	अस्टर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
453	24340	रॉकटाउन क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
454	24345	वीआर फोर्वाडर्स प्राइवेट लिमिटेड
455	24346	गार्डन ऑफ इडेन एस्टेट्स मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
456	24351	न्यू जेर्सी फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
457	24359	तिरुपति बालाजी टीक ट्री फार्म एण्ड गेस्ट हाऊस प्राइवेट लिमिटेड
458	24364	विक्टरी इम्पेक्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
459	24365	क्वोटा हाऊस प्राइवेट लिमिटेड
460	24385	जे.एम.एस. चीट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
461	24409	श्री शास्ता स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
462	24411	एल.वी. प्लानटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
463	24438	बेस्ट कार्बन प्राइवेट लिमिटेड
464	24452	स्विफ्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
465	24456	एमेराल्ड ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
466	24457	श्री एचसीएस ट्रेवल्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
467	24463	एथलान केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
468	24470	विजय कृष्णा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
469	24491	वैरम फायनेन्स लिमिटेड
470	24535	विवेक कम्प्यूटर एण्ड रेप्रोग्राफिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
471	24564	जाम-जाम टीक (इण्डिया) लिमिटेड
472	24565	गोल्डन बे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
473	24569	अकिता टॉय्स प्राइवेट लिमिटेड
474	24579	मेगलै ट्रेवल एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
475	24598	गोल्डवायर क्रियेटिव एण्ड डिजाइन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
476	24610	रूपम मैरायन एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
477	24615	हेप्पी होलिडे रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
478	24619	चिदम्बरम रासी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
479	24631	फाइनेस्स इटालिया प्राइवेट लिमिटेड
480	24637	एस्सारवी एक्पोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
481	24687	टी.जी. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
482	24729	मुसीरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
483	24730	सेल्वम अग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
484	24733	सन प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
485	24734	फैकर रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
486	24744	रुबिकॉन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
487	24745	सी ब्रीज फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
488	24747	केसवम वेंकटेश्वरा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
489	24749	विसु एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
490	24753	अल्टरामेक्स स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
491	24759	श्री गणेश पब्लिसिटी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
492	24770	बानु गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
493	24795	रुबिकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
494	24817	जी.एस. फाइबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
495	24825	सुरभी चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
496	25022	वायलुरान ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
497	25112	न्यो ओरगानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
498	25121	एबी मार्केटिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
499	25128	एयर विंग कार्गो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
500	25158	करपह विरुट्चम प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
501	25208	वैथैयम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
502	25215	फ्यूचर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
503	25225	जेया कुमार विवर्स प्राइवेट लिमिटेड
504	25248	फेल्सपार मार्किटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
505	25256	हस्तरा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
506	25275	गुरुनाथ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
507	25285	श्री स्वर्णविलास फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
508	25286	शर्मिला फायनेन्सियल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
509	25295	एम.एल.जी. हाईटेक प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
510	25307	जे.सी. लेदर्स लिमिटेड
511	25580	तमिलनाडु अब्रासीक्स प्राइवेट लिमिटेड
512	25621	स्कॉटलैण्ड रिसोर्ट्स एण्ड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
513	25629	मूवारायर फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
514	25634	सूमोरा टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
515	25668	शानवास फायनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
516	25671	ग्राफिटी ग्रेनाइट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
517	25687	केस्टल एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
518	25690	विजेय शक्ति होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
519	25703	एग्रो एण्ड अनिमल फार्म्स (नीलगीरीस) प्राइवेट लिमिटेड
520	25741	पवित्रा प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
521	25759	साउथ इण्डिया सोल्स प्राइवेट लिमिटेड
522	25763	ऐडसेल ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
523	25825	एवरग्रीन टी प्राइवेट लिमिटेड
524	25836	केप केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
525	25841	आण्डवार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
526	25846	ग्लोरिया जेम क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
527	25860	कर्पाधारु फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
528	25911	पारामाउण्ट ऑटो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
529	25928	अवर लेडी कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
530	25929	मनीयन्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
531	25987	श्री राम अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
532	25990	श्री साई लक्ष्मी एस्टेट्स लिमिटेड
533	26006	एपीएल पोली बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
534	26007	रामबाबु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
535	26069	वीरा अक्वाकल्चर एण्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
536	26120	रवी बायो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
537	26128	सेलीन्को निट्रिंग प्राइवेट लिमिटेड
538	26139	कोको अक्वामिनरल प्राइवेट लिमिटेड
539	26164	मद्रास फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
540	26202	मार्था अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
541	26211	निकिता अक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
542	26219	अग्नि टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
543	26227	शनमुगा बेनिफिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
544	26249	विशनेल्ले प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
545	26269	सैनो क्लीन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
546	26321	त्रिबुवन प्रोपर्टीस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
547	26329	वी टू कलर लेब प्राइवेट लिमिटेड
548	26334	अमेरिकन लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
549	26372	विजयाराम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
550	26405	श्रीजी एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
551	26412	सर्वोदया लेम्प्स लिमिटेड
552	26421	करपगा केमिकल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
553	26438	बेस कन्सलटेन्टस् प्राइवेट लिमिटेड
554	26456	सुभा श्री चित्राम्माल चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
555	26462	वैभव प्लान्टेशन्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड
556	26472	राव एम्प्लोयमेन्ट एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
557	26539	शान सू प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
558	26601	साउथ कोस्ट कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
559	26717	राज एण्ड यश अल्लोई प्राइवेट लिमिटेड
560	26828	तिरुमगल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
561	27605	अबिरामी सीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
562	28003	साई सिद्धार्थ होटल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
563	28005	विष्णु प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
564	28007	मईलै वैलान्कन्नी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
565	28016	जयाविजय एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
566	28092	अक्कूर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
567	28093	खवना सेक्युरीटीस प्राइवेट लिमिटेड
568	28150	एवरग्लो कूरियर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
569	28166	पाण्डीविलै पाण्डियन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
570	28170	गणेश फायनेन्सिलय कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
571	28208	माइको एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
572	28209	माइको फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
573	28210	माइको इरीगेशन प्राइवेट लिमिटेड
574	28226	टीसीएम फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
575	28252	सदर्न एग्रो फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
576	28311	बेरशीबा इन्फोरमेटिक सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
577	28350	मेग्नम बेटरीस प्राइवेट लिमिटेड
578	28355	थम्बी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
579	28753	जेबीआर ट्रेड एण्ड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड
580	28768	सुप्रीम्स गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
581	28769	पद्मश्री फायनेन्सियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
582	28776	स्नेहम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
583	28786	श्री कालीअम्माल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
584	28795	एनकेएन चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
585	28797	जयराम प्रोपर्टीस लिमिटेड
586	28798	जयराम फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
587	28799	जयराम ट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
588	28807	वरुणन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
589	28820	बुड हेवन एस्टेट्स एण्ड एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
590	28825	श्री कमला ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
591	28835	इन्टरनोवा ऑर्थो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
592	28837	शारीक्स सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
593	28838	ड्रास टॉप आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
594	28856	बो कार्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
595	28859	शील्ड इन्फ्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
596	28862	सन रोस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
597	28863	सन सम्मर रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
598	28864	सरा मल्लीगै गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
599	28870	लिंग टीक ट्री इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
600	28963	वाटन स्टील प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
601	28964	आईसीआरसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
602	28968	रेमैन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
603	28987	अबीथा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
604	28990	मीरा फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
605	28992	कलिका देवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
606	28997	योगा हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड
607	29148	एम्बासी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
608	29172	सुबुकी ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
609	29345	फेशन कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
610	29381	अमुदासुरभी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
611	29386	मेकफेब इंजीनियर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
612	29403	बीट्सलेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
613	29645	एलजेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
614	29670	हीम स्लीम टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
615	29692	वर्ड्सवर्थ फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड
616	29765	टीटी लेदर क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
617	29813	कोम्पोनेन्ट्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
618	29934	जननी फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
619	30027	याधुकुला फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
620	30028	हाईड्रो-मेक एण्ड अक्वा टेक कन्सलटेन्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
621	30043	टी.के.एन. हाउसिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
622	30061	पीक-एन-पेक पोली इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
623	30092	राफेल डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
624	30139	जेलो एम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
625	30188	अमीका लेदर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
626	30260	ए.जी.आर. अमरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
627	30261	इस्कावयर फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
628	30274	प्रोरिच फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
629	30281	मास अक्वा हाट्चेरी प्राइवेट लिमिटेड
630	30283	बोडी श्री कवितालया चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
631	30289	श्री राम कोको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
632	30360	जैन्ट ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
633	30480	टचवुड फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
634	30481	न्यू इमेज लिजिंग फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
635	30506	ग्रेन्डयूर मशीनरी एण्ड एक्वूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
636	30567	रौनबो इन्वेस्टमेन्स एण्ड सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
637	30572	सीकर्स रिजोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
638	30606	मोहना प्लास्टिक पाइप प्राइवेट लिमिटेड
639	30680	थाकड़ी फार्मा लिमिटेड
640	30703	इन्टर एक्जीम लेदर शूस प्राइवेट लिमिटेड
641	30704	सेल्वा अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
642	30714	बुल्स आई फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
643	30724	ग्रीन वेल्ली रीयल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
644	30766	त्रिशला फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
645	30785	सूर्या पवर एण्ड पवर अप्लाइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
646	30814	टॉप पोइन्ट अग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
647	30964	विर्गो फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड
648	31004	फ्रन्ट लाइन केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
649	31037	विलियम्स फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
650	31038	स्काइलाइन फ्राइट फोर्वार्डरस् प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
651	31106	वर्क मेट्स इन्टिरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
652	31145	मीना एण्ड मीना लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
653	31154	जी.आर.वी. सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
654	31167	डिप्स कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
655	31174	सोमसुन्दरम चेडियार ज्वेलरी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
656	31357	तमिलमगल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
657	31453	रोकविन रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
658	31571	एएलपी कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
659	31577	विशेष शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड
660	31673	शक्ति दुर्गा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
661	31721	एस.एन. स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
662	31764	गुम्मीडीपुण्डी आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
663	31781	मद्रास मेटल प्राइवेट लिमिटेड
664	31828	श्री जोदी लक्ष्मी टीक वुड प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
665	31829	केपरैन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
666	31913	सी डोल्ल्स अक्वा बे प्राइवेट लिमिटेड
667	32079	जार्डिन एन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
668	32329	वल्लवन हायर परचेज एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
669	32337	सूर्या ईस्ट कोस्ट फार्म्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
670	32342	मिराण्डा रबबर फेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
671	32346	आर्च बिसिनेस लिन्क प्राइवेट लिमिटेड
672	32448	वेस्टर्न घाट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
673	32522	मूलचन्द टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
674	32526	ओम शक्ति पेकेजिंग मेटिरियल प्राइवेट लिमिटेड
675	32577	श्री अयप्पा ओइल मिल प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
676	32578	अमासिना शिपिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
677	32586	यू.एच.एस. शूस प्राइवेट लिमिटेड
678	32699	दामोदर इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
679	32716	ए एण्ड बी सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
680	32719	धनुषराम ग्राफ प्राइवेट लिमिटेड
681	32722	श्री कैवीयेन इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
682	32731	शुभा रियलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
683	32736	अडवान्ड हैटेक एक्सपोर्ट लिमिटेड
684	32749	लक्ष्मीदेवी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
685	32768	श्री गुगन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
686	32952	एम्मास्सी रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
687	32958	श्री बालाजी सेल्वालक्ष्मी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
688	32977	इग्लू रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
689	32985	कौशिक चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
690	32987	ग्रो बेस्ट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
691	32994	श्री तिरुमलै लक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
692	33004	पेरैग्राइन डिजाइन एण्ड सोलुसन्स प्राइवेट लिमिटेड
693	33015	मार्लिन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
694	33020	गेन्यूलसन्स प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
695	33030	लेण्डरकेप मेटिरियल एण्ड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड
696	33067	वांगल डेयरिस प्राइवेट लिमिटेड
697	33085	जुआनी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
698	33147	लोयला फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
699	33158	प्रिंसेस ऑफ हिल्स प्लान्टेशन्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
700	33163	इकनेट शिपिंग लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
701	33175	होटल प्रिंस प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
702	33219	केर वेल गोल्ड्स फार्म प्राइवेट लिमिटेड
703	33238	साउथ कोस्ट एविएशन टेक्नालॉजिस् प्राइवेट लिमिटेड
704	33246	विरायिटी लेदर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
705	33249	प्रेसिसन कार्बोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
706	33262	अल्पाइन केस्टर प्राइवेट लिमिटेड
707	33264	फ्रन्ट लाइन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
708	33293	रविशेखर रियलेटर प्राइवेट लिमिटेड
709	33344	स्काईबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
710	33377	रॉक टाउन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
711	33418	जय महा विष्णु फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
712	33420	शेन्डफथूर क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
713	33425	पेन्टागन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
714	33469	पांडियन सेक्यूरिटी ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड
715	33490	केफास कान्टेक प्राइवेट लिमिटेड
716	33505	एवरेस्ट कन्ट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड
717	33511	कुना सीफुड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
718	33526	टैटान बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
719	33566	पेरोक्सी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
720	33679	मंजु ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
721	33688	विल्मेनमेचैड प्राइवेट लिमिटेड
722	33691	प्रमोद स्क्रटरल्स प्राइवेट लिमिटेड
723	33696	नटराज सेक्यूरिटी एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड
724	33698	आलयम फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
725	33712	मेट्रो ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
726	33739	राजा मारिटाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
727	33742	सिटिवाइड एक्सप्रेस कुरियर प्राइवेट लिमिटेड
728	33754	आरएम इन्पेक्स लिमिटेड
729	33764	मेक्सवुड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
730	33767	इन्डेक्स कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
731	33772	इन्डस मिल्क मेगनम प्राइवेट लिमिटेड
732	33825	तुसान इण्डिया मेग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
733	33828	आरएसएम अप्पारेल् प्राइवेट लिमिटेड
734	33879	स्टरलिंग मेटालुर्जी प्राइवेट लिमिटेड
735	33886	केयेम्मार डिवाइसस् प्राइवेट लिमिटेड
736	33898	बी येस आर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
737	33900	कोडी अन्नामलै एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
738	33934	के एल सेफ रेक्रूटिंग प्राइवेट लिमिटेड
739	33937	तिरुमगल ट्रेडिशनल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
740	33941	सुक्सुस पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
741	34107	गलाक्टिका एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
742	34119	राजाराजन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
743	34123	जागिरदार स्टोक्स प्राइवेट लिमिटेड
744	34128	तिरु मुरुगा फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
745	34134	रिच सी फुड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
746	34136	श्री एलुमलैयम्न फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
747	34194	एस.वी.एस. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
748	34335	हिरोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड
749	34458	लेवी कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
750	34585	कीर्ति गोट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
751	34599	चेन-राफा प्राइवेट लिमिटेड
752	34600	एम सी ए डिपार्टमेंटल स्टोर्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
753	34612	हरिधा लेब्स प्राइवेट लिमिटेड
754	34614	मे इण्डिया एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
755	34618	वैशाली होम्स लिक्स प्राइवेट लिमिटेड
756	34627	नट्समैन काजूस् प्राइवेट लिमिटेड
757	34652	गौरी एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
758	34725	जी आर डी क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
759	34774	ग्लिस्टेन इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
760	34828	महा विष्णु चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
761	34928	शक्ति ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
762	35690	रोलोफोर्म्स इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
763	35699	डॉन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
764	40030	होटल तरुण इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
765	40049	अल-इस्टर्न पोलिकेम प्राइवेट लिमिटेड
766	40053	साराफिन मेडिप्लान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
767	40189	हार्गन वायर्स एण्ड केबल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
768	40374	पैरामिड पवर टेक प्राइवेट लिमिटेड
769	40407	कोरियन फेल्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
770	40433	ओरियन विजन प्राइवेट लिमिटेड
771	40456	श्री वामन सॉफ्टवेयर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
772	40463	आरके इन्फोटेक सोल्यूशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
773	40470	अन्नै अरबिन्दो सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
774	40486	टीएफएल हेल्थ केर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
775	40517	एलिगेन्ट कन्सल्टन्ट्स एण्ड इंटिरियर्स लिमिटेड
776	40747	डोल्ला केन्टिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
777	40920	एम.एस.एम.पी. टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

डी. सूर्यनारायणा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

कोच्चि-682021, दिनांक 20 सितम्बर 2007

सं. एस.एम. 560 (5) एस.एम./आर.ओ.सी./एरनाकुलम/11216--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्रम सं:	राजिस्ट्रेशन सं:	कंपनी का नाम
1.	3501	भद्रदिपम चिट फण्डज प्रैवट लिमिटेड
2.	3522	तौमा एजिनियरिंग वर्क्स प्रैवट लिमिटेड
3.	3544	एसजी लंबर इण्डीया प्रैवट लिमिटेड
4.	3577	इबच होटल कनसलटन्ज प्रैवट लिमिटेड
5.	3586	सरजिकल ऐडज प्रैवट लिमिटेड
6.	3606	प्रिमियर ओवरसीस कनस्ट्रक्शन कंपनी प्रैवट लिमिटेड
7.	3683	पुलियरा डैयरी एण्ड एलैड इनडस्ट्रीज प्रैवट लिमिटेड
8.	3697	फ्रण्डज पब्लीशिंग कंपनी प्रैवट लिमिटेड
9.	3702	पेटैठ सरवीसज प्रैवट लिमिटेड
10.	3715	लिटिल प्रिन्ज पब्लीकेशनज प्रैवट लिमिटेड
11.	3721	हैरोक सिमन्टज एण्ड प्रैवट लिमिटेड
12.	3736	टेल्लीक मार्केटिंग प्रैवट लिमिटेड
13.	3755	लिक मार्केटिंग सरवीसज प्रैवट लिमिटेड
14.	3817	वेनाड बोठलिंग प्लान्ट प्रैवट लिमिटेड
15.	3823	क्रोस डिटक्ठीव एण्ड सेक्यूरीटी सरवीसज प्रैवट लिमिटेड
16.	3833	स्नॉकिस फुड प्रोडक्शन प्रैवट लिमिटेड
17.	3828	अनध्वरा फिल्मज प्रैवट लिमिटेड
18.	3850	उदयलक्ष्मी कुरीज एण्ड लोणज प्रैवट लिमिटेड
19.	3884	मलानाड कुरीज प्रैवट लिमिटेड
20.	3888	के एन शिहाब कनस्ट्रक्शनज प्रैवट लिमिटेड
21.	3907	ट्रावल कार्ड सरवीसज इण्डीया प्रैवट लिमिटेड
22.	3925	सर्ज प्रिन्टींग एण्ड पब्लीशिंग कंपनी प्रैवट लिमिटेड
23.	3972	जेनुवीन ओयिलज एण्ड कनसूमेर प्रोडक्शन प्रैवट लिमिटेड
24.	4011	एयर कनडीशनींग अससरीज एण्ड जनरल एक्वूपमेन्टज प्रैवट लिमिटेड
25.	4016	बापुजी ब्रिक्ज एण्ड क्ले वर्कज प्रैवट लिमिटेड
26.	4019	लूरदज होस्पिटल कोम्प्लेक्स प्रैवट लिमिटेड
27.	4030	ठेकोन स्टील इन्डस्ट्रीज प्रैवट लिमिटेड
28.	4043	अनध्वरा पब्लीकेशनज प्रैवट लिमिटेड
29.	4044	एंबन-एजर होम फोर इन्टग्रेटेड हीलिंग प्रैवट लिमिटेड

30.	4050	ब्लू लिंकस एन्टरप्राइस प्रैवट लिमिटेड
31.	4056	होटल बिग बेन प्रैवट लिमिटेड
32.	4067	जीयो सिलिन्डर्ज प्रैवट लिमिटेड
33.	4070	ओयसिस सोप्स एण्ड डिटरजेन्ट्स मनुफाक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
34.	4081	प्रॉमोकुयर् प्रैवट लिमिटेड
35.	4086	अठापाडी फुड इनडस्ट्रीज प्रैवट लिमिटेड
36.	4106	एरातु विमुक्ता भडा मोटोर सरवीज प्रैवट लिमिटेड
37.	4109	होटल ऐबेनेजर प्रैवट लिमिटेड
38.	4122	पीकोक इंजीनियर्ज प्रैवट लिमिटेड
39.	4135	दास डिसटिलरीज प्रैवट लिमिटेड
40.	4137	क्रौन सोफ्ट ड्रिगंज प्रैवट लिमिटेड
41.	4144	ओयसिस फरनीशर्ज प्रैवट लिमिटेड
42.	4156	पेगसज कनसोरटियम प्रैवट लिमिटेड
43.	4160	प्रिया मेटलज प्रैवट लिमिटेड
44.	4171	अपसरा बिलडर्ज प्रैवट लिमिटेड

एस. एम. अमीरूल मिल्लत
कंपनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अभिजीत बोरवेल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

सं. कं. सं./क.र.ब./तस/7545/560(3)/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अभिजीत बोरवेल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनी विघटित की जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडवांस टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. कं. सं./क.र.ब./तस/15872/560(3)/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एडवांस टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनी विघटित की जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

बेंगलूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

No. ROCB/560(3)/2007—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी।

क्रम	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं.	रजि. सं.	
1.	28186	मैसर्स नियोटल प्रोसेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	29152	कामरस इनफार्मिसेस प्राइवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

बेंगलूर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. 560(5)/एसईएस-2005/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्रम	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं.	रजि. सं.	
1	2	3
01.	25119	मैसर्स स्वर्ण हीटिंग एण्ड कंट्रोलर फ. प्राइवेट लिमिटेड
02.	26006	मैसर्स टुंगा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
03.	32803	मैसर्स प्रोग्रेसिव इंटरप्रेनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
04.	28215	मैसर्स टी.आर.पी.ई.-काम प्राइवेट लिमिटेड
05.	30273	मैसर्स ई-मेवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
06.	24763	मैसर्स टास्क इंफो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
07.	27526	मैसर्स इंटरफार्म टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
08.	29909	मैसर्स धर साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
09.	30164	मैसर्स प्रोफेस एलवी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
10.	30642	मैसर्स चिक-निक पोल्ट्री एण्ड एगो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
11.	29987	मैसर्स माई फार्चून सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
12.	31112	मैसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी न्यूशनल प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
13.	28558	मैसर्स यगन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
14.	29963	मैसर्स दामोदर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	28479	मैसर्स एम. के. इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
16.	33708	मैसर्स स्मिदज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
17.	30553	मैसर्स डाइस आइस क्रीम प्राइवेट लिमिटेड
18.	28571	मैसर्स साई श्री मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	33821	मैसर्स जीसीसी ट्रेवलस एण्ड हेल्थ टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
20.	30937	मैसर्स एफ.जे. बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	27849	मैसर्स शनाथी 2000 मल्टीकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
22.	32705	मैसर्स मॉक्यू प्रोपर्टी मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23.	27122	मैसर्स बुल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
24.	26401	मैसर्स फोकल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
25.	31992	मैसर्स साया एप्रोबुडेट प्राइवेट लिमिटेड
26.	29398	मैसर्स स्पेक्ट्रम इन्फोमेशन एण्ड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
27.	24107	मैसर्स रोबोक्वीन डिस्प्लेस प्राइवेट लिमिटेड
28.	30778	मैसर्स ओमेक्स इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड
29.	32204	मैसर्स सोल्फिन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
30.	30539	मैसर्स हेप्टागन इंजीनियरिंग सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

31.	32703	मैसर्स ग्रीन पैजिस् इफ्रो सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड	58.	25880	मैसर्स तुंगभद्रा एग्रो एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
32.	35072	मैसर्स बर्टिब्रांड सेल्स एण्ड मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	59.	31814	मैसर्स किलिमिस्ट सौफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
33.	28272	मैसर्स साबा फिनसोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड	60.	28384	मैसर्स बालाजी एटोलियम प्राईवेट लिमिटेड
34.	27133	मैसर्स गाना एलास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	32121	मैसर्स स्वर्णज्योती नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
35.	27280	मैसर्स क्रीमोडिटी वर्ल्ड ट्रेड कॉम प्राईवेट लिमिटेड	62.	26385	मैसर्स मंडाला डाय सोल्यूशंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
36.	32737	मैसर्स प्रोपेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	63.	27011	मैसर्स एजु फ्री कॉम प्राईवेट लिमिटेड
37.	32736	मैसर्स प्रोपेल इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	64.	29572	मैसर्स सिग्मा पॉवर केयर प्राईवेट लिमिटेड
38.	29637	मैसर्स एमएसआर स्पॉट्स एण्ड हेल्थ सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	65.	24849	मैसर्स ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलोजी सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
39.	31777	मैसर्स मंजुनाथ एयरकंडीशनिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	28134	मैसर्स इंटरजिक टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
40.	31701	मैसर्स हुबली ऑन-लाइन फार्चून कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	67.	27902	मैसर्स विनास गेस्टेक्निकस प्राईवेट लिमिटेड
41.	34165	मैसर्स अशिरयनन एंजिनियर्स एण्ड रील ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	34493	मैसर्स जेजे सिलिकॉन प्राईवेट लिमिटेड
42.	26999	मैसर्स टेल स्पेक मेड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	69.	31235	मैसर्स रिबेल्स सोल्यूशंस फार्मिन्सियल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
43.	30016	मैसर्स कंसु कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	26513	मैसर्स इन्फोकॉन प्रोसेशन इनिशिएटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	25133	मैसर्स इन्फोमिका सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	27930	मैसर्स बुरागी टी. वी. लिमिटेड
45.	28856	मैसर्स बी-5 स्थिर गैथर सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड	72.	28586	मैसर्स जयचंदा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	27917	मैसर्स साहा स्प्रिंग इंटरप्राइसेज (बेंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड	73.	24784	मैसर्स योगी नरसिम्हा कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	31517	मैसर्स इफोवर्ड मार्केटिंग एण्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	74.	31895	मैसर्स कालिका इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
48.	28105	मैसर्स वेगा बिजनेस सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड	75.	24036	मैसर्स पैराडाइस थीम पार्क एण्ड क्लब लिमिटेड
49.	27565	मैसर्स घेवरचंद जैन पॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	30936	मैसर्स माइक्रोब्राक सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
50.	28077	मैसर्स सी ईजवायर लैब्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	29951	मैसर्स फेमिला डेरी इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
51.	26163	मैसर्स मिलेनियम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	31828	मैसर्स बोहीमिया रिक्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड
52.	32825	मैसर्स जेमिनी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	79.	26269	मैसर्स क्यूएसक्यू सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	27553	मैसर्स ग्रीनबुड होल्डिंग्स एण्ड रिसेप्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	26797	मैसर्स सिड-विन इफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
54.	25758	मैसर्स ट्राईडेंट प्रिंसिपल इंजीनियरिंग इन्फ्रामेंट प्राईवेट लिमिटेड	81.	29630	मैसर्स केथलिस्ट फूड वैंचर प्राईवेट लिमिटेड
55.	31102	मैसर्स आचार्य कम्पुसिस प्राईवेट लिमिटेड	82.	28203	मैसर्स ब्राइट सिक्वोरिटी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	30662	मैसर्स बबल मोशन प्राईवेट लिमिटेड	83.	26883	मैसर्स माहिती टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
57.	29657	मैसर्स मेहविष इन्फेस प्राईवेट लिमिटेड			

संजय कुमार गुप्ता
सहायक कंपनी पंजीकार,
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

बैंगलूर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. कं. सं./क.र.ब./तस/560(3)/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी।

क्रमा सं.	कम्पनी की सं.	कम्पनी का नाम
1	32708	टी. ए. आर. ट्रेडिंग एंड सप्लाय प्राइवेट लिमिटेड
2	30440	इकोफेस टेक्नोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	24859	हमदास डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	35238	सुनोब मिड इनजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	27597	मिब सोलर प्राइवेट लिमिटेड
6	26868	सुभा सोलरवेयर प्राइवेट लिमिटेड
7	30240	इलेक्ट्रॉनिक गैस जर्मेन प्राइवेट लिमिटेड
8	31189	फोक्स इन्फोसिस रिजोर्सेस इन्फोर्मेस प्राइवेट लिमिटेड
9	24734	एयरनेट इन्फोर्मेस एंड एनर्जिज सप्लाय प्राइवेट लिमिटेड
10	26891	ओमेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
11	27152	प्राइम इनफोसिस प्राइवेट लिमिटेड
12	27681	इष्टावली. काम प्राइवेट लिमिटेड
13	24002	मैट्रा सोलरवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
14	24479	कैनेडी टाउन्शिप प्राइवेट लिमिटेड
15	31625	मिना ओ. डामरेड उरेम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
16	32506	सुपिटर टेक्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	27422	नानो मेमब्रैन्स प्राइवेट लिमिटेड
18	26369	प्रोफेस जेजेम्स प्राइवेट लिमिटेड
19	28302	टी-नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	24069	मिनाजी फार्मस लिमिटेड
21	25665	अंजनाक्षी लिट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	25425	रत्ना एच इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
23	27342	सिफीनेट लोन्सवैल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	27963	फ्यूजिफिटेड इन्टरप्र्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
25	30908	मेन्सर्ज बायरनेस सोलरवेयर सोलरवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
26	31206	नेम्सव सोलरवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	29828	इंडियन इन्फोर्मेस एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	28150	सुसमी इन्फोर्मेस प्राइवेट लिमिटेड
29	29191	माधवगौरी लिट्स फंड प्राइवेट लिमिटेड
30	25016	मंगलोर प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
31	27441	सुविट नेटवर्क सोलरवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	25666	एच.ए. डोमफिन (इंडिया) लिमिटेड
33	24606	लाईनेट इन्जिनियर्स एंड इन्फोर्मेस प्राइवेट लिमिटेड
34	30275	उन्टीग्रेटेड टीनिंग टीम प्राइवेट लिमिटेड
35	31805	एम्पेय आउटसोर्स प्राइवेट लिमिटेड

36	31189	विनाय सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
37	25464	नासूप्रभा एम्प्लॉयर्स प्राईवेट लिमिटेड
38	25977	इन्फोमैड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
39	27894	भगवान जगेश लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
40	25488	अलीखेस होस्टिंग्स एण्ड इन्फोमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
41	27577	एम्प्लॉयर्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
42	29033	भाउचरिणि लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
43	28068	सुवर्ण लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
44	25406	विरकाम सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
45	32322	जे-डेड प्राइविंग प्राईवेट लिमिटेड
46	25202	हरार काफ़ी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
47	25203	निर्मला काफ़ी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
48	27334	बल्लाघ टेक्नालॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
49	26658	टेम्पार टेक्नालॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
50	27354	भारत लॉजीजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
51	29292	श्री सम्पतलक्ष्मी लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
52	29639	बॉरलना इन्फ़ोरेक्स प्राइविंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
53	25553	इब्री इन्फ़ोमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
54	27185	सम्पुर्ण सिम्प्लिफ़ाईड प्राईवेट लिमिटेड
55	28995	एम बी आर आर रिजोर्ट्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
56	25116	सूरज चाकर एण्ड डाउलिंग प्राईवेट लिमिटेड
57	26958	मेनी एच इन्फ़ोरेड प्राईवेट लिमिटेड
58	25033	बहर स्पोर्ट्स वेस्टी एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
59	25125	इवेप्स टेक्नालॉजीज लिमिटेड
60	25421	गुप्तेज एच आर ग्रुप लिमिटेड
61	30361	इम्पेड एण्ड इन्फ़ोमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
62	34359	सिमरान रिजोर्ट्स सोफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
63	32426	हुन्दु रूनिंग एण्ड आरोग्यन हिलथ्स प्राईवेट लिमिटेड
64	25507	सिमाफोर साफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
65	33408	गुम्बई रॉड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
66	28794	जीन ट्रेमव्स प्राईवेट लिमिटेड
67	31380	एनेलॉर टेक्नीकम्प्यूटिङ्स प्राईवेट लिमिटेड
68	25503	ग्रो इन्फ़ोरेड प्राईवेट लिमिटेड
69	33237	बैरलॉड वायोमाईसेस प्राईवेट लिमिटेड
70	24928	एडनॉस टेक्नालॉजी कान्पेन प्राईवेट लिमिटेड
71	33492	आईसिख सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
72	31513	अकाउंट कॉन्टेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
73	25454	काला मैडिस मेडल प्राईवेट लिमिटेड
74	25831	रिड्ड आर्कैड ऑटो क्लब प्राईवेट लिमिटेड
75	31239	डीपूख इन्फ़ोमैट प्राईवेट लिमिटेड
76	29003	मार्केट मोटर्स एण्ड इन्फ़ोमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड

77	35693	केनडा सेल्सम टेल्सकम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
78	25350	अडोबी कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
79	35401	बनिला इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
80	24542	जॉन्स स्काउ बोर्डिंग एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
81	30355	श्री प्रगति लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
82	28369	इंडोआन सिम्प्लिफाइड प्राईवेट लिमिटेड
83	25163	सावन्नी लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
84	32098	मिडस्ट्रेट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
85	29364	लैफायट लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
86	29487	प्रोग्रेस इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
87	24302	पी० एम० न्यूज प्राईवेट लिमिटेड
88	25495	बोयन्स ई-सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
89	29842	टाईटेन्स इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
90	25032	गोबोनी स्टॉक एण्ड ब्रोकेज प्राईवेट लिमिटेड
91	29489	मनीमाल एपेक्स लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
92	26714	ई-सोल्यूशंस टेक्नासॉलजी प्राईवेट लिमिटेड
93	26337	इन्फोस्ट्रीम सोल्यूशंस टेक्नासॉलजी प्राईवेट लिमिटेड
94	30331	श्री सिद्दीक्काचन्द लिमिटेड मैट्र प्राईवेट लिमिटेड
95	25927	रम सी एल लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
96	26492	सप्तजन्मा लिमिटेड प्राईवेट लिमिटेड
97	25204	उनायिज एनोटेसन प्राईवेट लिमिटेड
98	30090	के०डी०एम० फिनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
99	24867	ड्युनिफोर्म टेक्नासॉलजी प्राईवेट लिमिटेड
100	30525	स्नोसकाम मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
101	29784	तस्तिरमा आउटसोर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
102	24816	बेल सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
103	24151	विनेका सोल्यूशंस टेक्नासॉलजी प्राईवेट लिमिटेड
104	32450	हमिंग डेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
105	26686	सुरनीव सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
106	28603	एच० एच० आर० जॉय प्राईवेट प्राईवेट लिमिटेड
107	25932	नारनास नॉटिफा प्राईवेट लिमिटेड
108	27306	देवानंद एडिजम प्राईवेट लिमिटेड
109	28920	केनाड एपेरल एम्प्लॉई प्राईवेट लिमिटेड
110	28336	कटरमल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन्फोर्मा प्राईवेट लिमिटेड
111	25439	श्री सुमुखा एपीका प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
112	30397	श्री चन्मुख कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
113	29073	न्यूनी आर्ट्स एसेसमेंट प्राईवेट लिमिटेड

संजय कुमार गुप्ता
सहायक कंपनी पंजीकार,
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

EXAMINATION NOTICE NO. : 03/2008-NDA-I

Dated : 13-10-2007

(Last Date for Receipt of Applications 12-11-2007)

NATIONAL DEFENCE ACADEMY AND
NAVAL ACADEMY

EXAMINATION (I), 2008

(Commission's Website <http://www.upsc.gov.in>)

New Delhi, the 13th October 2007

No. F.7/3/2007 E.1(B)—An Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 20th April, 2008, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 121st Course and Naval Academy for the 41st 10+2 (Executive Branch) Course commencing from 30th December, 2008. The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 335 (195 for the Army, 39 for Navy, 66 for the Air Force and 35 for the Executive Branch of Naval Academy).

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in col. 17(I) of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Before indicating their preferences for different courses, the candidates should first decide their preference for the two Academies viz. National Defence Academy and Naval Academy (Executive Branch). If a candidate opts for National Defence Academy as his first choice, he must first indicate his preferences for different wings of National Defence Academy viz Army, Navy and Air Force followed by his preferences for Naval Academy (Executive Branch). Alternatively, if a candidate opts for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, he must first indicate his preference for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, followed by his preferences for different wings of National Defence Academy. Thus candidates opting for Naval Academy (Executive Branch) Course as well as other courses of National Defence Academy must give Naval Academy (Executive Branch) as their first preference or the last preference. Naval Academy (Executive Branch) cannot be given as 2nd or 3rd preference. Even if Naval Academy (Executive Branch) is given as 2nd or 3rd preference by the candidate, it will be deemed to be the last preference.

(iv) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.

2. CENTRES OF EXAMINATION :

The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizwal, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwad, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination, the Commission may, at their discretion, allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 12th December, 2007 will not be entertained under any circumstances.

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a Citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

Only unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1990 and not later than 1st July, 1992 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in column 8 of the application form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4 : Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

(c) Educational Qualifications :

(i) For Army Wing of National Defence Academy :— 12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 (Executive Branch) Course at the Naval Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and Mathematics conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward the certificates alongwith photocopies thereof to 'Addl. Directorate General of recruiting, Army HQ, West Block-III, R.K. Puram, New Delhi-110 066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR (R&R) Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011' by 5th December, 2008 failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note 1 : Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

Note 2 : Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (i.e. 5th December, 2008) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

Note 3 : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

Note 4 : Those candidates who have failed INSB/PABT earlier are not eligible for Air Force.

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and

Naval Academy Examination (I), 2008 as per guidelines given in Appendix-V.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary Grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

4. FEE :

(i) A candidate seeking admission to examination must pay to the Commission a fee of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) through a single Central Recruitment Fee Stamp. Central Recruitment Fee Stamp (NOT postage stamp) of the requisite denomination may be obtained from the post office and affixed on the application form in the space provided therein. The stamp must be got cancelled from the issuing Post Office with the date stamp of the Post Office in such a manner that the impression of the cancellation mark partially overflows on the application form itself but within the space provided on the application form itself. The impression of the cancellation mark should be clear and distinct to facilitate the identification of date and the Post Office of issue.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or representative abroad as the case may be for credit to account head '051—Public Service Commission—Examination Fees' and attach the receipt with the application.

Application not complying with this requirement will be summarily rejected. This does not apply to the candidates who are seeking remission of the prescribed fee under the following paragraph.

Candidates belonging to scheduled castes/scheduled tribes are not required to pay any fee, no fee exemption is, however, available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

'Postage Stamps' will in no case be accepted in lieu of Central Recruitment Fee Stamp.

Candidates should note that the fee sent through Indian Postal Orders, Bank Draft, Money Orders, Crossed Cheque, Currency Notes or Treasury Challan etc. will not be accepted by the Commission and such applications will be treated as without fee and will be summarily rejected.

(ii) The children of Junior Commissioned Officers, Non-Commissioned Officers and Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force and children of Ex-Junior Commissioned Officers, Ex-Non-Commissioned Officers and Ex-Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force are not required to pay the prescribed fee if they satisfy the following conditions, viz. (a) they are studying in the Military Schools (formerly known as King George's Schools), Sainik Schools run by the Sainik Schools Society, and

(b) their applications are forwarded by the Principal of the concerned School.

Note : Applications of candidates from the Military Schools/Sainik Schools forwarded by the principals of the concerned schools will be scrutinised in the Commission's Office to determine whether such candidates are entitled to remission of fee in terms of para 4(ii) of the Notice above. The Principals of the Military Schools/Sainik Schools should however, satisfy themselves that students of their schools fulfil the requirements of the aforesaid provision of the Notice. While forwarding the application, the name of the applicant and his application form No. (8 digit) should be indicated in the forwarding letter. The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form. The Commission will not take any responsibility for any acts of omission or commission committed by the Principals.

No claim for a refund of fee once paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

5. HOW TO APPLY :

(a) The UPSC have developed an application form common for all their examinations which can be processed on computerised machines. This application form along with an Information Brochure containing general instructions for filling up the form, an acknowledgement card and an envelope for sending the application will be obtainable from the designated Head Post Offices/Post Offices throughout the country as listed in Appendix-III of Notice against cash payment of Rs. 20/- (Rupees twenty only). Form should be purchased from the designated Head Post Offices/Post Offices only and not from any other agency. This form can be used only once and for only one examination. Candidates must use the form supplied with the Information Brochure only and they should in no case use photocopy/reproduction/unauthorisedly printed copy of the Form. Since this form is electronically scanned, due care should be taken to fill up the application form correctly. While filling up the application form, please refer to detailed instructions given in Appendix-II of this Notice. The candidates should also fill up in the relevant places of the Acknowledgement Card, their Application Form Number (8 digit) and the name of the examination. The applicants are required to affix the postage stamp of Rs. 6/- on the Acknowledgement Cards and send the same along with application form to UPSC. If an applicant fails to affix the postage stamp of requisite amounts his acknowledgement cards will not be dispatched and Commission will not be responsible for non-receipt of acknowledgement cards by the applicant. The duly filled in application form and the acknowledgement card should then be mailed in the special envelope supplied with the Information Brochure. The candidate should also write the name of examination viz. "National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2008" on the envelope before despatching it to "Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-

110069". Candidates should mention their Tele./Fax No.

(b) All candidates whether already in Govt. service, Government owned industrial undertakings or other similar organisations or private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

Candidates serving in the Armed Forces must submit their application through their Commanding Officer who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application form number (8 digit).

The applications of Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officer.

Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society should submit their applications through Principal of College/School concerned who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application form number (8 digit). The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form.

NOTE 1 : WHILE FILLING IN THE APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION. MORE THAN ONE APPLICATION FROM A CANDIDATE GIVING DIFFERENT CENTRES WILL NOT BE ACCEPTED IN ANY CASE. EVEN IF A CANDIDATE SENDS MORE THAN ONE COMPLETED APPLICATION, THE COMMISSION WILL ACCEPT ONLY ONE APPLICATION AT THEIR DISCRETION AND THE COMMISSION'S DECISION IN THE MATTER SHALL BE FINAL.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN HIS ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS

CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE 2 : APPLICATIONS NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE OR DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTE/ SCHEDULED TRIBE/OTHER BACKWARD CLASSES AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEREFORE, ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFIL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 2008.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW. IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the

examination, or

- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination.
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rules shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

6. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

(i) The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069 on or before 12th November, 2007.

(ii) In respect of applications received only by post (by post/speed post) from candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or

Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 19th November, 2007.

The benefit of extended time will be available only in respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant.

Candidates who are claiming the benefit of extended time should clearly indicate in column 13 (II) of the application form, the area code of region (e.g. Assam, Meghalaya, J&K etc.) where they are residing. In case they fail to do so, the benefit of extended time will not be allowed to them.

NOTE I : Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the late applications will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Commission's Office on or before the prescribed last date.

NOTE II : Candidates can also deliver their applications personally at the Commission's counter against proper acknowledgement. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

NOTE III : Applications received through Couriers or Courier Services of any type shall be treated as having been received "By hand" at the Commission's Counter.

7. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS :

Immediately on receipt of an application from a candidate, the Acknowledgement Card submitted by him along with the application form will be despatched to him by the Commission's office in token of receipt of his Application. If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days, he should at once contact the Commission by quoting his Application Form No. (8-digit) and name & year of examination. Candidates delivering the application form in person at the Commission's Counter will be issued Acknowledgement Card at the Counter itself.

The mere fact that a candidate's application has been acknowledged by the Commission does not mean that his candidature for the examination has been accepted by the Commission. Candidates will be informed at the earliest possible about their admission to the examination or rejection of their application.

8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS :

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

(i) Admission certificates, indicating the Roll Nos., Centre and the Courses to which admitted will be issued to the candidates who are admitted to the examination. The admission certificate will bear the photograph of the candidate. If a candidate does not receive his admission certificate or any other communication regarding his candidature for the examination three weeks before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission Certificate or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over phone Nos. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his admission certificate at least three weeks before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address as photo-copied from the application form filled in by the candidate. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him in the application form is correct and complete with pin code.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions by the UPSC.

- (ii) In the event of a candidate receiving more than one admission certificate from the Commission, he should use only one of these admission certificates for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iii) If a candidate receives an admission certificate in respect of some other candidate on account of processing error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an Admission Certificate issued in respect of another candidate.
- (iv) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.

(v) Candidates should note that the name in the Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.

(vi) A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

IMPORTANT : ALL COMMUNICATIONS TO THE COMMISSION SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :

1. NAME AND YEAR OF THE EXAMINATION.
2. APPLICATION FORM NO. (8 DIGIT).
3. ROLL NUMBER (IF RECEIVED).
4. NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK LETTERS).
5. POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN THE APPLICATION.

N.B. (i) : COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii) : IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATION FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO :—

For candidates with Army as First Choice—Army Headquarters, A.G's Branch RTG. (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R. K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice — Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23010151.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, New Delhi-110011, Phone No. 23010231 Extn. No. 7081.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview direct as follows :—

For candidates with Army as First choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block III, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011, Phone No. 23010151.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, New Delhi-110011, Phone No. 23010231.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/ Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the months of September—October, 2008 or as suitable to Recruiting Directorate.

9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES : The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission at their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Executive branch of Naval Academy will be assessed on officers potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and for officers potentiality.

TWO STAGE SELECTION PROCEDURE

Two Stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the original Certificates along with one photocopy each of : (i) Original Matriculation pass, certificate, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy and Naval Academy should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination and (ii) Officer potentiality test, as fixed by the Commission at their discretion, and candidates for the Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination (ii) Officer potentiality test, and (iii) Pilot Aptitude Test as fixed by the Commission at their discretion.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in the final order of merit on the basis of total marks secured by them in the Written examination, and the Services Selection Board Tests in three separate lists—one for the Army and the Navy, the second one for the Air Force and the third for the Course at the Naval Academy. The names of candidates who qualify for all the Services of NDA and the Naval Academy will appear in all the three Merit Lists. The final selection for admission to the Army and Naval Wings of the National Defence Academy will be made in order of merit upto the number of vacancies available from the merit list for the Army and Naval Wings, for the Air Force Wing from the merit list for the Air Force; and for the Executive Branch of Naval Academy upto the number of vacancies available from the merit list for the Naval Academy, subject to medical fitness and suitability in all other respects. The candidates who are common to all the three merit lists will be considered for selection from all the three lists with reference to their order of preferences and in the event of their final selection from one list, names will be cancelled from the other lists.

N. B. : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE:

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the Executive Branch of Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

12. The details regarding (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

RAMESHWAR DAYAL
Deputy Secy.
UPSC

APPENDIX-I

(The scheme and syllabus of examination)

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Mathematics	01	2-½ Hours	300
General Ability Test	02	2-½ Hours	600
Total			900

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART "B" OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

PAPER-I

MATHEMATICS

(Code No. 01)

(Maximum Marks-300)

1. ALGEBRA

Concept of a set, operations on sets, Venn diagrams. De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube roots of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its applications. Logarithms and their applications.

2. MATRICES AND DETERMINANTS :

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications - Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method.

3. TRIGONOMETRY :

Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angles. Inverse trigonometric functions. Applications - Height and distance, properties of triangles.

4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS:

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola.

ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

5. DIFFERENTIAL CALCULUS :

Concept of a real valued function-domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications. Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

7. VECTOR ALGEBRA :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force, and in geometrical problems.

8. STATISTICS AND PROBABILITY :

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

PAPER-II

GENERAL ABILITY TEST

(Code No. 02)

(Maximum Marks-600)

Part 'A'—ENGLISH

(Maximum Marks-200)

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE

(Maximum Marks-400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following :

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightening Conductors, Safety Fuses.

Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations, Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches, and Gun-Powder.

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells, Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence, French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society.

Concept of one World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism, and Communism. Role of India in the present world.

Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time, International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE :

Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

Intelligence and Personality Test

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.

Note : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speedup finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

The undermentioned ailments are considered, common minor ailments :

- (a) Wax (Ears)
- (b) Deviated Nasal Septum
- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Sized Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocele

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury this sustained during the tests or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of Military duties.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under-weight. The Candidate should not be over weight or obese.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern region of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable height will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR ARMY/AIR FORCE

TABLE-I

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16-17 years	17-18 years	18-19 years
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.5	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY

TABLE-II

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16 years	18 years	20 years
1	2	3	4
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

A \pm 10% (A \pm 6 Kg for Navy) departure from the average weight given in the Table I above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

	Minimum	Maximum
Leg length	99.00 cms.	120.00 cms.
Thigh Length	—	64.00 cms.
Sitting Height	81.50 cms.	96.00 cms.

On account of lower age of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (minimum) and 1.0 cm. sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

- (d) Chest should be well developed. Fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted

that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

- (e) There should be no maldevelopment or impairment of function of the bones or joint.

Spinal Conditions

- (f) The following past medical history is disqualifying for Air force duties :

(i) Disease or injury of the spine or sacroiliac joint either with or without objective sign which has prevented the candidate from successfully following a physically active life.

(ii) Prolapse intervertebral disc and surgery for the condition,

- (g) Thorough Clinical examination of the spine including its shape, local tenderness if any, spinal movements etc. is to be carried out. For candidates for aircrew duties only, X-ray of lumbosacral cervical spine (AP and Lateral views); is to be carried out.

- (h) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.

- (i) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.

- (j) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Armed Forces :

(i) Granulomatous disease of spine.

(ii) Arthritis/spondylosis

(iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).

(iv) More than mild Kyphosis/Lordosis

(v) Spondylosthesis/Spondylosis.

(vi) Herniated nucleus pulposes.

(vii) Compression fracture of Vertebra.

(viii) Sacralisation Disease

(ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.

(x) Presence of Schmorl's node at more than one level.

(xi) Atlanto-occipital and atlanto-axial anomalies.

- (xii) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral
- (xiii) Spinabifida other than SV 1 and LV 5
- (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.
- (k) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (l) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric loss should not exceed + 20 db in frequencies between 250Hz and 4000 Hz. There is no impediment of speech.
- (m) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.
- (n) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (o) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, a minimum of 6 months must have passed prior to final medical examination before commencement of the course.
- (p) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (q) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.
- (r) Any disease of the skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (s) A candidate should be able to read in a distant vision chart 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5D and hypermetropia not more than 3.5D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be (CP-III) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity, will be permanently rejected for all the services. Candidates who have undergone Laser Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.
- Vision standard for Naval candidates
- | | |
|-----------------------------|-------|
| Uncorrected without glass | 6/6 |
| Corrected with glass | 6/6 |
| Limits of Myopia | -0.75 |
| Limits of Hypermetropia | +1.5 |
| Binocular vision | III |
| Limits of colour preception | I |
- Ocular Muscle Balance Hetrophoria with the Maddox Rod Test must not exceed:
- (i) At 6 metre— Exophoria 8 prism dioptres,
Esophoria 8 prism dioptres,
Hyperphoria 1 prism dioptres.
- (ii) at 33 cm Exophoria 16 prism dioptres,
Esophoria 6 prism dioptres,
Hyperphoria 1 prism dioptres.
- For Air Force, the criteria are :—
- Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.
- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Distant vision | 6/6, 6/9 and correctable to 6/6 only for Hypermetropia. No Manifest Myopia permitted. |
| Near Vision | N-5 each eye |
| Colour Vision | CPI (MLT) |
| Manifest Hypermetropia | Must not exceed +2.00 D Sph |
| Myopia | Nil |
| Astigmatism | +0.75 Cyl |
- Hetrophoria with the Maddox Rod must not exceed—
- (i) at 6 metres— Exophoria 6 prism dioptres.
Esophoria 6 prism dioptres.
Hyper/Hypophoria 1 prism dioptres.
- (ii) at 33 cms. Exophoria 16 prism dioptres.
Esophoria 6 prism dioptres.
Hyper/Hypophoria 1 prism dioptres.
- (iii) Binocular Must possess good binocular vision (fusion Vision and Stereopsis with good amplitude and depth).
- (t) USG abdomen examination will be carried out and any congenital structural anomaly or disease of the abdominal organs will be a cause for rejection in Armed Forces.

- (u) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.
- (v) Routine ECG and EEG for Air Force candidates must be within normal limits.
- (w) "Physical conditioning" Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned routine :—
 - (a) Running 2.4 Km in 15 minutes
 - (b) Skipping
 - (c) Pushups and sit ups (minimum 20 each)
 - (d) Chin ups (minimum 08)
 - (e) Rope climbing 3-4 metres.

APPENDIX-III

(BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.

2. The cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will however, be required to meet their pocket and other private expenses.

Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 400.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance upto Rs. 400.00 p.m. for the 1st and 2nd years. Rs. 400.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs. 400.00 p.m. for the further specialised training in Army/Navy/Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 1500/- per month and Rs. 2000.00 per month if more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force would be eligible for the grant of financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune (411023).

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there :

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 400.00 per month.	Rs. 2000.00
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 3200.00
(c) Incidental Expenditure during 1st Semester	Rs. 425.00
Total	Rs. 5625.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidate in the event of financial aid being sanctioned to them.

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 175.00 per month	Rs. 875.00
(b) For items of clothing and equipment approximately.	Rs. 475.00

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy.

(1) **PARSHURAM BHAU PATWARDHAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre-commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship,

will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) **KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Naval Academy, Cochin where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) **ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) **UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) **KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—One merit scholarship of the value of Rs. 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the All India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) **BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE**—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) **ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parents' or guardians' income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

(9) **WEST BENGAL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Following categories of scholarships are awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

Scheme-I

Number of Scholarships	- Six per year.
Distribution of Scholarships	- One each for Army, Navy and Air Force for each of two terms commencing every year.
Financial grant per Award	- 1st year - Lumpsum clothing grant of Rs. 2500/- and Pocket Allowance of Rs. 125/- per month. 2nd/3rd/4th year—Pocket Allowance of Rs. 125/- per month.

Scheme-II

Number of Scholarships	- Six per year.
Distribution of Scholarships	- As in Scheme-I.
Financial grant per Award	- 1st/2nd/3rd/4th year - Lumpsum grant of Rs. 100/- each year.

(10) **PILOT OFFICER GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL SCHOLARSHIP**—One scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipts. The cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) **HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parents' income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(12) **TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parents'/guardians' monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) **KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—The Government of Karnataka has awarded 18 scholarships (Eighteen Scholarships) 9 in respect of course commencing from January and 9 in respect of course commencing from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480/- (Rupees Four hundred and eighty) each per annum. Four more scholarships (two per term) at the rate of Rs. 480/- per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/RIM College, Dehra Dun have been awarded.

(14) **ALBERT EKKA SCHOLARSHIP**—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(15) **FG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Gp Capt M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

(16) **FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE**

The wards of Maharashtrian ex-service officers/men who are undergoing training as Cadets at NDA/IMA/Air Force Academy and Naval Academy will be given pocket expenses prescribed by the Training Establishment at the following rates :

Ex-Officers :	50% of total pocket expenses for entire duration of training.
Ex-JCOs :	75% -do-
Ex-ORs :	100% -do-

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zila Sainik Welfare Office

alongwith the certificates obtained from the academy, showing the rates of pocket money, based on which the amount will be remitted to the applicant's parents.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE (411 023).

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

Training

6. The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B. Sc. (computer) B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to the Cadets Trainingship and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable to leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. The Naval cadets are selected for the Executive, Engineering and Electrical Branches of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given sea training on the Cadet Trainingship for a period of six months on successful completion of which they are promoted to the rank of Midshipmen. After a further training of 6 months in the respective branches to which they are allocated they are promoted to the rank of sub Lieutenants.

10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional commission in the rank of Flying

Officer after successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(i) Stipend for Cadet Training

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs. 8000/- p.m. On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service.

(ii) Pay

(a) Rank Pay Scale

Lt.	Rs. 8250-300-10050
Capt.	Rs. 9600-300-11400
Major	Rs. 11600-325-14850*

*On promotion to the rank of Major and equivalent in substantive capacity the pay will be fixed initially at the stage of Rs. 11,925 in the pay scale of Rs. 11,600-325-14,850, in addition to Rank pay.

Lt. Col.	Rs. 13500-400-17100
Col.	Rs. 15100-450-17350
Brig.	Rs. 16700-450-18050

(b) In addition to pay, Rank pay will also be given as under :—

Capt.	Rs. 400
Major	Rs. 1200

Due to restructuring of the officer's cadre, on recommendation of AVS committee, promotion period has been reduced and Time Scale promotion has been increased upto the rank of Col and rank of Lt. Col (TS) has been abolished. Col. (TS) are entitled to rank pay of Lt. Col which is currently Rs. 1600/- p.m.

Col.	Rs. 2000
Brig.	Rs. 2400

(c) Rank Pay Scale

Maj. Gen.	Rs. 18400-500-22400.
Lt. Gen.	Rs. 22400-525-24500.

Vice-Chief of the Army Staff and Army Cdrs	Rs. 26000 (Fixed)
Chief of the Army Staff	Rs. 30,000 (Fixed).

(iii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers possessing certain prescribed qualifications are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 3000/-, 4500/-, 7500/- or 10,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 250/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 200/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 140/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 200/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card Rs. 140/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :—

- (a) Brig & above Rs. 5250/-
- (b) Maj to Col. Rs. 7000/-
- (c) Capt. Rs. 5500/-
- (d) Lt. Rs. 4500/-

(iv) Allowances

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :

(a) Compensatory (City) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowances of Rs. 200/- p.m.

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Highly Active Field Area Allowance at the rate of Rs. 3390/- to Rs. 4200/- p.m., Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 2100/- to Rs. 2600/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 800/- to Rs. 1000/- p.m.

(d) In addition to the Compensatory Field Area Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. to 15000 ft. and areas above 15000 ft. High Altitude category I (9000 Feet to 15000 feet an uncongenial Areas below 9000 feet) High Altitude category II (above 15000 feet) would be admissible at the rate of Rs. 530/- to Rs. 1060/- and Rs. 800/- to Rs. 1600/- p.m. respectively.

(e) Siachen Allowance at the rate of Rs. 7000/- per month will be admissible in addition to Compensatory Field Area Allowance to officers of all ranks. This allowance is, however, not admissible in conjunction with High Altitude/uncongenial climate allowance. Personnel entitled to Siachen Allowance and Flying Allowance can draw either of the two and not both concurrently.

(f) Outfit allowance : Initial Outfit allowance is Rs. 6000/-. Renewal outfit allowance Rs. 6000/- after seven years of effective service.

(g) Free rations are provided to all officers.

(h) Transport Allowance : Transport allowance @ Rs. 800/- p.m. in 'A-1' and 'A' class cities and Rs. 400/- per month at other places shall be admissible to officers not provided with Government accommodation within a distance of 1 KM from the place of duty or within a campus housing the place of work and residence.

12. (a) Army Group Insurance Fund is a Compulsory contributory group scheme, which provides insurance cover for Rs. 8 lac on payment of one time premium of Rs. 4250/- for 3 years paid in advance in lump sum by the cadets including Naval and Air Force Cadets of NDA from the date of joining for Pre-commission training till completion of training NDA. In case of relegation an additional premium Rs. 770/- per relegated term will be paid immediately on occurrence. For those who are medically boarded out of NDA on account of Disability, the cover provided is 50 percent of the insured amount for 100 percent disability i.e. Rs. 4 lac for 100 percent disability which is proportionately reduced to Rs. 80,000/- for 20 percent disability. Cadets being boarded out with less than 20 percent will be given an ex-gratia grant of Rs. 20,000/-. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the disease of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

(b) At IMA when in receipt of stipend of Rs. 8,000/- per month the Gentlemen Cadets are provided insurance cover

of Rs. 15 lac. Those who are medically boarded out of IMA on account of disability, the cover provided is 50 percent of insured amount for 100 percent disability, i.e. Rs. 7.5 lac for 100 percent disability which is proportionately reduced to Rs. 1.5 lac for 20 percent and an ex-gratia grant of Rs. 20,000/- for less than 20 percent disability. Disability due to alcoholism Drug addiction and due to the diseases of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia. On commissioning Gentlemen Cadets would be covered under the main Army Group Insurance Scheme as applicable to Regular Army Officers.

13. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casually pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

14. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

RAMESHWAR DAYAL

Dy. Secy.

Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 17th September 2007

No. O.II. 2346/87-CRC (MoS)—On her voluntary retirement, Dr. Neena Soni, CMO (OG) (IRLA-2592) of GC, CRPF, Ranga Reddy (AP) made over charge of her post from the forenoon of 1/9/2007. Accordingly, her name is deleted from the strength of the Force from 1/9/2007 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 20th September 2007

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers-II/2304—Consequent to his retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, Shri Bal Krishan, DIG, relinquished the charge of the post of DIG (I&P), CISF Hqrs. New Delhi in the afternoon of 31.08.2007.

Sd/-

ILLEGIBLE

Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 19th September 2007

No. 5796-GE-I/13/2006—The following IA&AS Officers have retired on superannuation/resigned from Government service from the date shown against their names:—

S/Shri

1. Shailendra Pandey Retired on Superannuation wef. 31.08.2007 (AN)
2. Boddu Raju Resigned wef. 31.07.2007 (FN)
3. S.S. Ranwadkar Retired on superannuation wef. 31.08.2007 (AN)
4. Tarsem Lal Retired on superannuation wef. 31.08.2007 (AN)
5. K.C. Sen Retired on superannuation wef. 31.08.2007 (AN)
6. P.K. Goyal Resigned wef. 10.08.2007 (AN)
7. Suneet Mehta Resigned wef. 16.08.2007 (AN)
8. Prasanth N. Resigned wef. 16.08.2007 (AN)

DEEPAK NARAIN
Asstt. Comptr. &
Auditor General (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 18th September 2007

No. OE (Cash)/Pen/10-2/2007-08—The following officers of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the date noted against their names:—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Sri. S. Naveen Kumar, Senior Audit Officer	31.08.2007	Superannuation
2.	Sri. V.N. Sankara Pillai, Senior Audit Officer (C)	31.08.2007	Superannuation
3.	Sri. K. Thankappan, Senior Audit Officer	31.08.2007	Superannuation
4.	Sri. B. Rajendran, Audit Officer (C)	31.08.2007	Superannuation

DIVAKURAN PILLAI
Senior Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A/E),
KERALA

Thiruvananthapuram the, 20th Sep 2007

No. O.E./E&C/EIVP/82—The following officials of IA&AD retired from service:—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. M.K. Sarada	Sr. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	31.08.2007 (A/N) (Superannuation)
2.	Smt. P.K. Kunjannamma	Sr. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	31.08.2007 (A/N) (Superannuation)
3.	Smt. L. Suleiha	Asst. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	31.08.2007 (A/N) (Superannuation)

K. Vimal Kumaran
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER (MSME)

New Delhi, the 17th September 2007

No. A-19018/804/86-Admn-(G)—On attaining the age of superannuation, Shri A.K Sinha Director (Mechanical), Office of Development Commissioner (MSME), New Delhi under

this Organization retired from government Service on the afternoon of 31.08.2007.

MAHINDER SINGH
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 27th September 2007

No. A-19011/352/02-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri K.N. Kalode, Assistant Contoller of Mines is promoted to the post of Senior Asstt. Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 23.08.2007 (After-noon).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer for Controller General

No. A-19012/461/2007-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri P.G. Bhattacharya, Senior Technical Assistant (M.E.) is promoted to the post of Asstt. Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 29.08.2007 (A.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer for Controller General

No. A-19012/462/2007-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri M. R. Kaware, Senior Technical Assistant (M.E.) is promoted to the post of Asstt. Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f. 24.08.2007 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer for Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 26th September 2007

No. 3113/A-38012/1 (Vol. Rt.)/02/19A.—Smt. Kalpana Sengupta, Director (Geol), Geological Survey of India, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- has retired volutarily w.e.f. 01.06.2007 (F.N.) in terms of Rule-48(A)(1) of CCS (Penion) Rules, 1972.

D.T. SYREMLIEH
Director (P&A) for Director General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 27th March 2007

ORDER

No. 1/15(1)/2004-Vig./2004—Whereas it was alleged that Smt. K. Leela Rani, Scientific Officer 'D' Indira Gandhi Centre

for Atomic Research, Kalpakkam who was granted Earned Leave From 17.03.2003 to 15.04.2003 and on expiry of the leave has not reported for duty and unauthorisedly absent from duties with effect 16.04.2003;

2. And whereas the said Smt. Leela Rani by her aforesaid action has shown lack of devotion to duty and has thus acted in a manner unbecoming of a Government servant thereby contravening the provisions of Sub Rules 1 (ii) and 1(iii) of Rule 3 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;

3. And whereas the said Smt. Leela Rani was informed of the charge and of the action proposed to be taken against her under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, vide Memorandum No. 1/15(1)/2004-Vig./3151 dated 10.05.2004;

4. And whereas the said Smt. Leela Rani did not furnish any written statement of defence;

5. And whereas an inquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 was ordered appointing and Inquiring Authority, vide Order No. 1/15(1)/2004-Vig./7577 dated 1.11.2004;

6. And whereas after completion of the inquiry proceedings the Inquiring Authority submitted his report holding the charge against the said Smt. Leela Rani as proved;

7. And whereas after careful consideration of the inquiry report and other relevant records of the case, the disciplinary authority agreed with the findings of the Inquiring Authority;

8. And whereas the said Smt. Leela Rani did not submit any representation against the inquiry report;

9. And whereas after careful consideration of the inquiry report and other relevant records of the case, Disciplinary Authority agreed with the findings of the Inquiry Authority and held the charge against Smt. Leela Rani as proved and that ends of justice would be met in this case if the penalty of 'removal from service' is imposed on the said Smt. Leela Rani;

10. And whereas the UPSC was consulted in the matter and Commission after considering all relevant records and other aspects of the case, vide its letter No. F.3/105/2006-SI dated 12.12.2006 (copy enclosed) advised imposition of the penalty of 'dismissal from service' on the said Smt. Leela Rani;

11. And whereas after careful consideration of the advice of UPSC, the Disciplinary Authority has decided to accept the advice of the commission and to impose the penalty of 'dismissal from service' on the said Smt. Leela Rani;

12. Now therefore, the President in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 hereby

imposes the penalty of 'dismissal from service' on the said Smt. K. Leela Rani, Scientific Officer/ D, IGCAR, Kalpakkam with immediate effect.

By order and in the name of the President,

ANIL KAKODKAR
Secy.

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai- 400094, the 18th September 2007

Ref: DPS/10006/Rectt./4427:—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Geeta L. Bangera, Purchase Assistant (scale of pay Rs. 5,000-150-8,000/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay Rs.6,500-200-10,500/- in the same unit, on ad-hoc basis w.e.f. 2nd April, 2007 (FN) to 29th June, 2007 (AN).

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

Ref: DPS/10006/Rectt./4428:—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Kalavathy C. Pillai, Junior Purchase Assistant (scale of pay Rs. 4,000-100-6,000/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay Rs.6,500-200-10,500/- in the same unit, on ad-hoc basis w.e.f. 23rd April, 2007 (FN) to 11th June, 2007 (AN).

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

The 20th September 2007

Ref: DPS/10006/Rectt./4468—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri. V. Y. Patwardhan, Junior Purchase Assistant (scale of pay Rs. 4,000-100-6,000/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay Rs.6,500-200-10,500/- in the same unit, on ad-hoc basis w.e.f. 28th May, 2007 (FN) to 11th July, 2007 (AN).

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

Ref: DPS/10006/Rectt./4469—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. R. Uma, Junior Purchase Assistant (scale of pay Rs. 4,000-100-6,000/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay Rs.6,500-200-10,500/-, in the same unit, on ad-hoc basis w.e.f. 1st June 2007 (FN) to 24th Aug, 2007 (AN).

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, 11th September 2007

No. Brit/9/17/Feb/2007/74—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'D' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department, of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the same unit with effect from the forenoon of 01 February 2007 until further orders.

Sl. No.	Name
1.	Kum. Kalpana Chandra Kant Khedkar
2.	Smt. Shubhangi Manoj Mirapurkar
3.	Dr. (Smt). Vrinda Prashant Chouthkanthiwar

A.K. KOHLI
Chief Executive

No. Brit/9/17/Feb/2007/75—The President is pleased to appoint Shri Prabhakar Naskar, Scientific Officers/Engineers Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit with effect from the forenoon of February 01, 2007 until further orders.

A.K. KOHLI
Chief Executive

No. Brit/9/17/Feb/2007/76—The President is pleased to appoint Shri Balasubramaniyam Sundaravadivelu, Scientific Assistant Grade 'F' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the scale of pay Rs. 12,000-375-16,500/-, in the same unit with effect from the forenoon of February 01, 2007 until further orders.

A.K. KOHLI
Chief Executive

Navi Mumbai-400705, the 11th September 2007

No. Brit/9/17/Feb/2007/80—Chief Executive, Brit appoint the undermentioned Scientific Assistants Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same unit with effect from the forenoon of February 01, 2007 until further orders:—

Sl. No.	Name
1.	Shri Debabrata Paul
2.	Shri Manoj Kumar Sharma
3.	Shri Sanjit Kumar Saha
4.	Kum. Swati Shripal Kashid
5.	Shri Thangam Saravanan

O.K. SATHIAN
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 21st September 2007

Ref: NFC/PAR.II/8-2007/783.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'G' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad to the grade of Scientific Officer/Engineer (H) in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the dates indicated against each, in the same Unit, in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	Dt. of Promotion
	S/Shri/Smt.	
1.	Ram Sharan Jha	10.08.2007
2.	B. Prahlad	10.08.2007
3.	K. Satya Prasad	10.08.2007
4.	J.V. Muralidhar Rao	10.08.2007
5.	Sheela	10.08.2007

A.S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 26th September 2007

No. A-19011/7/92-E.II—On attaining the age of superannuation, Capt. Deepak Raina, Senior Pilot stands retired from Government Service with effect from 30.09.2007 (after-noon).

MEENA SHARMA
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shradha Infosys Private Limited

Ahmedabad the, 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00125—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shradha Infosys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swift Repro Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01630/7319—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Swift Repro Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harshavardhan Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01594/7323—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Harshavardhan Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karolia Tradelinks Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01165/7662—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Karolia Tradelinks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishal Printed Circuit Board Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01176/7666—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Vishal Printed Circuit Board Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamalaben Ambalal General Hospital Private
Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
01187/7670—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Kamalaben Ambalal General Hospital Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Reetu Dyestuff Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
01199/7674—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Reetu Dyestuff Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sweety Auto Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
01207/7678—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Sweety Auto Finance Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varni Plantation Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/
01154/7682—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Varni Plantation Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambica Plasto-Weave Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/
00442/7686—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Ambica Plasto-Weave Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Randal Textiles Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/
00340/7690—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Randal Textiles Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK

Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sankagri Laboratories Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/
00355/7694—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Sankagri Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tulsidewa Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00457/7698—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tulsidewa Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Astha Sthapatya Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00395/7706—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Astha Sthapatya Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apurva Sthapatya Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00407/7710—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Apurva Sthapatya Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shayona Audio Visual Co. Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00303/7714—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shayona Audio Visual Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Simoni Domestic Appliances Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00536/7719—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Simoni Domestic Appliances Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amazing Finance And Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00561/7722—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Amazing Finance And Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Expert Cargo Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00160/7729—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Expert Cargo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sapan Tradelink Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01086/7730—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sapan Tradelink Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijeta Money Spinners Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00257/7734—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vijeta Money Spinners Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navlakha Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00291/7738—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Navlakha Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwati Dehydration Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01147/7742—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bhagwati Dehydration Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Realible Break Down Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01136/7746—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Realible Break Down Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Circuit Breakers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00470/7750—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gujarat Circuit Breakers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vallabh Packaging Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00482/7754—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Vallabh Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanghvi Finvest Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00496/7758—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sanghvi Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wagesh Energy Equipments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00513/7762—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Wagesh Energy Equipments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neeraj Finvest Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00323/7766—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Neeraj Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jade Hotel Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00271/7770—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jade Hotel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvodya Fincap Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00417/7774—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sarvodya Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajvi Finlease Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01217/7778—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rajvi Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aavas Motels and Resorts Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00354/7782—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Aavas Motels and Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supremo Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00558/7786.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Supremo Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lega Partha Lease Fin Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00567/7790.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Lega Partha Lease Fin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashrita Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00588/7794.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ashrita Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Palak Tea Traders Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00611/7798.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Palak Tea Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rachna Sthapatya and Properties Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00373/7801.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rachna Sthapatya and Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhigam Plantation Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00599/7802.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Abigam Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hadiya Steels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00078/7806.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Hadiya Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Himanshu Cement Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00068/7810.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Himanshu Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaivimal Polyyarn Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00543/9211.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jaivimal Polyyarn Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. HST Impex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00332/9215.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. HST Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyam Aluminium Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00546/9219.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Satyam Aluminium Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishakha Tradelink Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00335/9223.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vishakha Tradelink Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ultra Land Scape and Acquatics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00881/9825.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ultra Land Scape and Acquatics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shukan Hotels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00341/9227.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Shukan Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balaji Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00338/9231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shree Balaji Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nishant Stockbroking Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00344/9235.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nishant Stockbroking Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Proline Networking Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00347/9239.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Proline Networking Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aaditya Mines Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00490/9242.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Aaditya Mines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Integra Compunet Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00366/9243.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Integra Compunet Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Platinum Softwel Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00493/9251.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Platinum Softwel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rituraj Properties Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00496/9255.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Rituraj Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. PCD Consultants Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00500/9259.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. PCD Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devraj Holding and Resort Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00506/9263.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Devraj Holding and Resort Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yogi Plywood Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00914.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Yogi Plywood Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ICON Compusoft Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01007/9271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. ICON Compusoft Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Infovision Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01027/9275.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gujarat Infovision Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreeji Bapa Machinery (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00974/7279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shreeji Bapa Machinery (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashish Organisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00949/9283.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Ashish Organisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Yogi Organisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00910/9287—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Yogi Organisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Gayatri Brokers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00674/9291—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Gayatri Brokers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dixha Info-Tech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00461/9295—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dixha Info-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nascent Healthcare Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01857/9299—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nascent Healthcare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aniket Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01694/9302—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Aniket Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hariom Flour Mills Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01579/9307—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hariom Flour Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dos-Max Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01675/9311—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Dos Max Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyam Audio Systems Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01655/9315.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Satyam Audio Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maruti Commercial Complex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00535/9327.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Maruti Commercial Complex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apex Marine Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00516.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Apex Marine Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Yash Foods Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00589/9335.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shri Yash Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Waterking (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01716/9339.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Waterking (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Belgravia Exports Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01788/9347.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Belgravia Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Incap Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01739/9347.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Jupiter Incap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karnavati Auto Rixa Finlease Investment Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01795/9351—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Karnavati Auto Rixa Finlease Investment Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sacrosanct Lease and Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01813/9355—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sacrosanct Lease and Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chini Leasing and Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01824/9359—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chini Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trupti Biotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00570/9367—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Trupti Biotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soni Land Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01839/9367—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Soni Land Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rattan Filaments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00553/9371—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rattan Filaments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prime Buildcon Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00491/9375—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Prime Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Pujanjali Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00471/9379—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hotel Pujanjali Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prayag Exporters Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00863/9383—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Prayag Exporters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Maruti Nandan Plastics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00815/9383—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shree Maruti Nandan Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karsan Buildcon Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00751/9391—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Karsan Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anjaria Buildcon Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00724/9395—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Anjaria Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harideep Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00681/9399—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Harideep Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Safe Value Investock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00961/9403—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Safe Value Investock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prayag Gorwarders Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00938/9407—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Prayag Gorwarders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chauhan Beverages Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00172/9411—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chauhan Beverages Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Megh Foods Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00644/9415—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Megh Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Batul Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00182/9419—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hotel Batul Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Furious Electronics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01102/9423—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Furious Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Great Land Motel Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01053/9427—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Great Land Motel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shradha Cement Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00144/9431—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Shradha Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rituraj Enterprise Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00125/9435—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rituraj Enterprise Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Arti Steel Pipes Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00116/9439—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shree Arti Steel Pipes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fahtech Valves and Controls Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00096/9442—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Fehtech Valves and Controls Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Minnitech Agencies and Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00106/9443—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Minnitech Agencies and Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shahnam Electronics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00084/9451—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shabnam Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ghanshyam Machinery Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00086/9455—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ghanshyam Machinery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venus Conversion Systems (Auto) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00084/9459—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Venus Conversion Systems (Auto) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Vegpro Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00820/9463—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gujarat Vegpro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanghvi Cyber Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00507/9467—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sanghvi Cyber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ms Printorium Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00499/9471—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Printorium Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Millenium Consumer Care Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00492/9475—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Millenium Consumer Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharadia Tea Company Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00475/9479—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bharadia Tea Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Birva Fincap Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00320/9483—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Birva Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gorsia Shippers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00384/9487—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Gorsia Shippers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leicester Health First Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00399/9491—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Leicester Health First Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inertia Leasing and Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00451/9495—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Inertia Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarjak Hotels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01023/9499—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sarjak Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yogi Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01493/9503—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Yogi Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shyam Integrated Finance Co. Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01468/9511—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shyam Integrated Finance Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sparsh Securities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01449/9515—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sparsh Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arbuda Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00399/9519—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Arbuda Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maliram Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00413/9523—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Maliram Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trilok Investment and Securities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00443/9527—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Trilok Investment and Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indus Furnishers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00575/9531—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Indus Furnishers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahalaxmi Interlink Fiscal Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00248/9535—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mahalaxmi Interlink Fiscal Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manoj Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00456/9539—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Manoj Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ketaki Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00807/9543—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ketaki Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Acme Fly Ash Technics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01088/9547—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Acme Fly Ash Technics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ghanshyam Meta Tech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00664/9551—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ghanshyam Meta Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fast Track Magnetics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00598/9555—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Fast Track Magnetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dharti Granites Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00619/9559—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dharti Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lunik Engineering Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00350/9563—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Lunik Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varahi Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00651/9567—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Varahi Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Communication Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00442/9571—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shivam Communication Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bright Securities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00408/9575—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Bright Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gupta Automobile Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00390/9579—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gupta Automobile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishant Gases Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00179/9587—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vishant Gases Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parsh Packaging Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00192/9591—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Parsh Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nostredame Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00211/9595—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nostredame Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ram Maruti Sahyog Leasing and Finance
Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00273/9599—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shree Ram Maruti Sahyog Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Landmark Organisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00293/9602—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Landmark Organisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nishita Financial and Trading Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01031/9603—Notice is hereby given pursuant to Sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nishita Financial and Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vir Gases Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00425/9611—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vir Gases Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Niki Share consultancy Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00280/9615—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Niki Share Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sacchai Metals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00310/9619—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sacchai Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahesh Real Trading and Investment Private
Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00324/9861—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mahesh Real Trading and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Panchal Metal Coats Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00352/9865—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Panchal Metal Coats Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atul Milk Cans Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00371/9869—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Atul Milk Cans Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Energy and Craft Consultants Private
Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00429/9873—Notice is hereby given pursuant to Sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jupiter Energy and Craft Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amarprakash Capital and Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00451/9877—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amarprakash Capital and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Angee Holdings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00471/9881—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Angee Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gifcon Financial Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00170/9583—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gifcon Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gajanan Ceremics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00512/9885—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gajanan Ceremics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ojha Thakker Mehta Financial Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00876/9889—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ojha Thakker Mehta Financial Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Energy and Craft Consultants Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00429/9892—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jupiter Energy and Craft Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navsarajan Builders Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00810/9893—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navsarajan Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shayona Steel Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00958/9901—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shayona Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nilasha Finvest Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01015/9905—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nilasha Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Travel Master Bureau Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01007/9909—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Travel Master Bureau Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Transgrand Conyon Fiscal Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/01001/9913—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Transgrand Conyon Fiscal Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Life Inter Link Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00375/9917—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Life Inter Link Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Joy Dairy and Farms Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00386/9921—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Joy Dairy and Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fullmark Compu Systems Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00907/9929—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Fullmark Compu Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bela Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00924/9933—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bela Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ujjwal Steel Tech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00293/9937—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ujjwal Steel Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhara Growthland Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00757/9941—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhara Growthland Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kathiawad Plantation Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00734/9945—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kathiawad Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elite Infrastructures Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00706/9949—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Elite Infrastructures Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lotus Commission Agents Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00678/9953—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lotus Commission Agents Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ritu Acquaculture Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00538/9961—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Ritu Acquaculture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chirag Oil Mill Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00143/9965—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Chirag Oil Mill Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rao Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00150/9969—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rao Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhavtex (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00157/9973—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bhavtex (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janu Impex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00161/9973—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Janu Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varun Paper Mills Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00165/9981—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Varun Paper Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Naresh Housing and Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00170/9985—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Naresh Housing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manorath Carriers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00186/9989—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Manorath Carriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shantiniketan Hotels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00197/9993—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shantiniketan Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prime Silicon Valley Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00206/9997—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prime Silicon Valley Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyam Gems Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00215/10001—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Satyam Gems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gayatri Forgings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00227/10005—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gayatri Forgings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kruti Dye-Chem Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00234/10009—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kruti Dye-Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwas Fabrics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00243/10013—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vishwas Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pinka Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00246/10017—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of the M/s. Pinka Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahesh Fabrics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00253/10021—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mahesh Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Takshasheela Residency Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00131/10025—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Takshasheela Residency Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Divyabhom Minerals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00147/10031—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Divyabhom Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Flaments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00155/10034—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jupiter Flaments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ceeaar Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00167/10037—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ceeaar Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidharth Stone Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00183/10043—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sidharth Stone Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aakarshak Synthetics Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00192/10046—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of the M/s. Aakarshak Synthetics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saprajay Electronics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00176/10040—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saprajay Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakun Hi-Tech Electronics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00204/10049—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shakun Hi-Tech Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhandra Engineering Contract Co. Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00228/10052—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bhandra Engineering Contract Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaspan Texturiers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00298/10055—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vaspan Texturiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Riverdale Pharma Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00098/10058—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Riverdale Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanwaria Silver Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00080/10061—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sanwaria Silver Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neptune Cyberworld Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00073/10064—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of the M/s. Neptune Cyberworld Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditi Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00144/10067—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Aditi Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devson Silk Mills Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00137/10070—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Devson Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vejalpur Sports Club Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00286/10073—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vejalpur Sports Club Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Speedbond Express Courier Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00116/10077—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Speedbond Express Courier services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Niki Polychem Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00110/10080—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Niki Polychem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purushottam Seeds Exports Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00785/10083—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Purushottam Seeds Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhatarwal Transport Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00105/10087—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Dhatarwal Transport Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rushikesh Engineers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00367/10090—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rushikesh Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Angel Lease Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00370/10093—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Angel Lease Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ketan Impex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00373/10097—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ketan Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shashank Electronics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00376/10101—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shashank Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parth Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00012/10105—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parth Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Somar Communications Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00017/10109—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Somar Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comfort Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00021/10112—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Comfort Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanaiya Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00027/10116—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanaiya Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hari Ohm Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00031/10120—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hari Ohm Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tapti Cement Agencies Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00017/10124—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tapti Cement Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saibaba Properties Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00238/10128—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saibaba Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Decora Oxygen Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00304/10132—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Decora Oxygen Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyanka Fashions Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00088/10135—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priyanka Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jineshwar Leasing and Finance Company Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00037/10138—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jineshwar Leasing and Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mamta Fabrics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00041/10142—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mamta Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajputana Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00045/10146—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajputana Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Greenline Travels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00260/10150—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Greenline Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmavati Paper Products Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00275/10154—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Padmavati Paper Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Panoli Tex (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th August 2007

Notice u/s. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2007/00279/10158—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Panoli Tex (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following Companies:—

Kolkata-700 020, the 28th September 2007

No. ROC/WB/IPC/560 (SM)/2007—Notice is hereby given pursuant to Sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 under Suo Moto that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company CIN. No.	Company Name
1	2	3
1.	31129	M/s. A. Karim Alloys Industries Private Limited
2.	21277	M/s. A. N. Laha & Co. Private Limited
3.	30867	M/s. A. N. Y. Tools Private Limited
4.	37208	M/s. A. R. Trading (Minerals) Private Limited

1	2	3	1	2	3
5.	49468	M/s. A. Square Electronics Private Limited	38.	89389	M/s. Antai Balaji Private Limited
6.	29383	M/s. A. B. S. Chemicals Private Limited	39.	54786	M/s. Anugrah Vayapar Private Limited
7.	54833	M/s. A. H. Mercantile Private Limited	40.	46969	M/s. Anuj Distributors Private Limited
8.	49438	M/s. A. S. Dupli Copiers Private Limited	41.	84790	M/s. Anusua Trading Co. Private Limited
9.	31181	M/s. Aabee Associates Private Limited	42.	37663	M/s. Apex Constructors Private Limited
10.	37947	M/s. Aakash Properties Private Limited	43.	85431	M/s. Apex Industrial & Financial Consultants Private Limited
11.	37246	M/s. Aarkay Shilpa Udyog Private Limited	44.	87457	M/s. Aprajita Fin Cap Private Limited
12.	70566	M/s. Aawkins Goods Private Limited	45.	37767	M/s. Arrowheads (India) Private Limited
13.	54291	M/s. Abbe Marketing Consultancy Private Limited	46.	79091	M/s. Arundday Commerce Private Limited
14.	35905	M/s. Abhi Vriddhi Private Limited	47.	85099	M/s. Asb Pharma Private Limited
15.	75823	M/s. Abhilekha Trading Private Limited	48.	46084	M/s. Atlantic Exports Private Limited
16.	49257	M/s. Achi Leathers Private Limited	49.	46579	M/s. Atlas Developers Private Limited
17.	63101	M/s. Ad-On-Wheels Marketing Private Limited	50.	60865	M/s. Aurelian Finance Private Limited
18.	75275	M/s. Adarsh Transport Private Limited	51.	37961	M/s. Avon India Private Limited
19.	29185	M/s. Agai Private Limited	52.	37419	M/s. Awaz Prakashan Private Limited
20.	37243	M/s. Agrani Engineers Private Limited	53.	37658	M/s. Azad Hind Bonded Warehouse Private Limited
21.	63062	M/s. Air Borne Travels Private Limited	54.	84775	M/s. B. B. Housing Private Limited
22.	46004	M/s. Airway Care Clinic Private Limited	55.	88208	M/s. B. B. Ice Factory Private Limited
23.	70275	M/s. Akin Commodeal Private Limited	56.	54482	M/s. B. G. Enterprise Private Limited
24.	29491	M/s. Akra Shankar Saving & Finance Co. Private Limited	57.	29283	M/s. B. M. Engineering Works Private Limited
25.	38251	M/s. Albi Graphics Private Limited	58.	39334	M/s. B. P. Cables and Accessories Private Limited
26.	28285	M/s. Alka Saving Units Private Limited	59.	84683	M/s. Baid Infotech Private Limited
27.	49659	M/s. Alta International Private Limited	60.	36752	M/s. Baisnav Byapar Private Limited
28.	28064	M/s. Amalgamated Bridge & Shell Private Limited	61.	77233	M/s. Baisno Mercantile Private Limited
29.	79726	M/s. Amidev Builders Private Limited	62.	46389	M/s. Balagarh Cold Storage Private Limited
30.	46344	M/s. Amkay Exports Private Limited	63.	75296	M/s. Balajee Fluorotech Seals Private Limited
31.	51077	M/s. Ams Engineering Private Limited	64.	28539	M/s. Balaka Movies Private Limited
32.	89282	M/s. Amtrade Impex Private Limited	65.	76885	M/s. Baland Tie-Up Private Limited
33.	85096	M/s. Animex Enterprises India Private Limited	66.	31019	M/s. Banarsilal Khemka & Co Private Limited
34.	28997	M/s. Anjana Saving & Finance Co Private Limited	67.	85434	M/s. Bangla Plasto Synergies Private Limited
35.	79087	M/s. Ankur Commodities Private Limited	68.	47519	M/s. Banoza Hotels Private Limited
36.	29648	M/s. Annapurna Flour Mills Private Limited	69.	54903	M/s. Bansal Consultancy & Marketing Private Limited
37.	75427	M/s. Anree Investment Private Limited	70.	28332	M/s. Bansam Agencies Private Limited

1	2	3	1	2	3
71.	54440	M/s. Barasat Poultry & Allied Farms Private Limited	101.	31121	M/s. Business Like Consultants & Engineers Private Limited
72.	61793	M/s. Beacon Nivesh Private Limited	102.	85373	M/s. C & P Consumer Products Private Limited
73.	80253	M/s. Beepage Private Limited	103.	85444	M/s. C. F. C. Investments Private Limited
74.	29609	M/s. Ben Nevis Polymer Private Limited	104.	49889	M/s. C. G. M. Testing Company Private Limited
75.	31811	M/s. Bengal Rosin & Turpentine Private Limited	105.	89337	M/s. C. R. Dey Liquors Private Limited
76.	29488	M/s. Bengal Sea Food Private Limited	106.	35029	M/s. Calcutta Containers Private Limited
77.	49800	M/s. Bhagwati Agro-Planters Private Limited	107.	37881	M/s. Calcutta Land & Building Construction Private Limited
78.	21677	M/s. Bharat Jute Refine Factory Private Limited	108.	29030	M/s. Calcutta Licensed Measurers Private Limited
79.	79287	M/s. Bhat Fincon Services Private Limited	109.	29998	M/s. Calcutta Synthetic Products Private Limited
80.	39070	M/s. Bhattacharyee and Barary Private Limited	110.	79222	M/s. Calcutta Tracon Private Limited
81.	37691	M/s. Bhikaji Properties Private Limited	111.	36855	M/s. Caltherm Industrial Products Private Limited
82.	37609	M/s. Bhupendra Metaliks Private Limited	112.	84823	M/s. Calyx Agro Private Limited
83.	49772	M/s. Bhuwania Contractors Private Limited	113.	46823	M/s. Careon Appliances India Private Limited
84.	35948	M/s. Bibcon & Co. (Properties) Private Limited	114.	63451	M/s. Cargo Inspectors & Superintendence Co. Private Limited
85.	29892	M/s. Bichitra Chit & Investment Co. Private Limited	115.	49792	M/s. Carrywell Transport Private Limited
86.	63176	M/s. Billy Finance Private Limited	116.	28006	M/s. Chakdaha Textiles Private Limited
87.	49840	M/s. Bishnupur Poly-Olefins Private Limited	117.	47473	M/s. Challenge Services Private Limited
88.	37626	M/s. Black Diamond Films Private Limited	118.	39997	M/s. Chamanix Electronics Private Limited
89.	38278	M/s. Blue Bell Impes Private Limited	119.	39042	M/s. Chanda Food Products Private Limited
90.	37906	M/s. Bokaro Cements Private Limited	120.	79149	M/s. Chandan Supply Private Limited
91.	35791	M/s. Bon Amis Trucking and Agencies Private Limited	121.	17718	M/s. Channel Communications Private Limited
92.	39518	M/s. Boria Prints Private Limited	122.	79226	M/s. Chariot Marketing Private Limited
93.	89284	M/s. Bornfree Garments Private Limited	123.	28329	M/s. Chatterjee Health Service Private Limited
94.	36988	M/s. Bose & Bose Private Limited	124.	66298	M/s. Chawala Marbels & Granites Private Limited
95.	49953	M/s. Brasstacks Exim Private Limited	125.	49738	M/s. Cherry Coke Manufacturing Private Limited
96.	36977	M/s. Bremen Technik Private Limited	126.	46449	M/s. Chhajlani Packaging Private Limited
97.	36429	M/s. Bul & Bul Engineering Co. Private Limited	127.	79086	M/s. Choice Vinimay Private Limited
98.	31216	M/s. Bureau of Mechanical & Structural Engineers Private Limited	128.	11268	M/s. Choudhury Roy & Co. Private Limited
99.	34819	M/s. Burman Commercial Private Limited	129.	85054	M/s. Chowdhury Group Engineering Consultancy Private Limited
100.	29330	M/s. Burnpur Lucky Benefit Savings Private Limited			

1	2	3
130.	36061	M/s. Cift Consultants Private Limited
131.	49369	M/s. City Eye Care Private Limited
132.	35952	M/s. Civengers Apollo (India) Private Limited
133.	39061	M/s. Classic Projects & Publications Private Limited
134.	28333	M/s. Commercial Polymech Private Limited
135.	84873	M/s. Conage Surface Treatments Private Limited
136.	28686	M/s. Consman India Private Limited
137.	39016	M/s. Console Business System (India) Private Limited
138.	31819	M/s. Consolidated Tea Development Consultancy Services Private Limited
139.	89256	M/s. Consortium Solution Private Limited
140.	79471	M/s. Cosy Home Private Limited
141.	54637	M/s. Crapcon Services Private Limited
142.	61193	M/s. Creamy Confectionery Private Limited
143.	79269	M/s. Creative Aesthetics Private Limited
144.	61398	M/s. Creative Realtors Private Limited
145.	87057	M/s. Credible Export Private Limited
146.	49793	M/s. Cupid Impex Private Limited
147.	49610	M/s. Cyclic Finance & Investment Company Private Limited
148.	39104	M/s. D. I. O. Services Private Limited
149.	89345	M/s. Dalkola Cold Storage Private Limited
150.	46905	M/s. Dalkola Dal Mills Private Limited
151.	49612	M/s. Damodar Agro-Plastics Private Limited
152.	75143	M/s. Das Assembling Company Private Limited
153.	49319	M/s. Das Delta Software Private Limited
154.	63104	M/s. Das Digital Services Private Limited
155.	87283	M/s. Debjyoti Construction Private Limited
156.	38138	M/s. Decesion Associates Private Limited
157.	49510	M/s. Decision Computer Systems Private Limited
158.	63185	M/s. Decop Designers (India) Private Limited
159.	49502	M/s. Deepak Merchantile Private Limited

1	2	3
160.	78724	M/s. Dempo Traders Private Limited
161.	54837	M/s. Deo Yarn Private Limited
162.	70329	M/s. Dhansafal Vinimay Private Limited
163.	79225	M/s. Dhanwanti Marketing Private Limited
164.	29989	M/s. Dharitri Joutha Khamar Private Limited
165.	39701	M/s. Digi-Scale Private Limited
166.	88546	M/s. Digital Design Private Limited
167.	28485	M/s. Dipak Zarda & Perfumeries Private Limited
168.	61716	M/s. DLS Express Private Limited
169.	79714	M/s. Dole Marketing Private Limited
170.	28282	M/s. Dominion Metal Industries Private Limited
171.	46537	M/s. Doyle-Vann Labs Private Limited
172.	37400	M/s. Dr. S. D. Debnath Homoeo Laboratory Private Limited
173.	11210	M/s. Dragon Chemical Works (Research) Private Limited
174.	79501	M/s. Dream Touch Travels Private Limited
175.	29339	M/s. Durgapur Rubber Private Limited
176.	70293	M/s. Dustan Vanijya Private Limited
177.	29736	M/s. Dutt-Stevens Private Limited
178.	75083	M/s. Dwell (India) Constructor and Developer Private Limited
179.	79094	M/s. Dynasty Trading Private Limited
180.	28181	M/s. East Coast Chemicals & Metals Private Limited
181.	11477	M/s. East Ekra Colliery Co. Private Limited
182.	61702	M/s. East India Bio-Tech Private Limited
183.	35919	M/s. Eastern Bonded Warehouse Private Limited
184.	28331	M/s. Eastern Electro Technics Private Limited
185.	39225	M/s. Eastern Real Estate Development Private Limited
186.	54486	M/s. Eastern Techno & Minerals Private Limited
187.	31749	M/s. Eau-Terra Products (India) Private Limited
188.	30861	M/s. Eldorado Savings & Investment Private Limited
189.	37915	M/s. Electronic Industries India Private Limited

1	2	3	1	2	3
190.	85413	M/s. Elixir Fashions Private Limited	220.	63137	M/s. G. C. B. Development Tinsel City Private Limited
191.	84725	M/s. Ellora Merchants Private Limited	221.	29424	M/s. G.D.M. Containers Private Limited
192.	38073	M/s. Emar Wires Private Limited	222.	80189	M/s. G. K. Saha Dairy Private Limited
193.	87538	M/s. Empro Complex Private Limited	223.	35762	M/s. G. P. Electronics Private Limited
194.	31263	M/s. Emsons Electrical Industries Private Limited	224.	86567	M/s. Galcon Equipment Private Limited
195.	30324	M/s. Enar Liner (Agencies) Private Limited	225.	70654	M/s. Gandeva Merchandise Private Limited
196.	88792	M/s. Energy Services Private Limited	226.	31659	M/s. Ganges Distributing & Marketing Co. Private Limited
197.	31258	M/s. Entek Consultants Private Limited	227.	28483	M/s. Ganges Paints Private Limited
198.	61524	M/s. Enzeed Commercial Private Limited	228.	89374	M/s. Ganguly-Dutta Consultants Private Limited
199.	49722	M/s. Escoffier Food House Private Limited	229.	28320	M/s. Gyson Chemical Works Private Limited
200.	79650	M/s. Eskay Writings Private Limited	230.	79839	M/s. GDC Enterprises Private Limited
201.	84882	M/s. Ess Emm Integrated Systems Private Limited	231.	46113	M/s. Geeta Credit & Traders Private Limited
202.	46187	M/s. Essence Chemicals Private Limited	232.	87519	M/s. Geetanjali Mansions Private Limited
203.	61760	M/s. Eveland Freight Movers Private Limited	233.	61276	M/s. Giriraj Interexim Private Limited
204.	39847	M/s. Everest Asbestos Private Limited	234.	54409	M/s. Gold Rush Cards Marketing Services Private Limited
205.	37660	M/s. Evergreen Polyplast Industries Private Limited	235.	38059	M/s. Golden Industrial Managements & Placement Co. Private Limited
206.	76907	M/s. Excellent Management Private Limited	236.	34078	M/s. Good Homes Constructions Private Limited
207.	28085	M/s. Exhibition Stands India Private Limited	237.	89501	M/s. Good Samaritan Hospital Private Limited
208.	87506	M/s. Exphil Commercial Private Limited	238.	70650	M/s. Goodwish Fahtrade Private Limited
209.	37670	M/s. Express Agencies Private Limited	239.	38729	M/s. Gopal Pasu Aahar Udyog Private Limited
210.	28215	M/s. F. K. Traders Private Limited	240.	35757	M/s. Gour Board Factory Private Limited
211.	49884	M/s. Fairmax Exports Private Limited	241.	74747	M/s. Graphic Structures Private Limited
212.	85455	M/s. Fine Herbal Laboratories Private Limited	242.	75610	M/s. Green (India) Agrotech Private Limited
213.	28479	M/s. Flair Advertising & Marketing Private Limited	243.	37714	M/s. Green Wood Machinery Private Limited
214.	21278	M/s. Forward Pressman (India) Private Limited	244.	35873	M/s. Guddu Properties Private Limited
215.	28374	M/s. Franko-Pharma & Chemical Works Private Limited	245.	50027	M/s. Guru Maharaj Motors Private Limited
216.	46372	M/s. Fresher Baby Products Private Limited	246.	49594	M/s. Guruhari Board Industries Private Limited
217.	36103	M/s. Friends Containers Private Limited	247.	89045	M/s. Gurukul Computech Private Limited
218.	26479	M/s. Fumigators India Private Limited	248.	84600	M/s. GV Marketing Private Limited
219.	85433	M/s. G. F. C. Investments Private Limited			

1	2	3
249.	28490	M/s. Haldia Engineering Co. Private Limited
250.	47233	M/s. Hanuman Oil Mills Private Limited
251.	28462	M/s. Happy Family Savings Unit Co. Private Limited
252.	70723	M/s. Haridarshan Vyapaar Private Limited
253.	78823	M/s. Hariom Traders Private Limited
254.	49937	M/s. Haripal Agro-Fed Private Limited
255.	80605	M/s. Harmony Graphics Private Limited
256.	75758	M/s. Hi-Luck Finvest Private Limited
257.	54009	M/s. Hide Accessories International Private Limited
258.	37330	M/s. Highgrown Tea Co. Private Limited
259.	29705	M/s. Hillview Chit Fund Private Limited
260.	46690	M/s. Himadri Apartments Private Limited
261.	77398	M/s. Himalayan Infotech Systems Private Limited
262.	89362	M/s. Himali Tea Plantation Private Limited
263.	38186	M/s. Hindrichs Avffermann (India) Private Limited
264.	38186	M/s. Hindrichs Avfferman (India) Private Limited
265.	46850	M/s. Hidustan Polymer Industries Private Limited
266.	21006	M/s. Hidustan Colapsibel Gate Co. Private Limited
267.	66283	M/s. Hitkari Vinimay Private Limited
268.	31238	M/s. Hooghly Papar Board Mills Private Limited
269.	28984	M/s. Hooghly Wire & Steel Industries Private Limited
270.	28427	M/s. Howrah Poteries Private Limited
271.	67198	M/s. HPR Advisors Private Limited
272.	37692	M/s. I M Properties Private Limited
273.	28236	M/s. Impala Advertising Private Limited
274.	29368	M/s. In-Situ Construction Private Limited
275.	87060	M/s. Ind Mech Private Limited
276.	61578	M/s. Indest Builders Private Limited
277.	24767	M/s. Indian Makers Private Limited
278.	49938	M/s. Indralay Finvest Services Co. Limited
279.	60840	M/s. Indramani Merchants Private Limited

1	2	3
280.	63041	M/s. Indropa Traders Private Limited
281.	31057	M/s. Industrial Infrastructure Mangement Limited
282.	47055	M/s. Innovative Design Centre Private Limited
283.	37423	M/s. Institute of Human Ecosystems
284.	85304	M/s. Insumate Electric Private Limited
285.	75090	M/s. Integrated Housing and Development Co. Private Limited
286.	46336	M/s. Interra Technical Services Private Limited
287.	37256	M/s. Intexco Investments and Consultants Private Limited
288.	37463	M/s. Isomeric (India) Private Limited
289.	37462	M/s. Isomeric Projects Private Limited
290.	41885	M/s. Ispat Gases Private Limited
291.	85449	M/s. Ivory ALPS Expeditions Private Limited
292.	34279	M/s. J. M. Engineering Works Private Limited
293.	36565	M/s. J. N. Tandon Tea Co. Private Limited
294.	29406	M/s. J. P. Commercial Services & Agencies Private Limited
295.	38711	M/s. J. F. Rustomjee & Company Private Limited
296.	39131	M/s. J. P. Builders Private Limited
297.	70619	M/s. Jagannath Barter Private Limited
298.	49709	M/s. Jahan Tea Trading Company Private Limited
299.	85270	M/s. Jai Amba Rolling Mill Private Limited
300.	89919	M/s. Jai Durga Moulds Manufacturing Private Limited
301.	70336	M/s. Jaidhan Vyapaar Private Limited
302.	31934	M/s. Jainan Manufacturers Private Limited
303.	75284	M/s. Jaiswal Electricals Private Limited
304.	50089	M/s. Janki Plastics Private Limited
305.	41838	M/s. Jaya Technocrats Private Limited
306.	63123	M/s. Jayam Sales Agencies Private Limited
307.	77405	M/s. Jaypee Vanijya Private Limited
308.	49534	M/s. Jet Rereads Private Limited
309.	75514	M/s. Jinen Financial Services Private Limited

1	2	3	1	2	3
310.	46386	M/s. Jivandeep Small Saving and Credit Company Private Limited	342.	80039	M/s. Kripa Travel Services Private Limited
311.	52463	M/s. JMS Exports India Private Limited	343.	32849	M/s. Kripsy Food Products Private Limited
312.	79797	M/s. Jogess Refractories & Chemical Private Limited	344.	49604	M/s. Krishna Radha Developers Private Limited
313.	87251	M/s. Jogmaya Hotels & Resorts Private Limited	345.	46152	M/s. KRP Consultants Private Limited
314.	89285	M/s. Jone Johans Apparels Private Limited	346.	89597	M/s. KRS Infotech Private Limited
315.	89033	M/s. Joycity Publications Private Limited	347.	24431	M/s. Kumar Groups Private Limited
316.	49583	M/s. Juniper Electronics Private Limited	348.	31152	M/s. L. B. Aluminium Udyog Private Limited
317.	49704	M/s. K. and S. Construction Private Limited	349.	61944	M/s. L. B. Resources Private Limited
318.	46038	M/s. K. K. Export Private Limited	350.	84943	M/s. L. M. C. Wires & Cables Private Limited
319.	73557	M/s. K. S. Innerspace Private Limited	351.	28032	M/s. Lamsden Food Products Private Limited
320.	49761	M/s. Kajal Electrical Company Private Limited	352.	63293	M/s. Laredo Commotrade Private Limited
321.	54107	M/s. Kalimanjaro Construction Co. Private Limited	353.	54300	M/s. Laxmi Soaps & Detergents Private Limited
322.	46538	M/s. Kalinga Stores Private Limited	354.	46550	M/s. Little Oak Pharmaceuticals Private Limited
323.	84864	M/s. Kalinga Vyapaar Private Limited	355.	29867	M/s. Little Savings & Chit Fund Private Limited
324.	75691	M/s. Kalyaneswari Steels Private Limited	356.	46479	M/s. Lokman Chemicals Private Limited
325.	21208	M/s. Kalyani Motor Service Private Limited	357.	86848	M/s. Lord Jagannath Aircon Private Limited
326.	37693	M/s. Kamaji Properties Private Limited	358.	49435	M/s. Lords Tiles Private Limited
327.	28212	M/s. Kamal Roadways Private Limited	359.	29720	M/s. Lotus Sales India Private Limited
328.	49687	M/s. Kamala Nail & Wire Manufacturing Industries Private Limited	360.	86225	M/s. Lovelord Developers & Consultants Private Limited
329.	37832	M/s. Kar and Associates Private Limited	361.	29748	M/s. M. N. Sen & Co. Private Limited
330.	31135	M/s. Karukrit Engineers Private Limited	362.	84833	M/s. M. R. Management & Consultancy Private Limited
331.	28218	M/s. Kashuba Engineers Private Limited	363.	39087	M/s. M. Aikath China Clay Mines Private Limited
332.	87338	M/s. Kashyap Estate Private Limited	364.	43233	M/s. M. B. Financial & Management Consultants Private Limited
333.	28083	M/s. Kay Kay Dee Engg Export Enterprises Private Limited	365.	47246	M/s. M. D. Food Processing Private Limited
334.	61367	M/s. Kaya Finest Private Limited	366.	47755	M/s. M. N. Productions Private Limited
335.	39072	M/s. Kent Leathers Private Limited	367.	51956	M/s. Ma Made Foods Private Limited
336.	37742	M/s. Kharagpur Steels Private Limited	368.	31569	M/s. Maa Marketing Enterprises Private Limited
337.	47202	M/s. Kiran Mercantiles Private Limited	369.	52257	M/s. Maa Santoshi Polypropylenes Private Limited
338.	76990	M/s. KKG Shares & Stock Brokers Private Limited	370.	89357	M/s. Maa Shitala Construction Private Limited
339.	38005	M/s. Koson Plasto (India) Private Limited			
340.	49649	M/s. KPPS Engineering Private Limited			
341.	61296	M/s. Krepton Traders Private Limited			

1	2	3
371.	79643	M/s. Maa Vaishno Mercantiles Private Limited
372.	47634	M/s. Madhu Fiscal Services Private Limited
373.	37857	M/s. Magadh Estates Private Limited
374.	70356	M/s. Magic Vinimay Private Limited
375.	87500	M/s. Magma Niryat Private Limited
376.	49692	M/s. Magnum Information Systems Private Limited
377.	9832	M/s. Mahabir Hosiery Mills Private Limited
378.	89156	M/s. Mahaparswa Estate Private Limited
379.	76977	M/s. Maharup Tracon Private Limited
380.	46385	M/s. Maheshwari Distributors Private Limited
381.	86610	M/s. Mahipal Audio & Advertising Private Limited
382.	48824	M/s. Man Kamal Textiles Private Limited
383.	61285	M/s. Manash Printer & Binders India Private Limited
384.	76976	M/s. Manidhar Commodeal Private Limited
385.	49741	M/s. Manohar Mercantiles Private Limited
386.	29016	M/s. Manoharlal & Co. Traders Private Limited
387.	73815	M/s. Mansarour Mercantiles Private Limited
388.	54779	M/s. Mantech Computer Services Private Limited
389.	37902	M/s. Marine Magnesium Private Limited
390.	78859	M/s. Martin Commercial Private Limited
391.	61952	M/s. Master Fincon Projects Private Limited
392.	11212	M/s. Mathura Prasad Mohan Lal Private Limited
393.	61226	M/s. Max Power Engineers Private Limited
394.	47654	M/s. Mayer Exim Private Limited
395.	61599	M/s. Mellorate Commercial Private Limited
396.	31034	M/s. Menasian Electronics Private Limited
397.	28058	M/s. Menoka Talkies Private Limited
398.	37762	M/s. Metec Engineering Industries Private Limited

1	2	3
399.	21041	M/s. Metropolitan Medical & Photographic Store Private Limited
400.	89384	M/s. MG Roadlines Private Limited
401.	79804	M/s. Micro Cycles Private Limited
402.	51061	M/s. Millenium Publications Private Limited
403.	70311	M/s. Millia Commodeal Private Limited
404.	39506	M/s. Milton Tea Packaging & Consultants Private Limited
405.	29313	M/s. Mineral Wool Mfg (India) Private Limited
406.	28089	M/s. Mitra S. K. Cargo Inspection Private Limited
407.	80010	M/s. Modern Sales Private Limited
408.	46499	M/s. Mohit Land & Housing Private Limited
409.	31228	M/s. Mona-Lisa Steels & Forgings Private Limited
410.	46893	M/s. Monarch Confectioners Private Limited
411.	47122	M/s. Mool Ji Iron & Steel Industries Private Limited
412.	61713	M/s. Mukherjee Diagnostic Centre Private Limited
413.	31816	M/s. Multicon Private Limited
414.	64885	M/s. Mundhra Iron & Steel Company Private Limited
415.	60414	M/s. Munmun Merchants Private Limited
416.	75407	M/s. Murshidabad Piggery & Allied Farms Private Limited
417.	29676	M/s. N. B. Chit Fund Private Limited
418.	80636	M/s. N. R. B. Interior & Designer Private Limited
419.	11892	M/s. N. R. Sarker & Co. Private Limited
420.	87900	M/s. N. T. Exports Private Limited
421.	54412	M/s. N. V. Trading & Investment Private Limited
422.	28014	M/s. N. L. Ahuja & Associates (Food & Beverages) Private Limited
423.	36935	M/s. N. L. Churiwala Electronics Private Limited
424.	54175	M/s. Naba Dishari Techno Private Limited
425.	87437	M/s. Nagpur Resins Private Limited

1	2	3	1	2	3
426.	85091	M/s. Nani Traders Private Limited	455.	84631	M/s. P & Sons Engineering Works Private Limited
427.	73807	M/s. Naresh Infotech Private Limited	456.	28248	M/s. Pacific Publications Private Limited
428.	86981	M/s. NBC Exports Private Limited	457.	39775	M/s. Padma Tiru (India) Traders Private Limited
429.	75459	M/s. Neelav Credit Private Limited	458.	60458	M/s. Panchabhuj Finance & Investment Private Limited
430.	38027	M/s. Neelpalm Private Limited	459.	84973	M/s. Pancôm Business Private Limited
431.	85088	M/s. Neha Paper & Board Company Private Limited	460.	39019	M/s. Pankaj Resources Private Limited
432.	36097	M/s. Neil'D Advertising Co. Private Limited	461.	76896	M/s. Panton Comtrade Private Limited
433.	28382	M/s. Nelys Printing Private Limited	462.	46864	M/s. Parabond Chemicals Private Limited
434.	46219	M/s. New Bliss Nursing & Research Centre Private Limited	463.	49724	M/s. Parbilt Electronics Agencies Private Limited
435.	75422	M/s. New Information Technologies (India) Private Limited	464.	60552	M/s. Partha Ray Consultants Private Limited
436.	29991	M/s. New Theaters Productions Private Limited	465.	29657	M/s. Parti Mutural Benefit Chit Fund Private Limited
437.	89647	M/s. Nidan C. T. Centre Private Limited	466.	29869	M/s. Patel Nagar Chemicals Private Limited
438.	46413	M/s. Nilambuj Chemical Industries Private Limited	467.	38038	M/s. Patrika Concerns Private Limited
439.	85343	M/s. Nirman Resorts & Motel Private Limited	468.	46762	M/s. Pawan Fans Private Limited
440.	34044	M/s. Nishan (India) Rubber Private Limited	469.	49880	M/s. Peak Polymers Private Limited
441.	39082	M/s. Nita Ocean Explorers Private Limited	470.	38082	M/s. Pelican Dyechem Private Limited
442.	28775	M/s. Nitco (Glasswares) Private Limited	471.	46777	M/s. Peninsula Developers Private Limited
443.	63174	M/s. NM Instant Rice & Food Private Limited	472.	31043	M/s. Perfect Pigments Private Limited
444.	89621	M/s. Nobles & Freshers Bricks & Tiles Private Limited	473.	89234	M/s. Pioma Real Estates and Marketing Private Limited
445.	86915	M/s. North Bengal Hotel Development Private Limited	474.	49650	M/s. Pioneer Advisory Services Private Limited
446.	54298	M/s. Northern Metropolitan Estate & Enclave Private Limited	475.	73179	M/s. Pioneer Credit Capital Private Limited
447.	37782	M/s. Northern Pharmaceuticals Private Limited	476.	21296	M/s. Pipe & Powers Equipments Co. Private Limited
448.	54883	M/s. Novel Agencies Private Limited	477.	77355	M/s. Positive Tracon Private Limited
449.	37461	M/s. Olimic Consultancy Services Private Limited	478.	29379	M/s. Prabhu Fabricast Private Limited
450.	46632	M/s. Omni Investment and Trades Private Limited	479.	89290	M/s. Prakash Paper Converters Private Limited
451.	47613	M/s. Onetime Packagers Private Limited	480.	36066	M/s. Prateek Construction Co. Private Limited
452.	54863	M/s. Orbital Exports Private Limited	481.	54907	M/s. Prathisthan Credit & Finfest Company Private Limited
453.	49986	M/s. Orissa Goods Carriers Private Limited	482.	84705	M/s. Pratikshan Exports Private Limited
454.	46662	M/s. Oswal Polymers Private Limited	483.	28963	M/s. Precision Casting India Private Limited
			484.	46750	M/s. Project Construction Consortium India Private Limited

1	2	3	1	2	3
485.	54799	M/s. Prototypes Trade Export Private Limited	514.	37652	M/s. Ranjan Electro Mechanical Inusutries Private Limited
486.	49918	M/s. Purbanchal Vanijya Udyog Private Limited	515.	28264	M/s. Rapid Teksales Private Limited
487.	78630	M/s. Purbasha Consultants Private Limited	516.	49714	M/s. Ras Fiscal Services Private Limited
488.	36964	M/s. Purbasha Electronics Private Limited	517.	52255	M/s. Rasiwasia Exim Private Limited
489.	75421	M/s. Purohit Securities Private Limited	518.	31686	M/s. Ravi Prestressed Private Limited
490.	35803	M/s. R. J. Bonds and Holdings Private Limited	519.	49845	M/s. RBN Engineering Private Limited
491.	63294	M/s. R. S. B. Abasan Private Limited	520.	29651	M/s. Rebex (India) Private Limited
492.	84794	M/s. R. S. Contracts Private Limited	521.	29654	M/s. Regal Engineering Works Private Limited
493.	20341	M/s. R. H. Rose Private Limited	522.	84773	M/s. Repose Construction Private Limited
494.	47048	M/s. R. Khosla & Company Private Limited	523.	67228	M/s. Ritona Consultancy Private Limited
495.	49963	M/s. Raccie Developers Private Limited	524.	49774	M/s. Ritu Steel & Tube Industries Private Limited
496.	70413	M/s. Radant Broking & Agency Private Limited	525.	47515	M/s. Riya Artwork Shop Private Limited
497.	75976	M/s. Ragini Vincom Private Limited	526.	49480	M/s. Riay Food Products Private Limited
498.	87467	M/s. Rahul Towers Private Limited	527.	61359	M/s. RNR Impex Private Limited
499.	84657	M/s. Rainbow Medical Systems Private Limited	528.	79480	M/s. Roadlines India Private Limited
500.	89358	M/s. Rainbow Sarees Private Limited	529.	85003	M/s. Rollex Food products Private Limited
501.	75641	M/s. Raindrop Exports Private Limited	530.	29049	M/s. Rolwel India Private Limited
502.	85218	M/s. Raj Corporate International Private Limited	531.	61928	M/s. Ronault Exports Private Limited
503.	37625	M/s. Raj Trade & commercial Private Limited	532.	37856	M/s. Rora Paper Convertors Private Limited
504.	39012	M/s. Raj Vanaspati Private Limited	533.	84903	M/s. Routh Hirepurchase Centre Private Limited
505.	39046	M/s. Raja Shipping Private Limited	534.	88541	M/s. Royal Technogracy Engineers Private Limited
506.	85259	M/s. Rajashree Metal Castings Private Limited	535.	21287	M/s. Roys Engineering Co. Private Limited
507.	31064	M/s. Rajgarh Commerce Industries Private Limited	536.	76891	M/s. Rubicam Financial Services Private Limited
508.	37312	M/s. Rajgiri Mahavir Tea Chest and Chemicals Private Limited	537.	87524	M/s. Ruprag Printers Private Limited
509.	54059	M/s. Rajshree Fincon Agency Private Limited	538.	46765	M/s. S. D. Film Packaging Private Limited
510.	84733	M/s. Rama Glass Works Private Limited	539.	29755	M/s. S. M. Oil Extraction Private Limited
511.	33995	M/s. Ramkrishipur Rolling Mills Private Limited	540.	85162	M/s. S. N. D. Supertech Private Limited
512.	39134	M/s. Randtronics India Private Limited	541.	87583	M/s. S. N. Health Products Private Limited
513.	87514	M/s. Raniganj Engineering Works Private Limited	542.	49951	M/s. S. S. A. Offset Printers Private Limited
			543.	11384	M/s. S. Sircar & Co. Private Limited
			544.	60135	M/s. S. D. Tea Packaging Private Limited
			545.	67005	M/s. S. K. L. Fiscal Services Private Limited
			546.	28255	M/s. S. M. Medicine Distributors Private Limited

1	2	3
547.	79276	M/s. S. R. (Calcutta) Trading & Finance Private Limited
548.	89724	M/s. SA Agro Farm Private Limited
549.	38171	M/s. Sabirina (India) Private Limited
550.	49439	M/s. Safe & Sound Finance & Investment Private Limited
551.	80740	M/s. Saharsh Dealer Private Limited
552.	36928	M/s. Saharsha Agencies Private Limited
553.	75119	M/s. Sahashi Jyoti Trading Private Limited
554.	46728	M/s. Sahiba Investments Private Limited
555.	46707	M/s. Sai Seafood India Private Limited
556.	79511	M/s. Saiom Properties Private Limited
557.	49867	M/s. Samir Kumar Finance Private Limited
558.	28442	M/s. Sanchita Savings Scheme Private Limited
559.	37353	M/s. Sanddir Road Carriers Private Limited
560.	84721	M/s. Sandik Finance & Investment Private Limited
561.	36094	M/s. Sandipani Investors & Dealers Private Limited
562.	34011	M/s. Sanghai Associates Private Limited
563.	73238	M/s. Sangrila Enterprises Private Limited
564.	28191	M/s. Santa Roadways Private Limited
565.	76888	M/s. Santan Dealers Private Limited
566.	54278	M/s. Santi Crafts Private Limited
567.	46723	M/s. Santi Neer Housing Loan Consultancy Private Limited
568.	89668	M/s. Santica Pharmaceuticals Private Limited
569.	37394	M/s. Sap Concrete Products Private Limited
570.	49601	M/s. Saptarshi Fiscal Services Company Private Limited
571.	61007	M/s. Saptrishi Vyapaar Private Limited
572.	37363	M/s. Saraberia Chemical & Allied Products Private Limited
573.	28472	M/s. Sarada Refractories Private Limited
574.	49413	M/s. Saradipa Finance and Investment Company Private Limited
575.	47631	M/s. Saraf Techsteel Casting Expo (Orissa) Private Limited
576.	33981	M/s. Saranika Finance and Investment (India) Limited

1	2	3
577.	61203	M/s. Sarnadeep Viniyog Company Private Limited
578.	79532	M/s. Sarvamangala Heemghar Private Limited
579.	84608	M/s. Sati Trexim Private Limited
580.	60883	M/s. Satkirti Commotrade Private Limited
581.	54021	M/s. Satyam Shivam Finco & Resources Private Limited
582.	31520	M/s. Satyanarayan Plastrochem Private Limited
583.	39872	M/s. Satyawadi Investment & Financiers Private Limited
584.	49237	M/s. Savita Exports Private Limited
585.	50563	M/s. Scan Movie Private Limited
586.	89366	M/s. Seagambut Mercantile Private Limited
587.	46407	M/s. Sefton Textiles Private Limited
588.	47158	M/s. Sekhsaria Trades and Finance Private Limited
589.	11460	M/s. Selected Baraboni Coal Co. Private Limited
590.	31189	M/s. Sethi Writing Instruments Private Limited
591.	29584	M/s. Shankar Chemical Co. Private Limited
592.	28247	M/s. Shankar Rubber Industries Private Limited
593.	35925	M/s. Sharma Tar Bitumens Private Limited
594.	28983	M/s. Sheo Gaurav Private Limited
595.	26103	M/s. Shibnath Engg. & Commercial Co. Private Limited
596.	39075	M/s. Shila Pharmaceuticals Private Limited
597.	89052	M/s. Shilpayana Communication Private Limited
598.	39077	M/s. Shining Projects Private Limited
599.	49479	M/s. Shiv Shakti Ferro Products Private Limited
600.	80051	M/s. Showteck Mobile Entertainment Private Limited
601.	11354	M/s. Shree Gopal Trading Co. Private Limited
602.	46193	M/s. Shree Mahabir Trade & Supply Private Limited
603.	73449	M/s. Shree Pasari Electrical Private Limited

1	2	3
604.	85596	M/s. Shree Pitarjee Textiles Private Limited
605.	49446	M/s. Shree Shyam Invenco Private Limited
606.	80060	M/s. Shrey Trimpex Private Limited
607.	37838	M/s. Shri Swastika Supply Co. Private Limited
608.	84975	M/s. Shubhankar Impex Private Limited
609.	49422	M/s. Siddhartha Speed Movers Private Limited
610.	49540	M/s. Sigma Drugs Private Limited
611.	49228	M/s. Sigma Style Poly Udyog Private Limited
612.	75738	M/s. Sinclairs Merchants Private Limited
613.	37669	M/s. Singerkach Enterprise Private Limited
614.	28224	M/s. Sinha Agency Private Limited
615.	36122	M/s. Sirius Commercial Private Limited
616.	46624	M/s. Siskon India Developers Private Limited
617.	28095	M/s. Skarton Advertising & Publishing Co. Private Limited
618.	89526	M/s. Smifs Engineering Private Limited
619.	46100	M/s. Smita Films Private Limited
620.	79565	M/s. Sneha Marbels Private Limited
621.	54897	M/s. Snehil Exim (India) Private Limited
622.	84968	M/s. Snow-Hill Commodities Private Limited
623.	89111	M/s. Somnath Distributors Private Limited
624.	84524	M/s. Sonali Jute Mills Private Limited
625.	31598	M/s. Sonali Tea Industries Private Limited
626.	29874	M/s. Sonex Electronics Private Limited
627.	47030	M/s. Sonthalia Metals Private Limited
628.	79383	M/s. Sopan Consortium Private Limited
629.	79644	M/s. Southern Plaza Private Limited
630.	37452	M/s. Southway Builders & Contractors Private Limited
631.	28464	M/s. SPA Engg. Co. Private Limited
632.	46999	M/s. SPA Gravoflex Private Limited
633.	28258	M/s. Span Film Distributors Private Limited
634.	88959	M/s. Spark Movies Private Limited
635.	88385	M/s. Spectrum music Private Limited
636.	36119	M/s. Speedways Transport Co. Private Limited

1	2	3
637.	84843	M/s. Spew Internet Solutions Private Limited
638.	46473	M/s. Star Film Company Private Limited
639.	89315	M/s. Star Sanitary Wares Private Limited
640.	49308	M/s. Star Ship Enterprises Private Limited
641.	75118	M/s. Starlite Dealers Private Limited
642.	36946	M/s. Sterling Superintendence Co. Private Limited
643.	89548	M/s. Sthapatya Executors Private Limited
644.	28318	M/s. Subarnarekha Investments Private Limited
645.	34014	M/s. Sujicon Manufacturing Private Limited
646.	39004	M/s. Sukhani-Dugar Constructions Private Limited
647.	49740	M/s. Sulochana Commercial Private Limited
648.	54617	M/s. Sun-Glow Wires & Cables Private Limited
649.	30312	M/s. Sunderban Oil Mill Private Limited
650.	85312	M/s. Sunny Real Estates Private Limited
651.	85034	M/s. Sunshine Management Private Limited
652.	28311	M/s. Super Express Roadways Private Limited
653.	79297	M/s. Supreme Hygienic Food Products & Exporter Private Limited
654.	49458	M/s. Suruchi Impex Private Limited
655.	50269	M/s. Surya Kamal Properties Private Limited
656.	84677	M/s. Surzi Export Private Limited
657.	47178	M/s. Swadesh Barta Private Limited
658.	29737	M/s. Swaika Minerals Private Limited
659.	49685	M/s. Swami Polychem Private Limited
660.	85579	M/s. Swaran Towers Private Limited
661.	51046	M/s. Swarnim Commercial Company Private Limited
662.	31780	M/s. Sylvan Oils & Chemicals Private Limited
663.	37715	M/s. Synnat Fibres Private Limited
664.	39068	M/s. Synpro Manufacturing Co. Private Limited
665.	84792	M/s.T. Sadhu & Associates Private Limited

1	2	3	1	2	3
666.	47096	M/s. Tajtrade & Credits Private Limited	698.	29199	M/s. Tru-Tem Metal Products Private Limited
667.	46837	M/s. Tangram Design Private Limited	699.	36979	M/s. Trupell Pharmaceuticas Private Limited
668.	31877	M/s. Tann-Chem India Private Limited	700.	49561	M/s. Tulika Holdings Private Limited
669.	28193	M/s. Tapasya Financiers & Chit Funds Co. Private Limited	701.	89371	M/s. Tushar Equipment Private Limited
670.	89305	M/s. Tarani Securities Private Limited	702.	70212	M/s. Udyavani Commotrade Private Limited
671.	29569	M/s. Taurus Foundry Private Limited	703.	46746	M/s. Unicon Promoters Private Limited
672.	24311	M/s. Tea India Private Limited	704.	38187	M/s. Union Tap & Die Private Limited
673.	39098	M/s. Technical Consultancy & Construction Services (India) Private Limited	705.	84894	M/s. Uniposh Constructions Private Limited
674.	47074	M/s. Technico India (Structral Construction) Private Limited	706.	85411	M/s. United Ship Management Services Private Limited
675.	30394	M/s. Technoman Indo-Cosmos Private Limited	707.	28324	M/s. Universal Dealers & Merchants Private Limited
676.	88037	M/s. Technovations Systems Private Limited	708.	88557	M/s. Upadhyay Rolling Mill Private Limited
677.	46391	M/s. Tefpac Seals Private Limited	709.	49518	M/s. Urvashi Plywood Industries Private Limited
678.	28040	M/s. Tekoy Engineers Private Limited	710.	29528	M/s. Usha Export Private Limited
679.	61753	M/s. Tekton Consultants Private Limited	711.	37994	M/s. Usha Machinery Private Limited
680.	75003	M/s. Temek Commodities Private Limited	712.	75007	M/s. Utamsel Commerce Private Limited
681.	31555	M/s. Tepe Consultants Private Limited	713.	29865	M/s. Uttaranchal Essential Oil Industries Private Limited
682.	28527	M/s. Thaker Services Private Limited	714.	36060	M/s. Uttarayan Commercial Co. Private Limited
683.	89318	M/s. Thakker Polymers Private Limited	715.	41816	M/s. V. M. Consultants & Associates Private Limited
684.	79570	M/s. Tides India Private Limited	716.	61929	M/s. Vaishno Happy Home Makers Private Limited
685.	38580	M/s. Time-N-Speed Private Limited	717.	37548	M/s. Valentino Finance & Industries Private Limited
686.	41834	M/s. Tinmurti Chemical Industries Private Limited	718.	76936	M/s. Varun Stocks Private Limited
687.	87874	M/s. Tirupati Treximprivate Limited	719.	49778	M/s. Venkateshwar Commercial Private Limited
688.	54121	M/s. Titania Lighting Enterprises Private Limited	720.	78655	M/s. Ventron Marketing Private Limited
689.	70606	M/s. Topper Sales Private Limited	721.	51503	M/s. Victory Housing Finance Private Limited
690.	34376	M/s. Tras Pharmaceuticas (India) Private Limited	722.	28097	M/s. Victory Steam and Oil Equipment Private Limited
691.	60867	M/s. Trendsetter Financial Services Private Limited	723.	79299	M/s. Vidyasagar Rice Mill Private Limited
692.	31171	M/s. Tres-Fin Products Private Limited	724.	76890	M/s. Vidyashree Construction Private Limited
693.	47380	M/s. Triad Footwear Private Limited			
694.	37965	M/s. Trident Television Private Limited			
695.	29975	M/s. Trimurti Savings & Chit Fund Private Limited			
696.	38724	M/s. Tripura Ceramic Private Limited			
697.	37874	M/s. Triza Laminates Private Limited			

1	2	3
725.	49925	M/s. Vikrant Coating Private Limited
726.	66157	M/s. Villier Sales Private Limited
727.	46700	M/s. Vinayak Containers Private Limited
728.	85227	M/s. Vishal Dealcom Private Limited
729.	49675	M/s. Viswakarma Gauntlet Industries Private Limited
730.	85080	M/s. Vrgs Publications (India) Private Limited
731.	85125	M/s. W Biographical Centre Private Limited
732.	28339	M/s. W. R. Hildreth and Co. (Agencies) Private Limited
733.	75073	M/s. Wang's Secutiry Services Private Limited
734.	89438	M/s. Web Edge Infosystems Private Limited
735.	37442	M/s. Welfat General Finance and Investment Co. Private Limited
736.	39144	M/s. Welmac Leathers Private Limited

1	2	3
737.	70057	M/s. Weltech Commercial Private Limited
738.	79389	M/s. Wep Enterprise (India) Private Limited
739.	39669	M/s. West Bengal Harbal Products Private Limited
740.	29701	M/s. West Bengal Woollen Hosiery Co. Private Limited
741.	28486	M/s. West Ramkanali Colliery Co. Private Limited
742.	89569	M/s. Western Intellijance Secutiry Force Private Limited
743.	87537	M/s. White Ply Private Limited
744.	89349	M/s. Wing Soon Exports Private Limited
745.	75448	M/s. Y. Teak Private Limited
746.	84581	M/s. Z. A. Polymers Private Limited
747.	79320	M/s. Zee Distributors Private Limited
748.	79271	M/s. Zirconium Products Private Limited
749.	39128	M/s. Zoraima Developments & Consultants Private Limited

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies

Chennai-6, the 24th September 2007

No. 14005 To 40824/560 (3)/Suo Motto-2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved.

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1	14005	FOOT RITE PRIVATE LIMITED
2	14008	DAKSHIN TIMES PRIVATE LIMITED
3	14023	PARAMOUNT OILS PRIVATE LIMITED
4	14035	TRITON TRAWLERS PRIVATE LIMITED
5	14080	EASTERN DOORS & PANELS PRIVATE LIMITED
6	14081	N.K.S PLASTICS PRIVATE LIMITED
7	14142	CATALYST TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
8	14145	M.S.ZIPPERS PRIVATE LIMITED
9	14147	MARJAPUTHUR FINANCE PRIVATE LIMITED
10	14159	INSTRONIC WEIGHNESS PRIVATE LIMITED
11	14164	WINS (INDIA) PHARMATECH PRIVATE LIMITED
12	15520	SELACHIAN FOODS PRIVATE LIMITED
13	15534	SUBIKSHAM CHEMICAL AND FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
14	15545	PALAYAM FINANCE PRIVATE LIMITED
15	15548	CORAL FINANCE PRIVATE LIMITED
16	15549	CENTRE FOR COMMUNITY ACTION PRIVATE LIMITED
17	15553	SRI MOOKAMBIGAI FOODS PRIVATE LIMITED
18	15565	INTAQUAS PRIVATE LIMITED
19	15603	COBLER ONE LEATHERS PRIVATE LIMITED
20	15606	ANNAL FINANCE PRIVATE LIMITED
21	15608	WILL POWER LEASING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
22	15616	SHRI ANJANEYAA CHITS PRIVATE LIMITED
23	15617	ADVANCED GEONAVIGATION AIDS AND ENERGETICS (INDIA)PRIVATE LIMITED
24	15679	CREDOM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
25	15702	KANNAGE FILMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
26	15708	VIJAYA NYLO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
27	15718	LAKSHMIPRIYA FINANCE LIMITED
28	15736	RICS HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
29	15743	TIRUCHIRAPALLI THEVAR FUNDS LIMITED
30	15745	SOLAR TWISTING PRIVATE LIMITED
31	15781	TRUSTWELL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
32	15790	SHANTHI CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
33	15796	ADHIPARASAKTHI WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
34	15804	CODES PENTAGON PRIVATE LIMITED
35	15807	RAMJAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
36	15808	KIRAN FABRICATORS PRIVATE LIMITED
37	15823	RAJSRI PLASTIC PRIVATE LIMITED
38	15826	MANIDEVI CONSTRUCTIONS AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
39	15843	LAVAN MARINE FOODS PRIVATE LIMITED
40	15846	LANDMARK CONSULTANTS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
41	15848	VENI CHITS PRIVATE LIMITED
42	15855	VISWADITI PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
43	15862	SANUM FINANCE PRIVATE LIMITED
44	15865	KCEE FASHIONS PRIVATE LIMITED
45	15889	COMPLETE MARKETING PRIVATE LIMITED
46	15893	CZARINA SEA FOODS PRIVATE LIMITED
47	15897	FIBRO TECH PRIVATE LIMITED
48	15900	SUPERCHEF KITCHEN EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
49	15904	PREMIER APPLIANCES PRIVATE LIMITED
50	15905	SEA PEARLS FISHERIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
51	15930	SWISIRA GRANITES PRIVATE LIMITED
52	15931	EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
53	15952	PREMIER CONSULTANTS AND SURVEYORS PRIVATE LIMITED
54	15959	PRASAD SHOE UPPERS PRIVATE LIMITED
55	15964	PYRAMID CASTINGS LIMITED
56	15965	VADIVAMBIKAI CHITS PRIVATE LIMITED
57	15969	FILM FACILITIES PRIVATE LIMITED
58	15983	AIRWING TEXTILES LIMITED
59	15987	E D P AUDITORS ASSOCIATION INDIA
60	15998	JABEZ SHOES PRIVATE LIMITED
61	16011	MULLAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
62	16042	MADRAS CHEMICAL EQUIPMENTS AND LININGS PRIVATE LIMITED
63	16045	ABRASIVES MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA
64	16046	RENI TUBES PRIVATE LIMITED
65	16052	HILDA EXPORTS PRIVATE LIMITED
66	16057	LASHA MARKETING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
67	16063	KULATHAIVAM FILMS PRIVATE LIMITED
68	16066	B AND M TRADERS PRIVATE LIMITED
69	16083	WINGON TYRES LIMITED
70	16102	NAZ ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
71	16109	SRICHAKRA TRAVELS PRIVATE LIMITED
72	16117	AREUS STRUCTURAL ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
73	16119	SIREEN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
74	16122	SRI VISHNUKUMAR MILLS PRIVATE LIMITED
75	16123	LOKITH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
76	16140	JAKART EXPORTS PRIVATE LIMITED
77	16141	COZY CLOTHING PRIVATE LIMITED
78	16144	OVERSEAS DYES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
79	16157	CHAKRAVARTHY GRANITES & EXPORTS PRIVATE LIMITED
80	16159	OLIVER MARK AND COMPANY PRIVATE LIMITED
81	16160	ACE HOMENEEDS PRIVATE LIMITED
82	16170	PROGRESSIVE CINE ARTS PRIVATE LIMITED
83	16174	SOUTHERN CARRIERS & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
84	16177	OXALIC CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
85	16198	ASHTALAKSHMI CONSOLIDATES PRIVATE LIMITED
86	16215	FRIENDLY FOOD AND FINANCE PRIVATE LIMITED
87	16224	SUNFLO EXPORTS PRIVATE LIMITED
88	16225	SHANTHI GRANITES PRIVATE LIMITED
89	16227	FOTO PLAZA PRIVATE LIMITED
90	16231	VENTURE GARMENTS PRIVATE LIMITED
91	16235	COMMONWEALTH PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
92	16236	PULSAR FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
93	16259	GIRI VIJAY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
94	16402	TRICHY COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
95	16408	CAUUVERY PIPES PRIVATE LIMITED
96	16432	CHENNAI RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
97	16440	P D TRAVELS PRIVATE LIMITED
98	16446	POLYMER MACHINES MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
99	16447	U-TECH ALGRILL PRIVATE LIMITED
100	16450	ARUNA FISHERIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
101	16451	ARUT JOTHI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
102	16456	INDO WEST TEXTILE EXPORTERS PRIVATE LIMITED
103	16463	ESSAAR PUMPS PRIVATE LIMITED
104	16508	DHANAPRIYA CHITS PRIVATE LIMITED
105	16514	SHANTA FAB PRIVATE LIMITED
106	16515	BUDDHA GRANITES IMPORTS & EXPORTS COMPANY PRIVATE LIMITED
107	16538	GNANAM EXPORT PRIVATE LIMITED
108	16544	M A U OILS PRIVATE LIMITED
109	16553	TAMILNADU ACETYLENE PRIVATE LIMITED
110	16570	SOUTHERN PARBOILING DRIER RICE MILLS PRIVATE LIMITED
111	16591	SANKHAV LEATHERS PRIVATE LIMITED
112	16606	GANGAPATHY SODIUM CHLORATES PRIVATE LIMITED
113	16620	SREE KRUPA MARKETING DEVELOPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
114	16636	VELPA MAGNESIA LIMITED
115	16654	DEVI TANNERIES PRIVATE LIMITED
116	16663	SRIDEVI EXPORTS PRIVATE LIMITED
117	16668	S P ALGNATES PRIVATE LIMITED
118	16681	ORGALINES PRIVATE LIMITED
119	16690	NAGAS FISHERIES PRIVATE LIMITED
120	16691	NAGAS INDUSTRIAL SOLVENT PRIVATE LIMITED
121	16692	NEURUNG ENGINEERS PRIVATE LIMITED
122	16713	RAMESH AGENCIES & DISTRIBUTERS PRIVATE LIMITED
123	16717	PETMUR EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
124	16728	SUNBEAM FINANCE PRIVATE LIMITED
125	16730	EVANGELINE RUBBER PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
126	16733	RIC ELECTRONICS AND AUTOMOBILES (INDIA) PRIVATE LIMITED
127	16742	H RUSTAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
128	16744	GATEWAY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
129	16754	UDHAYAM FINANCE & INESTMENT PRIVATE LIMITED
130	16756	JAIVASRAS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
131	16770	BLUE BAND SHOES COMPANY PRIVATE LIMITED
132	16775	ISPK INDEXPORTS PRIVATE LIMITED
133	16783	PLUS PLAST PRIVATE LIMITED
134	16789	M S R FINANCE PRIVATE LIMITED
135	16796	BASIC PLASTICIZERS PRIVATE LIMITED
136	16803	VIJAY LAXMI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
137	16807	ASHIRWAD LEATHERS PRIVATE LIMITED
138	16842	ACEQUARE REPROGRAPHICS INC PRIVATE LIMITED
139	16849	PACKAGED CUSTOMISED SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
140	16851	AENS COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
141	16894	INDU FOAM PRIVATE LIMITED
142	16899	USHODAYA CLEARING AND FORWARDING AGENCY PRIVATE LIMITED
143	16906	WEAVES & SEAMS IMPEX PRIVATE LIMITED
144	16912	RAFFES CHEMICALS PRIVATE LIMITED
145	16919	MANJULA IMPORT EXPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
146	16923	AVANT GRADE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
147	16931	SHAKTHI SHOES PRIVATE LIMITED
148	16932	MANGALDEEP TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
149	16955	TELECOM POWERNETICS PRIVATE LIMITED
150	16975	ACCESS GOLD SYSTEMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
151	16978	NATURAL PROTIENS PRIVATE LIMITED
152	16980	ASTHAA PLASTICS PRIVATE LIMITED
153	17005	ST. JUDE MARINES PRIVATE LIMITED
154	17012	J P ANALYTICAL TESTING AND RESEARCH LABORATORY PRIVATE LIMITED
155	17014	TRIO IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
156	17019	EASTMAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
157	17026	HOME FIT GARMENTS PRIVATE LIMITED
158	17043	GAYATHRI CALCIUM AND ALLIED CHEMICALS PRIVATE LIMITED
159	17050	EN VEE CONSTRUCTIONS AND ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
160	17059	BLOSSOM CHEM PHARMA PRIVATE LIMITED
161	17064	MADURA LAMPS AND FITTINGS PRIVATE LIMITED
162	17087	SIVASAKTHY FISHERY PRIVATE LIMITED
163	17097	ARAKKONAM TEXTILES PRIVATE LIMITED
164	17116	RAM PERFECT PLASTICS PRIVATE LIMITED
165	17117	SUGISA AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
166	17120	SRI RAMYA REXINE PRIVATE LIMITED
167	17141	SRI KAMATCHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
168	17142	EDAKKATTU PRODUCTS PRIVATE LIMITED
169	17149	MADRAS ZIP FASTNERS AND ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
170	17153	MANAS HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
171	17155	SPACEWAY DESIGN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
172	17157	MARBLITE TILES AND TOPS PRIVATE LIMITED
173	17159	NEW FOLK HOUSING FINANCE AND INVESTMENTS COMPANY LIMITED
174	17175	CONVEX MARKETING PRIVATE LIMITED
175	17178	VENI FARMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
176	17230	R.N. INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
177	17231	NUTS AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
178	17238	THAPASU CHITS PRIVATE LIMITED
179	17241	DATMATRIX PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
180	17248	SENIOR CITIZEN RESORT PRIVATE LIMITED
181	17250	ROCKS 'N' ROCKS GRANITE EXPORTS PRIVATE LIMITED
182	17255	INDUSTRIAL DRYING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
183	17257	AL FARHAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
184	17270	SIDARTHI FUELS PRIVATE LIMITED
185	17276	ELENAR GRANITES PRIVATE LIMITED
186	17277	CUTE COSMETICS PRIVATE LIMITED
187	17278	POWERPIPE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
188	17280	FLEXI CRAFT PRIVATE LIMITED
189	17281	VIJAYALAKSHMI PRIYADARSHINI LEATHER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
190	17289	MADRAS TOWNSHIP DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
191	17295	POLY GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
192	17353	JANISH FOODS PRIVATE LIMITED
193	17354	SINARA MICA MINES PRIVATE LIMITED
194	17357	RANI LEATHER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
195	17363	JOSHY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
196	17368	RELIANCE LATEX PRODUCTS PRIVATE LIMITED
197	17385	NOW ON FINANCE PRIVATE LIMITED
198	17404	PENINSULAR COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
199	17408	ALLCOT IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
200	17412	INTOP PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
201	17422	NALLI HORNS PRIVATE LIMITED
202	17431	ANNAI ABIRAMI TEXTILES PRIVATE LIMITED
203	17436	PHAR LAP APPARELS PRIVATE LIMITED
204	17439	ALISHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
205	17442	SCIENTIFIC INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
206	17444	K.G. L. HOUSING AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
207	17448	THIRU MAARAN REAL ESTATES & HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
208	17449	SOFTSENSE MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
209	17455	SIVA REDDY BROTHERS AGRO HI-TECH PRIVATE LIMITED
210	17456	ADORE SHOES PRIVATE LIMITED
211	17459	NURANI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
212	17475	HARISEN ENGINEERING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
213	17503	S R M METALINC PRIVATE LIMITED
214	17507	MANISH VENTURES PRIVATE LIMITED
215	17508	GAMA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
216	17536	AMUC ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
217	17538	PEE CEE BEE TECH SERVICES PRIVATE LIMITED
218	17540	MOSFET TECHNIQUES PRIVATE LIMITED
219	17543	SAKTHI ACETATE AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
220	17584	VINAYAK SHOES PRIVATE LIMITED
221	17596	NIDYA TRADE CREDITS PRIVATE LIMITED
222	17599	NEW CENTURY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
223	17605	GILCHRIEST MARITIME TRANSPORT PRIVATE LIMITED
224	17621	SUPRATHISHTA BUILDERS PRIVATE LIMITED
225	17627	KUMAR TRADERS OF MADRAS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
226	17628	KOBE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
227	17631	FIT WELL SPROCKETS PRIVATE LIMITED
228	17635	CAMARON AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
229	17636	SEMBI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
230	17641	BLUE MOON EXPORTS PRIVATE LIMITED
231	17644	BHABA PLASTICS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
232	17649	CONTURA RUBBER PRIVATE LIMITED
233	17650	GURU RAGHAVENDRA ENGINEERING CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
234	17685	PRADEEP AUTO CONSULTANTS LIMITED
235	17690	JEEVAN JYOTHI PRESS AND PUBLISHERS
236	17691	ARUL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
237	17700	SYNMED ANTIBIOTICS PRIVATE LIMITED
238	17714	PHOENIX FILM RESOURCES PRIVATE LIMITED
239	17717	FOUR SQUARE LEATHER EXPORT PRIVATE LIMITED
240	17722	AESTHETIC DISPOSABLE MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
241	17724	CREFTAR LEAF SPRINGS PRIVATE LIMITED
242	17728	RAMA PUBLICATION PRIVATE LIMITED
243	17736	TABLE TOP TEA PRIVATE LIMITED
244	17740	AIRSEA SURVIVAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
245	17745	BEST ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
246	17748	AMRUTHA EXIM PRIVATE LIMITED
247	17749	AMRUTHA MILK BEVERAGES PRIVATE LIMITED
248	17754	HONDA FINANCE & INVESTMENTS LIMITED
249	17760	FERTILE MARKETING PRIVATE LIMITED
250	17813	G G ELECTRONIK PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
251	17814	DEUTSCHE AIR PRIVATE LIMITED
252	17818	N A K AUTOMOBILES INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
253	17820	SATYA TRANS TRADE PRIVATE LIMITED
254	17822	SUSRUTHA MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
255	17828	CAUVERY ENRICH FEEDS AND FOODS PRIVATE LIMITED
256	17836	COOKWEL AGENCIES PRIVATE LIMITED
257	17837	SUNRISE FUEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
258	17864	GALAXY CABLES AND CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
259	17871	AVIS CAR RENTALS PRIVATE LIMITED
260	17891	RAAJHAA CARBONS PRIVATE LIMITED
261	17894	GOOD FRIENDS FINANCIERS PRIVATE LIMITED
262	17895	VISUDHA CONSTRUCTIONS LIMITED
263	17896	DHARMAPAL NEWSPRINT PRIVATE LIMITED
264	18137	MADURA DISTRIBUTERS PRIVATE LIMITED
265	18012	SAPTHAGIRI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
266	18015	SRB ENGINEERS PRIVATE LIMITED
267	18018	SRI-MEENAKSHI CREATIONS PRIVATE LIMITED
268	18040	SABA EXPORTS PRIVATE LIMITED
269	18064	SWETHAGANESH EXPORTS PRIVATE LIMITED
270	18065	SREE ANDALL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
271	18067	FIDA COSMETICS PRIVATE LIMITED
272	18068	VAIYAPURI TEXTILES PRIVATE LIMITED
273	18072	WESTEND YELLOW PAGES PRIVATE LIMITED
274	18084	ANTO POLYMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
275	18116	ART AND COLOURS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
276	18118	SWETHA IMPEX PRIVATE LIMITED
277	18120	MADURA YEAST AND CHEMICAL MFG. COMPANY PRIVATE LIMITED
278	18122	PROWESS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
279	18131	STERLING SPRINGS PRIVATE LIMITED
280	18132	NITHYA DARSHINI FARMS PRIVATE LIMITED
281	18136	SUNTEQ PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
282	18141	GOLDEN SAND RESORTS PRIVATE LIMITED
283	18156	ALEXCO MARKETING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
284	18161	KALANJAM FINANCE PRIVATE LIMITED
285	18185	SUNDER & KAMMAL (MANUFACTURE & EXPORT) PRIVATE LIMITED
286	18188	COMPACT HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
287	18189	SARAVANA PALM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
288	18195	SUKBHOG DOORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
289	18197	NANSUN GRANITES PRIVATE LIMITED
290	18199	CHINNAMANOR OM SAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
291	18204	BINOD GRANITES PRIVATE LIMITED
292	18205	TAWAKKAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
293	18216	FUTURA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
294	18225	M.K. AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
295	18226	BRICKS INDIA PRIVATE LIMITED
296	18237	COASTAL MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
297	18243	B.V.S. LEATHERS PRIVATE LIMITED
298	18244	LEAFIN SEA FOODS LIMITED
299	18247	SOWMYA FARM SERVICES AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
300	18254	SHIPS AND CARGO AGENCIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
301	18259	GEMINI METALS PRIVATE LIMITED
302	18271	UNITED TANKERS COMPANY PRIVATE LIMITED
303	18283	BOSS BATTERIES PRIVATE LIMITED
304	18285	KOOK PECK FISHERIES PRIVATE LIMITED
305	18294	GENUINE MINES AND GRANITES PRIVATE LIMITED
306	18300	HOTEL GEETHA (VILLUPURAM) PRIVATE LIMITED
307	18303	SATHYA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
308	18320	S C GRANITE COMPANY PRIVATE LIMITED
309	18322	MANIBHARATHI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
310	18334	COROMANDEL OXYGEN PRIVATE LIMITED
311	18343	THAINDADU PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
312	18355	BARTER MARKETING AGENICES PRIVATE LIMITED
313	18381	ALANKAR MARINE PRIVATE LIMITED
314	18383	ENEMTECH INDUSTRIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
315	18384	SRI SUDERKODI TEX PRIVATE LIMITED
316	18387	DAT ROADLINES PRIVATE LIMITED
317	18395	AVOM AGROTECH PRIVATE LIMITED
318	18397	VINSHAR SERVICES PRIVATE LIMITED
319	18402	TAILOR BIRD PRIVATE LIMITED
320	18410	ROOSEVELT EXPORTS PRIVATE LIMITED
321	18413	CAVERI COLOR LAB PRIVATE LIMITED
322	18432	LINGAM FOODS PRIVATE LIMITED
323	18435	SUN SHELTERS LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
324	18441	SUKLA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
325	18444	VATHEEYAR EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
326	18455	SUNDARAM APPLIANCES REFREGERATORS PRIVATE LIMITED
327	18461	SYCON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
328	18463	SHRIRAM ELECTRONICS AND APPLIANCES LIMITED
329	18468	VALUABLE STEELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
330	18480	CHAMBER OF HOUSING DEVELOPMENT LIMITED
331	18482	SRI LALITHA JEWELLERS PRIVATE LIMITED
332	18491	ISWARYA PACKAGES PRIVATE LIMITED
333	18497	TULASI DEVICES PRIVATE LIMITED
334	18499	SEVAR KODIYAON CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
335	18500	TILES AND TILES PRIVATE LIMITED
336	18516	VIJAY TEXTILES & WATER PROOFING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
337	18536	TEKNOW DESIGN CONSULTANCY ROAD PROJECTS ENGINEERIN
338	18544	EAST COAST PRAWN DEVELOPMENT CENTRE PRIVATE LIMITED
339	18548	RCM FASHIONS PRIVATE LIMITED
340	18566	LEADER DRUGS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
341	18570	DEGAA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
342	18576	GRANITE CARPETS PRIVATE LIMITED
343	18578	ODYSSEY TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
344	18580	EMCEE COURIERS PRIVATE LIMITED
345	18581	GEMINI SPINNING MILL (TRICHY) PRIVATE LIMITED
346	18584	EMCUUBE EXPORTS PRIVATE LIMITED
347	18589	SARC EXPORTS PRIVATE LIMITED
348	18591	POLCON CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
349	18598	ANU SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
350	18600	MOTHERLAND SETTLEMENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
351	18615	MADRAS KATARI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
352	18634	SRI RAGHAVENDRA DETERGENTS PRIVATE LIMITED
353	18636	SILVER STREAK APPARELS PRIVATE LIMITED
354	18639	SAJ VISION PRIVATE LIMITED
355	18640	SCAZON-KEM PRIVATE LIMITED
356	18647	NIRMAL LEATHER GARMENTS PRIVATE LIMITED
357	18648	SHREYES MICNUTRIENTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
358	18657	NIRA CAPS LIMITED
359	18664	SKYLINE MARINES PRIVATE LIMITED
360	18674	SWATHI CREATIONS PRIVATE LIMITED
361	18687	MESSINA SHIPPING AGENCIES INDIA PRIVATE LIMITED
362	18689	DOCUMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
363	18692	BRILLIANT IMPORT AND EXPORT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
364	18695	SRI PRABA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
365	18698	SABHARI LEASING PRIVATE LIMITED
366	18705	PYRAMID BUILDERS AND INTERIORS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
367	18711	SIRIUS GRANITES PRIVATE LIMITED
368	18716	GUARDIAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
369	18718	VENUS HOUSING PRIVATE LIMITED
370	18719	MAYILAI RAJ CHITS PRIVATE LIMITED
371	18720	M A RAMAKRISHNAMA NAIDU STAINLESS STEELS PRIVATE LIMITED
372	18726	LEATHER SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
373	18731	MANCHIT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
374	18732	MYCOMP COMPUTERS PRIVATE LIMITED
375	18746	BUILDTECH HOUSING (MADRAS) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
376	18748	INDVIN PIPES PRIVATE LIMITED
377	18759	S A FISH NET COMPANY PRIVATE LIMITED
378	18760	CHROMETAN LEATHER COMPANY PRIVATE LIMITED
379	18763	MANIAMMAI PHARMA PRIVATE LIMITED
380	18764	SHRESHTA GRANITES PRIVATE LIMITED
381	18768	INSTITUTE OF BUSINESS EXECUTIVES AND PROFESSIONAL
382	18770	MAGNUM RESORTS PRIVATE LIMITED
383	18774	MARK AGROS INDIA PRIVATE LIMITED
384	18783	HALL MARK INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
385	18788	AJANTHA GARMENT EXPORTS PRIVATE LIMITED
386	18790	GENLITE SALES AND SERVICE PRIVATE LIMITED
387	18791	COSY EXPORTS PRIVATE LIMITED
388	18799	WISCOS LEATHER MANUFACTURE AND IMPEX PRIVATE LIMITED
389	18803	BEDROCK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
390	18804	ALFA FLETT VENTILATOR PRIVATE LIMITED
391	18823	JAI BHUVANESWARI FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
392	18825	PELICAN GRAPHICS PRIVATE LIMITED
393	18826	VENUS GRANITES PRIVATE LIMITED
394	18828	RED FIELDS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
395	18837	SRI VIJAY FIN HOMES PRIVATE LIMITED
396	18857	MONARCH EXPORTS PRIVATE LIMITED
397	18858	MONICA FILMS PRIVATE LIMITED
398	18860	RADHAMOHAN AND COMPANY PRIVATE LIMITED
399	18866	STILETTO LEATHERS PRIVATE LIMITED
400	18868	HI-ETA PUMPEN ENGINEERING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
401	18882	ABARAJITHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
402	18890	MAHASUDARSANA TEXTILE PRIVATE LIMITED
403	18897	COSMOS FREIGHT SERVICES PRIVATE LIMITED
404	18910	THERMAL CONTROL SYSTEM (MADRAS) PRIVATE LIMITED
405	18912	INCA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
406	18915	RELIANCE SEIZURES & WAREHOUSINGS PRIVATE LIMITED
407	18931	RAXONES OVERSEAS PRIVATE LIMITED
408	18957	MOON RAYS FINANCE PRIVATE LIMITED
409	18977	VTR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
410	18980	PENNNARASI FARMS PRIVATE LIMITED
411	19004	CORVETITE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
412	19011	SUN LEATHERS COMPANY PRIVATE LIMITED
413	19012	SREE PADMALAYA FINANCE & INVESTMENTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
414	19013	LOCKAIRE AG ENGINEERS PRIVATE LIMITED
415	19020	PON-FINE LEATHERS & SHOES PRIVATE LIMITED
416	19023	ESWARI GRANITES PRIVATE LIMITED
417	19025	GEMPAC CONTAINERS PRIVATE LIMITED
418	19026	STERLING GRANITE INDUSTRIES LIMITED
419	19027	HI-TECH AUTO DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
420	19035	GOUTOM BANERJEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
421	19040	OLGA THEATERS PRIVATE LIMITED
422	19049	STANDARD GRANITES PRIVATE LIMITED
423	19052	MIKO-FINO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
424	19070	SRI VALLUVAR TEXTILES PRIVATE LIMITED
425	19073	ALL FINE COSMETIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
426	19082	REVATHY CHROME-CHEM PRIVATE LIMITED
427	19091	SAKTHI BONE MILL PRIVATE LIMITED
428	19092	BALAJI DETERGENTS PRIVATE LIMITED
429	19100	B N T AIR EXPRESS PRIVATE LIMITED
430	19101	INTEX STYLES INDIA PRIVATE LIMITED
431	19116	CHIRPI CONSTRUCTORS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
432	19120	CURRENT ORGANICS PRIVATE LIMITED
433	19126	ALWINFAB PRIVATE LIMITED
434	19128	LOTUS MINERAL EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
435	19131	DECCAN TELE-COM PRIVATE LIMITED
436	19132	RAJALI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
437	19135	VENKATESWARA PRINTERS PRIVATE LIMITED
438	19144	PRAGATHEE ADVERTISING & MARKETING PRIVATE LIMITED
439	19150	GUC EXPORTS PRIVATE LIMITED
440	19154	YESAAR APPARELS PRIVATE LIMITED
441	19158	TELEGRAND PRINTERS PRIVATE LIMITED
442	19163	BON APPARELS PRIVATE LIMITED
443	19166	PIPELINE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
444	19167	DIANA AUTOMOTIVE COMPONENTS PRIVATE LIMITED
445	19173	UDHAYA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
446	19174	MAHAKALI CHITS PRIVATE LIMITED
447	19178	VERMA COAL MOVERS PRIVATE LIMITED
448	19179	VERMA COAL LINKAGE PRIVATE LIMITED
449	19187	NEO PACK EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
450	19192	GAIN HOUSE FINANCE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
451	19202	NAJEEULLAH VASIMULLAH & COMPANY PRIVATE LIMITED
452	19206	PACK SEAL MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
453	19209	BRIGHT IRON DESIGNER PRIVATE LIMITED
454	19211	KAMALAM COLOR & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
455	19225	PRINCE SHIPPING PRIVATE LIMITED
456	19253	SRI VELAVAN RUBBERS PRIVATE LIMITED
457	19256	BETA BYTE EXPORTS PRIVATE LIMITED
458	19257	SAYEE POLY PAPER PRIVATE LIMITED
459	19263	VEDANTHANGAL FARM PRIVATE LIMITED
460	19269	KARPAGA VINAYAGAR LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
461	19273	GREENFIELD INVESTMENTS AND LEASING PRIVATE LIMITED
462	19276	RAGAV CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
463	19283	MAXWELL REMEDIES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
464	19291	EMICO TROPHIES PRIVATE LIMITED
465	19292	BLUE CHIPS GRANITE PRIVATE LIMITED
466	19297	MEHTA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
467	19302	ZOETIC INDIA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
468	19304	COPPARRUM MONITORS PRIVATE LIMITED
469	19320	SEMBI STEEL AND ALLIED INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
470	19322	ARGUS HOTELS PRIVATE LIMITED
471	19325	TUTICORIN ARBEEYES EXPORTS PRIVATE LIMITED
472	19340	BLUESHORE FINANCE PRIVATE LIMITED
473	19351	VIJAYA ALUMISULPHATE INDIA PRIVATE LIMITED
474	19352	VIJAYA CHEMAGRO INDIA PRIVATE LIMITED
475	19354	SRI VIRGO DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
476	19367	NIRAM SPINNERS PRIVATE LIMITED
477	19372	BOGEN EXPORTS PRIVATE LIMITED
478	19376	SRIKAS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
479	19391	PIMARINE FARMS PRIVATE LIMITED
480	19392	UNITY LEATHERS PRIVATE LIMITED
481	19397	SURABHI GENERAL FINANCE PRIVATE LIMITED
482	19400	COASMOS IMPEX PRIVATE LIMITED
483	19405	HYUNDAI INDO STONE INDUSTRY COMPANY PRIVATE LIMITED
484	19409	K N S SPINNERS PRIVATE LIMITED
485	19418	BHARDWAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
486	19422	KEPSON ORGANICS PRIVATE LIMITED
487	19429	SUNDARANACCHIARAMMAN TRADING & INVESTMENT COMPANY
488	19436	TRICO INTERNATIONAL TRAVEL(INDIA) PRIVATE LIMITED
489	19437	HANNA INVESTMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
490	19439	RAJALAKSHMI MINERAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
491	19440	ADLER HAMSA LIME PRODUCTS PRIVATE LIMITED
492	19441	HOTEL SHIVALOK PRIVATE LIMITED
493	19451	SUN FISHERIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
494	19469	GITANJALI MEDIA PRIVATE LIMITED
495	19476	VEMBU FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
496	19479	MAKKENA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
497	19489	BEST BUILDERS PRIVATE LIMITED
498	19494	FEDERATION OF TAMILNADU TRADERS ASSOCIATION
499	19496	SCINTILA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
500	19497	CORAL EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
501	19502	SUNRISE PAPER & ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
502	19508	VIJAYA SCANNERS PRIVATE LIMITED
503	19519	CORIUM APPARELS PRIVATE LIMITED
504	19525	BAPROH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
505	19527	VESTAL CHEMICALS PRIVATE LIMITED
506	19543	LALIT SRI CERAMIK PRIVATE LIMITED
507	19547	UNIQUE ALLIANCE MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
508	19549	SOUTH INDIAN PIPES (PIONEERS) PRIVATE LIMITED
509	19550	VANDAVASI TEXTILES PRIVATE LIMITED
510	19556	PRIYADARSHINI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
511	19557	KOVALAM PARKS PRIVATE LIMITED
512	19564	PARKAR ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
513	19567	SAY TEXTILE ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
514	19570	SRIMATHY GRANITES PRIVATE LIMITED
515	19575	THIRUMALAI DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED
516	19576	JAGGANMOHAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
517	19578	S.SANTHOSANADAR AND SONS PRIVATE LIMITED
518	19585	BCI TRANSPORT PRIVATE LIMITED
519	19589	MANAGEMENT SERVICES AND INFORMATICS PRIVATE LIMITED
520	19613	AMAJIN CONSULTANTS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
521	19623	CHANDINI ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
522	19637	PUSHPAVALLI THANGAVELU TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
523	19644	SRIVALLI WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
524	19653	IDANGANKOTTAI FARMS PRIVATE LIMITED
525	19681	A P S TEXTILES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
526	19702	ADLER AROMATICS & PLASTICS PRIVATE LIMITED
527	19716	PAN ASIA EXPORTS PRIVATE LIMITED
528	19720	SRI DURGA CINEMA PRIVATE LIMITED
529	19740	SOUTHERN OLEORESINS PRIVATE LIMITED
530	19752	YADAVA FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
531	19779	CHAARITHRA LEATHER AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
532	19790	V S M FINANCE PRIVATE LIMITED
533	19805	ERIC AND SHAN MARKETING PRIVATE LIMITED
534	19822	RAMAKRISHNA MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
535	19827	PRIYA MILLS PRIVATE LIMITED
536	19832	SASIREKHA EXPORT (INDIA) PRIVATE LIMITED
537	19834	TAMILNADU SYNTHWOOD LIMITED
538	19835	IDEAL LEAHTER EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
539	19838	VIGNESH SHOES PRIVATE LIMITED
540	19840	J R B B INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
541	19844	AUTOMOBILE TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
542	19845	SOLID FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
543	19848	ALWAR RUBBER FACTORY PRIVATE LIMITED
544	19851	SYNERGY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
545	19853	MATCHLESS MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
546	19856	TECHNO LEDER EXPORTS PRIVATE LIMITED
547	19869	THAYAR DIARY FARM PRIVATE LIMITED
548	25311	GANGA-KAVERI AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
549	25509	MILKYWAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
550	25523	SUKRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
551	25541	RAMSEKAR SURGICAL COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
552	25557	PRAHATHI AMUSEMENTS & RESORTS PRIVATE LIMITED
553	25564	ALIYA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
554	25573	QUEEN AQUA PRIVATE LIMITED
555	25603	GREEN PARK PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
556	25632	POOVAN HOSIERIES PRIVATE LIMITED
557	25649	MADRAS AUTOMATION CONCEPTS PRIVATE LIMITED
558	25651	S.J.A. CHIT FUND PRIVATE LIMITED
559	25696	SUMANGALI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
560	25745	GALAXY ESTATES & HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED
561	25772	KK GLAUDIES FINANCIERS PRIVATE LIMITED
562	25781	SENTHURAN PRAWN FARM PRIVATE LIMITED
563	25798	GREENPEACE ORCHARDS PRIVATE LIMITED
564	25812	CLUB RENDEZVOUS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
565	25953	LION CITY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
566	25958	MATCHLESS FABRICS PRIVATE LIMITED
567	25992	BODI OM NARAYANA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
568	26157	ATLANTA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
569	26254	SIGNET AQUA FARMS LIMITED
570	26258	GRACE MINERALS PRIVATE LIMITED
571	26497	ABHIRAMI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
572	26521	PREETHAM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
573	26559	SNEW LEATHERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
574	26566	DART WIRES PRIVATE LIMITED
575	26583	PENTA LEATHERS PRIVATE LIMITED
576	26586	SREE SADASIVAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
577	26588	ANANTHU EXPORTS PRIVATE LIMITED
578	26680	SRUSTI TEAKS INDIA PRIVATE LIMITED
579	26692	JAGALAKSHMI PLANTATIONS (INDIA) LIMITED
580	26722	PHOENIX DECORATIVE POLYTEX PRIVATE LIMITED
581	26737	KONGU CHITS PRIVATE LIMITED
582	26753	BALSON BENEFIT FUND LIMITED
583	26772	SURABI CREATIONS PRIVATE LIMITED
584	26776	AAY VEE STEELS PRIVATE LIMITED
585	26790	KANSAI GRANITES PRIVATE LIMITED
586	26799	AMBULI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
587	26824	SEAMAN ELSY PRIVATE LIMITED
588	26839	WATAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
589	26855	SHRIRAM SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
590	26886	URBAANA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
591	26892	SRI UDHAYAM CHIT FUNDS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
592	26918	POTHAN FINANCE PRIVATE LIMITED
593	26985	VISHNU TECHNICAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
594	27021	SUNSULA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
595	27029	MATHURA POWER CONTROL PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
596	27041	GOPI PRIYA TREE PLANTATION PRIVATE LIMITED
597	27067	CHANDRAKANTH FILMS PRIVATE LIMITED
598	27090	KUMBAKONAM RV CHITS PRIVATE LIMITED
599	27108	VETRI DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
600	27116	TAURUS OVERSEAS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
601	27118	GRANDLAYON TECH-MINERALS PRIVATE LIMITED
602	27148	SRI VIJAYA SARASWATHY SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
603	27161	T.D. BALAJI APPARELS PRIVATE LIMITED
604	27206	SARAVANA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
605	27225	VASANTH SELVIS CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
606	27233	ACHUTHA CHEMTECH PRIVATE LIMITED
607	27238	BLUE BASE AQUA HARVEST PRIVATE LIMITED
608	27247	KOVILPATTI OM ADHIPARASAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
609	27254	TRILUX POWER EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
610	27255	SPRING SHEILD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
611	27293	RAJA GIRI CHITS PRIVATE LIMITED
612	27306	LAKSHMI BALAJI FINANCE PRIVATE LIMITED
613	27319	UNICORN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
614	27362	AKKSHAY BREEDERS PRIVATE LIMITED
615	27367	SRI SAI PARDHA FARMS PRIVATE LIMITED
616	27522	BAGAM PRIYAL FINANCE PRIVATE LIMITED
617	27575	SHARE CRAFT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
618	27576	BALAJE AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
619	27588	SRI PANDIAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
620	27630	MAS MEDICAL INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
621	27912	MAHAJANA TRADE CREDITS PRIVATE LIMITED
622	28039	NT MEDIAWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
623	28083	THENI OM SRI PRAKASH CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
624	28162	SREE LEKSHMI AQUA FARM PRIVATE LIMITED
625	28204	SOFTLINK COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
626	28232	KARTHIK SHARE BROKING PRIVATE LIMITED
627	28304	SRI VANNI VINAYAGAR CHIT FUNDS (SATTUR) PRIVATE LIMITED
628	28310	MAGNUM NEWS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
629	28320	K.K.CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
630	28336	MADONNA BUILDERS PRIVATE LIMITED
631	28393	SUN CONTROL FILMS PRIVATE LIMITED
632	28397	B.NIRMA CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
633	28459	MEGATRENDS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
634	28462	SWARNA EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED
635	28474	VALLAVAN CHIT FUND PRIVATE LIMITED
636	28494	ARASAN MARKETING PRIVATE LIMITED
637	28513	COMBINED COURIERS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
638	28518	J.P.FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
639	28534	INDUS RESORTS PRIVATE LIMITED
640	28542	INTER MODE FREIGHT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
641	28544	RANS FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
642	28555	MAAYURAM SRI RENGACHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
643	28570	STALWART COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
644	28588	EXCEL CASTINGS PRIVATE LIMITED
645	28704	OPS BENEFIT FUND LIMITED
646	28712	PRINCE FARMS AND AGRO COMPANY PRIVATE LIMITED
647	28730	GNANA BHARATHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
648	28732	J.K.MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
649	28770	RAPICUR REMEDIES PRIVATE LIMITED
650	28772	SHRI AKALYA CHITS PRIVATE LIMITED
651	28774	THILLAI LAXME CHITS PRIVATE LIMITED
652	28868	PADAM FINANCE PRIVATE LIMITED
653	28869	SRI SARVASIDDHIVINAYAGAR CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
654	28885	GEM ORCHARDS PRIVATE LIMITED
655	28894	WESTERN GHATS HILL PLANTATIONS LIMITED
656	28904	MERCURY ELECTRICAL ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
657	28924	TRADE SPECTRUM PRIVATE LIMITED
658	28925	NARBAVI CHITS PRIVATE LIMITED
659	28926	JAN SEVAK FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
660	28931	VAIRAVAN CHITS PRIVATE LIMITED
661	28932	MADURAI AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
662	28938	REI GRANITE EXPORTS PRIVATE LIMITED
663	28941	AGROHA GREEN FARMS PRIVATE LIMITED
664	28973	CARGO POOL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
665	28982	AARON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
666	29016	INTERNET TRAVEL PRIVATE LIMITED
667	29026	AXLE PHARMA PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
668	29054	PAL & PRIYA ESTATES AND INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
669	29082	TRINET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
670	29134	MAGAMAYEE BENEFIT FUND LIMITED
671	29139	KUMARAN & KUMARAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
672	29170	DEW DROP ADVERTISING PRIVATE LIMITED
673	29175	FAST FORWARD COURIERS PRIVATE LIMITED
674	29198	INIT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
675	29201	MAXIMA INTERIOR DECORATORS PRIVATE LIMITED
676	29209	EKNAATH COMMUNICATIONS LIMITED
677	29256	DEEPMI EXPORTS PRIVATE LIMITED
678	29262	ZENITH MARKETING AND SALES SERVICES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
679	29276	PROXY-MATE SERVICES PRIVATE LIMITED
680	29279	CMS STONE WORLD PRIVATE LIMITED
681	29293	SREE MUTHULAKSHMI NAGAR BENEFIT FUND LIMITED
682	29303	METRO INVESTMENTS SYNDICATE LIMITED
683	29313	SUN CHIT & INVESTMENT PRIVATE LIMITED
684	29356	METAL & MINERAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
685	29441	BBA SECURITIES AND STOCKS PRIVATE LIMITED
686	29450	ANNATHUR DAIRY & AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
687	29469	JUPITER GARMENTS EXPORT PRIVATE LIMITED
688	29491	TESSCO CONSTRUCTIONS AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
689	29509	RAINBOW MARKETING PRIVATE LIMITED
690	29512	CAMIN AQUA HATCHERIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
691	29562	G.D.R.FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
692	29570	G.P.GRANITES PRIVATE LIMITED
693	29614	ALPHA COMPUTER PRINTS PRIVATE LIMITED
694	29615	ANDHRA AGRO &AQUA SERVICES PRIVATE LIMITED
695	29637	MADHURA FARMS HOUSE & RESORTS PRIVATE LIMITED
696	29649	NU-LINC ELECTRONIC PRIVATE LIMITED
697	29669	TREASURE TROVE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
698	29701	CARDINAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
699	29730	ORIENTAL SEAMS PRIVATE LIMITED
700	29750	KLASSIK BUSINESS FINANCE PRIVATE LIMITED
701	29770	DEVIKRISHNA AQUA CULTURE PRIVATE LIMITED
702	29802	Y.K.LEATHERS PRIVATE LIMITED
703	29808	CHINNU EXPORTS PRIVATE LIMITED
704	29953	AISA FINVEST PRIVATE LIMITED
705	30032	RATHNA CHITS PRIVATE LIMITED
706	30040	EMPLOY-NET PRIVATE LIMITED
707	30041	SAFENET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
708	30042	T.K.N.HOLIDAY RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
709	30072	METRO EXPRESS COURIERS PRIVATE LIMITED
710	30074	MA EQUITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
711	30096	ESS VEE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
712	30103	MADRAS CITIZENS BENEFIT FUND LIMITED
713	30123	BALAJI DAIRY PRIVATE LIMITED
714	30136	KNP TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED
715	30166	TWELCO FILTERS PRIVATE LIMITED
716	30175	UNI BUILD EXIMP PRIVATE LIMITED
717	34657	KVR LEATHER PRIVATE LIMITED
718	34662	GOLDEN BIO TECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
719	34669	SHIRDI SAI HOME WORKS PRIVATE LIMITED
720	34673	K G PUNCHILINE TOOLS PRIVATE LIMITED
721	34675	SRI NARAYANA CHITS PRIVATE LIMITED
722	34680	MEROOR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
723	34689	AMFAHZ MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
724	34692	CONCORD AIR VOYAGES PRIVATE LIMITED
725	34712	TAMANNA PROJECTS & MARKETING PRIVATE LIMITED
726	34714	P J EXIMS PRIVATE LIMITED
727	34741	KLEEN WAY DRY CLEANERS PRIVATE LIMITED
728	34742	AXIOM CONSULATANTS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
729	34751	BEE KAY AAR PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
730	34767	DHARA SIMULATION SOFTWARE PRIVATE LIMITED
731	34790	SAGA EDUCATION PRIVATE LIMITED
732	34795	CALIPSO EXPORTS PRIVATE LIMITED
733	34796	ZODIAC INTERGREATED AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
734	34831	TRIMAX HARI FINANCE PRIVATE LIMITED
735	36058	SWARNALAKSHMI SECURITIES LIMITED
736	40009	OM MURUGAA MANDIRAM SPINNING MILLS LIMITED
737	40824	VENKATESWARA PHONES PRIVATE LIMITED

D. SURYANARAYANA
Asst. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies

Chennai-6, the 24th September 2007

No. 15127 To 44999/560 (3)/Suo Motto-2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved.

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1	15127	YESCUBE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	15134	DHARSAN AGENCIES PRIVATE LIMITED
3	15138	PRABHA PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4	15151	THREE ACE FINANCE PRIVATE LIMITED
5	15158	RAINBOW ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
6	15169	R R PLASTO PRIVATE LIMITED
7	15183	SRI YANTRA FINANCE PRIVATE LIMITED
8	15187	SINDUBAD SEA FOODS PRIVATE LIMITED
9	15221	BILLMUS EXPORTS PRIVATE LIMITED
10	15224	SHASHEES MARKETING CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
11	15228	KUMAR RUBBERS PRIVATE LIMITED
12	15255	MODERN DRUG TESTING LABORATORY PRIVATE LIMITED
13	15262	PRESTINE MARBLES AND GRANITES ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
14	15264	B S J CONSULTANCY PROMOTION PRIVATE LIMITED
15	15281	CRISTAL AIR CONDITIONERS PRIVATE LIMITED
16	15290	TELESIS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
17	15291	SREE BELCOMP SERVICES PRIVATE LIMITED
18	15319	TEKNICON POWER ENGINEERING PRIVATE LIMITED
19	15343	ACCEL ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
20	15347	SOLAR ENERGY AND WATER RESOURCES PRIVATE LIMITED
21	15348	ANBU INDUSTRIAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
22	15352	SUBHA PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
23	15354	PAVLEDIS SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
24	15356	MANTHRALAYA ELECTRONICS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
25	15357	THREE DEENS AQUACULTURE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
26	15358	ARCHANA FINANCE AND HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
27	15359	VEN JOH SPICES PRIVATE LIMITED
28	15361	BIO-CARE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
29	15364	ST. MARYS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
30	15372	AVS EXPORTS PRIVATE LIMITED
31	15375	VALLI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
32	15376	CDE (INDIA) PRIVATE LIMITED
33	15377	UNIQUE INTELLIGENCE AGENCY AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
34	15381	WONDER TECHNOART CENTRE PRIVATE LIMITED
35	15386	CHARATH FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
36	15392	ANNAMAR TURMERIC & TRADES PRIVATE LIMITED
37	15398	MULTI PENS PRIVATE LIMITED
38	15402	COROMANDEL CHITS PRIVATE LIMITED
39	15404	GUPTA FINANCE & HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
40	15405	RAMANI FISHING CO PRIVATE LIMITED
41	15502	MEGALITH LIMITED
42	15753	B K S EXPORT TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
43	15754	BALA SIVA TRANSPORT PRIVATE LIMITED
44	15761	R PARAMASIVAM ELECTRONICS COMPANY PRIVATE LIMITED
45	15767	SANTHI MATSUOKA FARMS PRIVATE LIMITED
46	15769	PLAN O TRAVEL (INDIA) PRIVATE LIMITED
47	15779	RANK LEATHER PRIVATE LIMITED
48	16284	A V G SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
49	16315	SHALIMAR (TUTICORIN) PAPER AND BOARDS PRIVATE LIMITED
50	16319	COLLEGE BROOKE-LLOYDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
51	16331	DOVE TELEMATICS PRIVATE LIMITED
52	16333	SUYAMENDHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
53	16334	IND-SERVO PRIVATE LIMITED
54	16336	INSTANT OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
55	16359	SWATI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
56	16364	KEERTAN PUBLICITIES PRIVATE LIMITED
57	16366	VEGA ENGINEERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
58	16367	SYSTEMATIC COURIER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
59	16377	VIRUDHA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
60	16378	VISUDHA FINANCE PRIVATE LIMITED
61	19873	SUNBUSST HOUSING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
62	19878	VOGUE EXPORTS IMPORTS PRIVATE LIMITED
63	19886	FELUX EXIM PRIVATE LIMITED
64	19901	SURAJ EXIM PRIVATE LIMITED
65	19903	GEORGE TOWN FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
66	19906	VET-MED TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
67	19907	ASTHALAKSHMI FINANCE AND REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
68	19911	TOXNIL POLYVEIL PRIVATE LIMITED
69	19918	JAGUAR APPARELS INDIA PRIVATE LIMITED
70	19920	SRI LAKSHMI PIPES PRIVATE LIMITED
71	19975	ROTMAX CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
72	19976	SWAGAT COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
73	19977	P.N. GANESAN HOUSING PRIVATE LIMITED
74	19994	PERFECT PLACEMENT PRIVATE LIMITED
75	19995	SRI DEVI DURGA LAKSHMI CHEMICALS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
76	19999	USHODAYAM CHITS PRIVATE LIMITED
77	20006	VETRY INSULATION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
78	20026	NAPHA LEATHERS PRIVATE LIMITED
79	20031	DEVARAJ HOUSING & FINANCE PRIVATE LIMITED
80	20066	SRI R.B.S. SPINNINGS PRIVATE LIMITED
81	20071	NAT FASHIONS PRIVATE LIMITED
82	20075	SETREND MARKETING PRIVATE LIMITED
83	20076	SIAL ROCKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
84	20089	KUMAR EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
85	20107	NACHAMMAI FINANCE PRIVATE LIMITED
86	20117	SRI DURGA DEVI SPINNERS PRIVATE LIMITED
87	20128	TNT PLAS PRIVATE LIMITED
88	20131	SIVAANI IMPEX PRIVATE LIMITED
89	20132	KALPAKA FINANCE PRIVATE LIMITED
90	20135	BROOKLANDS MOTELS AND HOSPITALS PRIVATE LIMITED
91	20137	CITIZEN INSULATORS PRIVATE LIMITED
92	20144	VRINDAVAN APPLIANCES PRIVATE LIMITED
93	20146	GAYATRI ELECTRIC AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
94	20147	RAJINI TEXTILES PRIVATE LIMITED
95	20154	MUBEEN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
96	20156	PRIYA INTEGRATED AGENCY PRIVATE LIMITED
97	20179	REBOBOTH FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
98	20181	HEX KUDILS PRIVATE LIMITED
99	20226	EXTRUDER FOOD PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
100	20231	KOLATHUR HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
101	20242	THILLAR LEATHERS PRIVATE LIMITED
102	20245	SYNTHETIC INDIA PRIVATE LIMITED
103	20258	SIYAM SUNDAR OIL MILLS PRIVATE LIMITED
104	20272	SIEGER IMPEX PRIVATE LIMITED
105	20275	SPRINGFIELD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
106	20278	THAI IND CHEMICALS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
107	20293	STONE TECH EXPORTS PRIVATE LIMITED
108	20326	ABISONS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
109	20336	N V R ESTATES PRIVATE LIMITED
110	20344	GALAXY GRANULES PRIVATE LIMITED
111	20347	AGROTEC SYSTEMS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
112	20357	LINTEX OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
113	20362	ROBA CHEM PRIVATE LIMITED
114	20370	VIJAYAN FINANCE COMPANY TRICHY PRIVATE LIMITED
115	20379	EVERPAC LIMITED
116	20383	SRI BALAJI FUELS PRIVATE LIMITED
117	20396	TRINITY FABRICS PRIVATE LIMITED
118	20411	SPAX SHOES PRIVATE LIMITED
119	20423	REHOBOTH CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
120	20429	NISHANTH PROCESSORS PRIVATE LIMITED
121	20436	SRI SRINIVASA VIDEO PRIVATE LIMITED
122	20437	WINTEX POLYMERS PRIVATE LIMITED
123	20439	NAVEEN SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
124	20453	VILLUPURAM CHAKRA ASSOCIATES AGENCIES PRIVATE LIMITED
125	20477	HEX TEAM CREATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
126	20504	LINTEX FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
127	20507	G TRAVELS AND TOURS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
128	20508	SIGMA CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
129	20512	SRI SRINIVASA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
130	20532	EASTERN TEXTILES PRIVATE LIMITED
131	20548	DLS SV ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
132	20550	LAXMI CINE CIRCUITS PRIVATE LIMITED
133	20555	NEW PUSHPAM METALS PRIVATE LIMITED
134	20562	INDOMED PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
135	20577	N.J.SHAH FOOD PRODUCTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
136	20591	HIMALAYAN POLYMERS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
137	20593	BOOMA BUILDERS PRIVATE LIMITED
138	20596	R.K.B.HOSPITALS PRIVATE LIMITED
139	20597	RAJINDRA SURI IMPEX PRIVATE LIMITED
140	20599	ROCKCITY CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
141	21004	TRICHY LIGHT LEATHER PRIVATE LIMITED
142	21016	KGM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
143	21022	INDHUMATHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
144	21028	B.P.BENEFIT FUND LIMITED
145	21033	SHREE KAMATCHI FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED
146	21055	VEYEN PETROCHEM PRIVATE LIMITED
147	21057	YUD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
148	21058	YUD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
149	21059	YUD OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
150	21060	YUD MARKETING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
151	21065	YESEMEL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
152	21066	KALI BRAND HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
153	21079	ASSOCIATED EXPORIENT PRIVATE LIMITED
154	21086	AMBI FINANCE PRIVATE LIMITED
155	21092	CANARA GRANITES PRIVATE LIMITED
156	21118	SOUTHERN MARINE FISHSERIES AND PRAWN FARMS PRIVATE LIMITED
157	21130	UNIFAB MATO PRIVATE LIMITED
158	21138	SCORPIO WEIGHBATCHING PRIVATE LIMITED
159	21164	OM VINAYAGAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
160	21174	SARVAMANGALA CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
161	21186	ANU VIJAY APPARELS PRIVATE LIMITED
162	21194	KULASEKARA PANDIAN ESTATES PRIVATE LIMITED
163	21195	TECNO COMPUTER PRINTS PRIVATE LIMITED
164	21201	PONNI APPARELS PRIVATE LIMITED
165	21213	DOWLANI ESTATES PRIVATE LIMITED
166	21222	SRI VIGNESH FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
167	21230	SATIMATA FINANCE PRIVATE LIMITED
168	21232	CEE BE EM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
169	21236	INSTITUTIONAL MARKETING AGENCIES (ELECTRONICS) PRIVATE LIMITED
170	21238	UBERUS STATIONERS LIMITED
171	21243	AISHWARYA'S FREIGHT CONNECTIONS PRIVATE LIMITED
172	21252	BHARAT FERTILISERS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
173	21256	PRS OVERSEAS EXPORTS PRIVATE LIMITED
174	21257	APSARA GRANITE COMPANY PRIVATE LIMITED
175	21263	ETHIRAJ IMPEX PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
176	21264	SRI RAMAJAYAM FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
177	21267	SECHEM PRIVATE LIMITED
178	21285	NATHONI EXIM PRIVATE LIMITED
179	21290	VENSBAR ORGANICS PRIVATE LIMITED
180	21294	AMALGAMATED OCEANSCAN PRIVATE LIMITED
181	21298	AMBASSADOR MARKETING PRIVATE LIMITED
182	21302	GENERAL FREIGHT CARRIERS PRIVATE LIMITED
183	21311	RELIANCE COURIERS PRIVATE LIMITED
184	21337	PLATING PROCESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
185	21339	GAJALAKSHMI GRANITES PRIVATE LIMITED
186	21340	AIMCO SECURITIES PRIVATE LIMITED
187	21344	RANI FASHIONS PRIVATE LIMITED
188	21348	FACT LEATHERS PRIVATE LIMITED
189	21349	REVLON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
190	21350	MAA ONLINE SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
191	21353	R.J.R.FURNITURE & FABRICATOR PRIVATE LIMITED
192	21355	ROCKFORT FABRICS PRIVATE LIMITED
193	21357	EXCEL COMPONENTS PRIVATE LIMITED
194	21371	POWER TECH ELECTRONICS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
195	21377	SARTORIA LEATHER STORES LIMITED
196	21405	BETAMAX (MADRAS) PRIVATE LIMITED
197	21412	SAROJINI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
198	21423	SIMACON INDIA PRIVATE LIMITED
199	21436	HARINI GENERAL FINANCE PRIVATE LIMITED
200	21440	KARPAGAM COMMERCIAL CREDITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
201	21468	KOVALAM CARRIERS PRIVATE LIMITED
202	21469	PRASAD IMPEX PRIVATE LIMITED
203	21470	B.K.CHITS(MADRAS) PRIVATE LIMITED
204	21472	ARUNA MARINE PRODUCTS EXPORTS PRIVATE LIMITED
205	21482	TAMILNADU INSULATORS PRIVATE LIMITED
206	21508	ABYHUDAYA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
207	21510	HITECH REFRACTORY PRIVATE LIMITED
208	21541	RAM RANJIT COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
209	21558	PONMANY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
210	21599	ARNI SRI RAJALAKSHMI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
211	21602	VISHNUVARDHAN GRANITES PRIVATE LIMITED
212	21607	MODERN COMPUTER GRAPHICS & INFORMATION SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
213	21608	SRI LAKSHMI TECHNOFABS PRIVATE LIMITED
214	21609	ALPHABETA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
215	21610	BURLYS HOMEFOODS PRIVATE LIMITED
216	21613	AROOR LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
217	21614	ESWAR LEASING FINANCE PRIVATE LIMITED
218	21628	PREMIER TRAILERS PRIVATE LIMITED
219	21636	SERAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
220	21668	UNIFINE LEASING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
221	21669	SHAVIN INSTRUMENTATION CONTROLS PRIVATE LIMITED
222	21674	LSZ GRANITES PRIVATE LIMITED
223	21676	BHANU EXPORTS PRIVATE LIMITED
224	21721	HINDUJA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
225	21780	MAKKAL NESAN PUBLICATION (MADRAS)PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
226	21805	RAGHAVENDRA LEATHER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
227	21810	SURYA ROLLON PRIVATE LIMITED
228	22082	BESCO EXPORT PRIVATE LIMITED
229	22085	SOUTH INDIA CORRUBOX NEEDS PRIVATE LIMITED
230	22102	BALAJI OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
231	22106	SWAMY DENTAL COMPANY PRIVATE LIMITED
232	22107	PC POINT SYSTEMS & SOFTWARES PRIVATE LIMITED
233	22114	DYNA FLEX SOFTWARE PRIVATE LIMITED
234	22130	DHARANI GRANITES PRIVATE LIMITED
235	22133	FUEL SAVER INDIA PRIVATE LIMITED
236	22142	VISWAMITHRA HERBAL RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED
237	22162	AMARI MARKETERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
238	22172	MONARCH GRANITES PRIVATE LIMITED
239	22218	RADEEP DEVELOPMENT AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
240	22226	TITANIUM ZIRCONIUM PRODUCTS (INDIA)PRIVATE LIMITED
241	22252	VASUNDHARA TIMBER TRADING PRIVATE LIMITED
242	22288	ARUNODHAYAM STRUCTURALS & APPARELS PRIVATE LIMITED
243	22290	SKY HIGH TECH PRIVATE LIMITED
244	22295	APOLLO KNIT WORKS PRIVATE LIMITED
245	22297	MEDIA ANIMATORS PRIVATE LIMITED
246	22324	S.P.HOTELS PRIVATE LIMITED
247	22326	ENRICH EXPORTS PRIVATE LIMITED
248	22407	MRP MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
249	22415	PELICAN INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
250	22427	RELTEX TEXTILES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
251	22474	STYLE CERAMICA PRIVATE LIMITED
252	22780	KANNVAREES CHEMICAL LIMITED
253	23010	MANALI LEATHERS PRIVATE LIMITED
254	23022	CARE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
255	23030	GOWRI GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
256	23049	A.K. CHEMICAL PRODUCTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
257	23068	DARAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
258	23074	SUN PLASTIC COMPOSITES PRIVATE LIMITED
259	23080	ROYAL PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
260	23085	INTER-FRESH FOOD (INDIA) PRIVATE LIMITED
261	23086	V.B.OFFICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
262	23090	VENKYS CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
263	23095	COSMOS PATENTERALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
264	23099	METRO ELECTRONICS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
265	23103	SRI SVS CHITS PRIVATE LIMITED
266	23106	MANHATTAN EXPRESS PRIVATE LIMITED
267	23108	FAIR DEAL SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
268	23110	K & K KNITWEAR PRIVATE LIMITED
269	23111	EMDEEYAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
270	23114	CONMAC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
271	23122	PAMPA GRANITES (INDIA) PRIVATE LIMITED
272	23128	ARUMEE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
273	23137	GOLD CINEMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
274	23138	RIC SPICES AND TOP DELICACIES PRIVATE LIMITED
275	23139	VELANKANNI VISION HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
276	23142	ESUN TRANSPORT PRIVATE LIMITED
277	23143	SUNNY ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
278	23144	SABI PLY PRIVATE LIMITED
279	23147	GEMS GARDEN PRIVATE LIMITED
280	23156	KANNVAURIS FINANCE PRIVATE LIMITED
281	23169	SURESH GANESH HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
282	23177	SRI VENKATESWARA KNITTING COMPANY PRIVATE LIMITED
283	23189	ROYAL MARINE PRODUCTS (TANJORE) PRIVATE LIMITED
284	23218	WEISS PAPERS PRIVATE LIMITED
285	23223	A.R.POLYMERS PRIVATE LIMITED
286	23224	PEKAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
287	23235	SIMS IMPEX PRIVATE LIMITED
288	23244	ILA FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
289	23245	SHARMILA IMPEX AGENCIES PRIVATE LIMITED
290	23247	N.G.R.EXIM PRIVATE LIMITED
291	23249	ALEEF EXPORTS PRIVATE LIMITED
292	23256	MADHAVI HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
293	23281	KUTIPULAN AROMATICS PRIVATE LIMITED
294	23289	MAYURAM KAMATCHI CHITS PRIVATE LIMITED
295	23290	VEEKAY EXPORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
296	23300	SELVA ARASI IMPEX PRIVATE LIMITED
297	23336	LOYAL TEAKS PRIVATE LIMITED
298	23342	PANDIAN KRAFT PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
299	23346	SIEFLEX SYSTEM ENGINEERING PRIVATE LIMITED
300	23347	SOUTHERN ELEVATORS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
301	23352	RAGAVENDER ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
302	23362	TRANS QUICK PRIVATE LIMITED
303	23391	SWAN DESIGN AND ENGINEERING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
304	23576	NISHANT STRUCTURES PRIVATE LIMITED
305	23680	PINAKINI PIPES PRIVATE LIMITED
306	23756	BEST AGRO OILS PRIVATE LIMITED
307	23768	RUSTIC AGRO PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
308	23771	M.S.K.PILLAI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
309	23777	COTTON CREATIONS PRIVATE LIMITED
310	23784	JOTHI LAKSHMI FINANCE PRIVATE LIMITED
311	23807	GANGA HOUSING PROMOTERS PRIVATE LIMITED
312	23810	NAVDHAN GRANITE & MINERALS PRIVATE LIMITED
313	23819	NOGA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
314	23820	RAMAKRISHNA COMPUTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
315	23837	THENNAMMAL FINANCE PRIVATE LIMITED
316	23843	BORDEAUX FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
317	23868	A.N.V.CHITS PRIVATE LIMITED
318	23892	ESEA GRANITES PRIVATE LIMITED
319	23896	THANGAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
320	23901	WE CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
321	23920	GOOD PUMP PRIVATE LIMITED
322	23929	FORTUNE STOCKS PRIVATE LIMITED
323	23998	MADRAS KOREA FISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
324	24004	SHRI AMMANAVARU PLANTATION PRIVATE LIMITED
325	24015	S.A.S.TRADING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
326	24021	AARAAM SEATING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
327	24023	MEDIMATIX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
328	24034	KALAHARI EXPORTS PRIVATE LIMITED
329	24039	EQUIPMENT MARKETING (MADRAS) PRIVATE LIMITED
330	24040	CAPSHELLS LABORATORIES PRIVATE LIMITED
331	24049	CONVAL CONTROLS PRIVATE LIMITED
332	24053	UNITED IMPEX (COIMBATORE) PRIVATE LIMITED
333	24056	VICTORY CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
334	24074	CITY-LINK AIRWAYS PRIVATE LIMITED
335	24083	SREE SOUNDARYA CHITS (THANJAVUR) PRIVATE LIMITED
336	24087	METRO COURIER & CARGO PRIVATE LIMITED
337	24090	HARMONY ADVERTISING PRIVATE LIMITED
338	24102	SEASONS RESORTS PRIVATE LIMITED
339	24126	SRI KRISHNA BOREWELL SERVICES PRIVATE LIMITED
340	24213	AGASTHIA HOSPITAL PRIVATE LIMITED
341	24256	SRI ANGALA PARAMESWARI FOODS PRIVATE LIMITED
342	24258	MICRODYNE ELECTRONIC COMMUNICATION (MADRAS) PRIVATE LIMITED
343	24266	VYASA CHITS PRIVATE LIMITED
344	24303	DENTAL AMALGAMS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
345	24305	CHAKRA AGENCIES PRIVATE LIMITED
346	24307	PHALANX GARMENTS PRIVATE LIMITED
347	24310	J.B.S.CHITS PRIVATE LIMITED
348	24379	SHRI SARAVANA STONES PRIVATE LIMITED
349	24381	VAWAR TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
350	24383	L.A.BOYS (FASHIONS) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
351	24384	NAVADEEP CREDIT AND LEASING PRIVATE LIMITED
352	24387	ROYAL FREIGHT WINGS PRIVATE LIMITED
353	24393	BLUE SEA AQUA TECH PRIVATE LIMITED
354	24408	SUPER RETREADING PRIVATE LIMITED
355	24507	SRI RAJA RAJESWARI GARMENTS PRIVATE LIMITED
356	24527	KIRON RAISING PRIVATE LIMITED
357	24532	K.C.S.HOUSING FINANCE LIMITED
358	24544	NEW GREEN TEAK PLANTATION PRIVATE LIMITED
359	24550	KANNVAREES INTERNATIONALS PRIVATE LIMITED
360	24552	SRINIVAS SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
361	24553	SREE BHAGWAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
362	24572	VIMOCHANAM CHITS PRIVATE LIMITED
363	24582	ESPANA STEAMER AGENCIES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
364	24593	SKYWING CARGO PRIVATE LIMITED
365	24596	ARUNODAYA CERAMICS PRIVATE LIMITED
366	24651	SIDDHARTH FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
367	24652	HIJO IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
368	24676	TEMPLE TREE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
369	24679	MASTER CREDITS PRIVATE LIMITED
370	24683	SUPER SHRIMPS FARMS PRIVATE LIMITED
371	24783	NUTRON ELECTONICS PRIVATE LIMITED
372	25059	KHALEET AQUATECH PRIVATE LIMITED
373	25073	MIDAS TOUCH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
374	25080	ROYAL DOMESTIC EXPRESS PRIVATE LIMITED
375	25086	SG & SS CHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
376	25093	TECHNOCRATS COMBINE PRIVATE LIMITED
377	25105	CLOVER INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
378	25147	GEEN PASTURES INDIA PRIVATE LIMITED
379	25148	MEGA PLANTATION PRIVATE LIMITED
380	25181	JOTHI SAIT BEEDI PRIVATE LIMITED
381	25241	LEERA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
382	25244	HIGH RESOLUTION VIDEO IMAGE PRIVATE LIMITED
383	27375	FRAGRANT FARMS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
384	27377	SRI RAJAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
385	27413	INCA LABS PRIVATE LIMITED
386	27419	TETRA LEATHERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
387	27448	MAYUR GRAFIC PRIVATE LIMITED
388	27453	K.K.R.RESIDENCY CREATIONS PRIVATE LIMITED
389	27492	TUTICORIN SECURITIES PRIVATE LIMITED
390	30183	MAXIMA METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
391	30191	GREEN HEAVEN PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
392	30196	SRI SAMY METALS PRIVATE LIMITED
393	30200	VEKKALIAMMAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
394	30204	SURAJ SECURITIES PRIVATE LIMITED
395	30211	MOOKAMBIGAI FINANCE PRIVATE LIMITED
396	30225	OM GANESH STEEL PRIVATE LIMITED
397	30230	MADONNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
398	30234	RAJA REALESTATES PRIVATE LIMITED
399	30245	SEEKERS FARMS INDIA PRIVATE LIMITED
400	30255	SIVASRI CHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
401	30269	CORONATION JEWELLERY MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
402	30311	AMBIENCE LEISURE HOLIDAYS INDIA PRIVATE LIMITED
403	30313	EXCEL MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
404	30318	N.P.R.K. FINANCE AND LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
405	30323	RATAN FINANCE PRIVATE LIMITED
406	30324	WAVES FABRICS EXPORTS PRIVATE LIMITED
407	30327	AKRON POLYMERS PRIVATE LIMITED
408	30332	MODERN LEATHERCRAFT PRIVATE LIMITED
409	30335	VIJAYA PRAWNS PRIVATE LIMITED
410	30349	INDA EXPORTS PRIVATE LIMITED
411	30353	SREE KARPAGA VINAYAGAR SECURITIES PRIVATE LIMITED
412	30365	SRI SAKTHI BHAGAVATHY PRIVATE LIMITED
413	30381	SRI VAISHNAVI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
414	30390	TANWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED
415	30393	MAJESTIC BENEFIT FUND LIMITED
416	30400	SBR AGRO & SHEEP FARM PRIVATE LIMITED
417	30401	NELLAI BENEFIT FUND LIMITED
418	30406	VARDHMAN FIN LEASE PRIVATE LIMITED
419	30409	STAR EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED
420	30411	DHANANJAYAM FINANCE PRIVATE LIMITED
421	30422	MEDIA NET PRIVATE LIMITED
422	30423	ENCAR CASHEW GARDENS PRIVATE LIMITED
423	30425	VENKADESH COCONUT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
424	30432	BARNABAS EARTH MOVING PRIVATE LIMITED
425	30433	FAXTONE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
426	30457	ROYAL MARITIMES PRIVATE LIMITED
427	30458	PRIME LEATHERS PRIVATE LIMITED
428	30489	FIRENZE LEATHERS PRIVATE LIMITED
429	30490	DHAVAL FILMS INDIA PRIVATE LIMITED
430	30497	SUREKA HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
431	30505	INFINITE CAREER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
432	30507	ATALANTA MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
433	30516	RAMSAROJ ACQUA FARM PRIVATE LIMITED
434	30523	ADI BHAGAVATHY STEELS AND FABRICATION PRIVATE LIMITED
435	30532	IMPRESSIVE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
436	30576	EMPEEKAY IMPEX PRIVATE LIMITED
437	30583	CRESCENT TRADING & EXPORTS PRIVATE LIMITED
438	30601	TIRUCHENDUR PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
439	30619	KWALITY SPICES PRIVATE LIMITED
440	30627	K & K COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
441	30630	TOTAL SAFETY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
442	30637	MAG MARKETING PRIVATE LIMITED
443	30647	JAYA CEMENTS PRIVATE LIMITED
444	30648	BLUESEA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
445	30664	MOOLCHAND SHIPPING PRIVATE LIMITED
446	30670	PHOENIX HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
447	30686	RAJINI CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED
448	30688	SRI VINAYAGA FLORI & HORTI PRIVATE LIMITED
449	30705	SUPER FINE TEXTILES PRIVATE LIMITED
450	30735	CADMAX COMPUTERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
451	30742	SRI SARASU & COMPANY CHITS PRIVATE LIMITED
452	30757	STRATEGIC EQUITY RESEARCH PRIVATE LIMITED
453	30763	SAGAR IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
454	30775	AMBIGA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
455	30777	VALLI SUDHAN CHITS PRIVATE LIMITED
456	30784	GOKHAR SECURITIES PRIVATE LIMITED
457	30793	SEA RECORDS PRIVATE LIMITED
458	30805	SHOBHA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
459	30833	VARDHAMAN PHARMA CHEM PRIVATE LIMITED
460	30835	PRANAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
461	30836	CHAANDINI APPARELS PRIVATE LIMITED
462	30842	M.M.C. BENEFIT FUND LIMITED
463	30870	AISHWARIYA FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
464	30875	BLUE BELL FINANCIAL SERVICES LIMITED
465	30879	NUTREND INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
466	30894	RONAK FABRICS PRIVATE LIMITED
467	30896	SRI SATYASAI SPICES PRIVATE LIMITED
468	30905	AGMA BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED
469	30908	DOLLY BENEFIT FUND LIMITED
470	30913	CSJK CORPORATE RESTRUCTURING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
471	30914	VAN GOGH DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
472	30926	TELETEK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
473	30941	MA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
474	30971	CAVERY CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
475	30979	MOTOREN AUTO ACCESSORIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
476	30981	PERFIX SHOE COMPONENTS PRIVATE LIMITED
477	30982	MAS ENERGY EDUCERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
478	30990	TERRY COSMETICS PRIVATE LIMITED
479	30996	LEKHA SONOTON RECORDED MUSIC LIBRARY PRIVATE LIMITED
480	31013	TECHNIQUES GEOSYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
481	31015	SIREMULL HIRACHAND AUTOPARTS LIMITED
482	31034	MAXIMA TRAVELS PRIVATE LIMITED
483	31049	SWARNA RATHNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
484	31057	SAARS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
485	31070	ROYAL STONES LIMITED
486	31073	RAM-SUNDAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
487	31095	THENI SRI VENKATA LAKSHMI CHTFUNDS PRIVATE LIMITED
488	31101	TAMILNADU X-RAYS & SCANS PRIVATE LIMITED
489	31102	SHRI GURU SHANTHI AGRO FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
490	31110	GLO GLASS PRIVATE LIMITED
491	31111	DEEP WOODS AND WILD FLOWERS PRIVATE LIMITED
492	31112	MOLASUR ORCHARDS PRIVATE LIMITED
493	31117	A.S. MUTHU PLANTATIONS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
494	31124	SUJAIN COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
495	31138	MELCON INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
496	31139	SYNDICATE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
497	31188	GNANAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
498	31190	AMAZER LEATHER EXPORTS LIMITED
499	31193	AYYA THUNAI FINANCE PRIVATE LIMITED
500	31209	MASCO GRANEX PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
501	31215	SRI BALAMBIKA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
502	31268	RAJA EXPORTERS PRIVATE LIMITED
503	31299	SEVAL KODIYON FINANCE PRIVATE LIMITED
504	31300	PON CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
505	31304	MICROFIT AUTO PARTS PRIVATE LIMITED
506	31305	EXCEL CLOTHING PRIVATE LIMITED
507	31313	MAHA DEEPAM CHITS PRIVATE LIMITED
508	31320	VICTUS INFOTECH PRIVATE LIMITED
509	31326	SWATHI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
510	31355	THENRAL FOODS PRIVATE LIMITED
511	31361	SOUTHERN GLUES PRIVATE LIMITED
512	31368	NATURE TEX PRIVATE LIMITED
513	31379	YOGAM SERVICES PRIVATE LIMITED
514	31390	PLAIN PAPER COPIERS SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LIMITED
515	31391	RAMALAS INVESTMENTS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
516	31425	TOPO GRAPHICS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
517	31432	MAXIMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
518	31433	K.G. STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
519	31434	MAXIMA CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED
520	31440	SARVANA BUILDERS PRIVATE LIMITED
521	31452	PON KARTHIK MANPOWER AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
522	31458	AVT AQUA FARM PRIVATE LIMITED
523	31459	M.T.R. GRANITES PRIVATE LIMITED
524	31460	ADROIT TRANS PRIVATE LIMITED
525	31467	TRANSLINE INFOTECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
526	31478	NOORAJ AGROTECH PRIVATE LIMITED
527	31479	POSITIVE EXPORTS PRIVATE LIMITED
528	31480	PEACOCK ELECTRONICS FOUNDATION LIMITED
529	31491	MONEY POINT FINANCIAL SERVICE PRIVATE LIMITED
530	31511	BSS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
531	31528	FRIENDS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
532	31533	NANJIL APARTMENTS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
533	31536	GREEN INVESTMENTS FARM & TRADES PRIVATE LIMITED
534	31542	ALANWIS HOMELINKS PRIVATE LIMITED
535	31547	SRI ELUMALAYAN CHITS PRIVATE LIMITED
536	31555	ABBIRAMI AQUA ANNEXA MADRAS LIMITED
537	31568	METROLINE FINANCE LIMITED
538	31569	AEC SHELTERS PRIVATE LIMITED
539	31583	KRC FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED
540	31588	MERITEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
541	31593	SRI AKILANDESWARI BENEFIT FUND LIMITED
542	31599	CHOICE FARMS PRIVATE LIMITED
543	31601	SHAKTI DURGA ENGINEERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
544	31616	VINTTAGE HERBALS PRIVATE LIMITED
545	31622	DIGITECH INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
546	31628	SELKA WATER TREATMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
547	31635	SAYE SATHYA NARAYANA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
548	31644	MAXIMA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
549	31650	NAVI INVESTMENT PRIVATE LIMITED
550	31652	K.K.ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
551	31655	M.S.CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
552	31661	KAYWEAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
553	31665	ORIENTAL GLUCONATES PRIVATE LIMITED
554	31671	SOUTHERN TRANSAIR SERVICES PRIVATE LIMITED
555	31675	SRI SELVABALAJI CHIT PRIVATE LIMITED
556	31694	SIPPY HOUSING AND AGRO FARM PRIVATE LIMITED
557	31696	RELIABLE HOMES PRIVATE LIMITED
558	31706	OMKAR CHITS PRIVATE LIMITED
559	31707	SONIGARA FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED
560	31708	SATISH LIVESTOCK PRIVATE LIMITED
561	31712	BHOOPATHY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
562	31715	BEST INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
563	31716	K.J.R.POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
564	31740	DIVIYAN LEATHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
565	31758	MASS MARKETTING & FINANCE PRIVATE LIMITED
566	31791	ZIGMA EXPERT SYSTEM PRIVATE LIMITED
567	31792	SENTHIL SIVASAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
568	31794	MONEY MANAGEMENT SECURITIES PRIVATE LIMITED
569	31815	VAP TRAVELS PRIVATE LIMITED
570	31817	SRI LADS FABRICS PRIVATE LIMITED
571	31836	IND AIR TREATMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
572	31844	SRI KOPUDAIAMMAN MILLS PRIVATE LIMITED
573	31864	NETHAJI SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
574	31868	CITY GREENS PRIVATE LIMITED
575	31925	PEAK COMPUTERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
576	31926	RUDRANSAI FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
577	31981	MEASUREWELL INSTRUMENTATION PRIVATE LIMITED
578	31983	NIKKY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
579	31997	AIR MASTER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
580	32003	HELIOS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
581	32011	VANTAGE ADVERTISING AGENCY PRIVATE LIMITED
582	32014	PENTAGON SECURITY SERVICES LIMITED
583	32021	FREMIRA FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
584	32046	EZHIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
585	32048	LAYA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
586	32056	SARAVANA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
587	32061	MIGHTY TEX LIMITED
588	32089	V.R.INVESTMENTS AND LEASING PRIVATE LIMITED
589	32090	M.K.GRANITES & MINERALS PRIVATE LIMITED
590	32093	MOOKAMBIKAI AGENCY PRIVATE LIMITED
591	32108	AURO EQUITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
592	32114	EURO SHOES PRIVATE LIMITED
593	32122	AARATHY TEXTILE EXPORTS PRIVATE LIMITED
594	32130	RAPHEAL TEXTILES PRIVATE LIMITED
595	32137	GOODWORTH ORCHARDS LIMITED
596	32142	ASHA INDIAN AIRWAYS PRIVATE LIMITED
597	32143	ASHA WIND ENERGY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
598	32144	ASHA WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
599	32150	SREE VIGNESWARA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
600	32151	TAMILNADU FARMS AND ORCHARDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
601	32161	SHRI SAIRAM TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
602	32166	KERALA TRANSPORT SERVICE (MADRAS) PRIVATE LIMITED
603	32169	SHILPA ARTS PRIVATE LIMITED
604	32174	ANUBHAV CEMENTS LIMITED
605	32179	SWAS APPARELS PRIVATE LIMITED
606	32197	ISAAC & PAUL AGRO FARMS & FINANCE PRIVATE LIMITED
607	32205	SUMS EXPORTS PRIVATE LIMITED
608	32206	VIRGIN TEXTILE PRIVATE LIMITED
609	32207	J.SILVERHILLS SHEEP FARMING LIMITED
610	32215	GREEN PARK GARDENS PRIVATE LIMITED
611	32218	SREE JEYAM SPINNERS PRIVATE LIMITED
612	32220	BRILLIANT AUTO SPARES PRIVATE LIMITED
613	32228	GVL BROTHERS WING ELECTRIC GENERATORS PRIVATE LIMITED
614	32232	DELTA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
615	32244	PUTHUGAI PECTIN PRIVATE LIMITED
616	32254	GALEN MEDICAL PRIVATE LIMITED
617	32257	THEJASVEE MEENAKSHI BENEFIT FUND LIMITED
618	32258	COCOON TEXTILE PRIVATE LIMITED
619	32259	ABLOOM FINANCIAL SERVICES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
620	32261	EVA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
621	32263	VENUE ACE RETORT FOODS PRIVATE LIMITED
622	32285	PAZHAMUDHIR SOLAI AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
623	32304	FLY HIGH SERVICES PRIVATE LIMITED
624	32308	P&W GRAPHICS PRIVATE LIMITED
625	32323	FABTEX EXPORTS(INDIA) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
626	32324	BRUCHEMS PHARMA PRIVATE LIMITED
627	32328	VETRIVEL HIRE PURCHASE & LEASING PRIVATE LIMITED
628	32331	SRI VIRIJESWARI MERCHANDISERS PRIVATE LIMITED
629	32335	ABAY FINSTOKK PRIVATE LIMITED
630	32350	EAGLE IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
631	32357	CAPITAL SHIPPERS AND COURIER SERVICES PRIVATE LIMITED
632	32369	MEERA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
633	32390	FIVE FALLS HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
634	32403	PHARMALOID(S) (INDIA) PRIVATE LIMITED
635	32407	INTEGRATED BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
636	32421	SINGER FINANCE PRIVATE LIMITED
637	32446	PAKALONE SHIPPING PRIVATE LIMITED
638	32447	ESUN PROPERTY FINANCE PRIVATE LIMITED
639	32454	KUMBAA BENEFIT FUND LIMITED
640	32460	GOLDEN HILL GREEN FARMS PRIVATE LIMITED
641	32465	SOUTH PACIFIC LEATHER IMPORT-EXPORT PRIVATE LIMITED
642	32466	PERFECT MEDICARE PRIVATE LIMITED
643	32469	NSM TRAVELS PRIVATE LIMITED
644	32470	SASHI FINANCIAL AND TECHNICAL SERVICES LIMITED
645	32481	CASINO RESORTS PRIVATE LIMITED
646	32486	GALADA RIMS LIMITED
647	32488	PROFESSIONAL ASSOCIATES CONSULTANTS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
648	32491	CONSUL HOLDINGS PRIVATE LIMITED
649	32514	NICE KNITTERS PRIVATE LIMITED
650	32516	SOUTHERN AGRO FARMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
651	32518	R.K.SYSTRONICS PRIVATE LIMITED
652	32524	ESUN BUILDERS PRIVATE LIMITED
653	32534	SRI RAJESWARI CHITS PRIVATE LIMITED
654	32542	GIANT BLUEMETALS PRIVATE LIMITED
655	32543	NEWTON INOUSTRIAL DEVELOPMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
656	32548	MAK MANAGEMENT SERVICES LIMITED
657	32554	AAISHMA HOSPITAL AND HEALTH CARE LIMITED
658	32560	MULTIPLE AGRO-TECH LIMITED
659	32561	HILL QUEEN HOTELS PRIVATE LIMITED
660	32562	MARS HARDWARES PRIVATE LIMITED
661	32569	GREEN HEAVEN BUILDERS AND DEVERLOPERS PRIVATE LIMITED
662	32571	GREEN HEAVEN HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
663	32574	RASME HOLDINGS PRIVATE LIMITED
664	32581	AGROSKAP BIOFUELS PRIVATE LIMITED
665	32593	JMC PROMOTERS PRIVATE LIMITED
666	32615	RATHINAVEL SUBRAMANIAM CHITS PRIVATE LIMITED
667	32616	RATHNAVEL SUBRAMANIAM FINANCE PRIVATE LIMITED
668	32648	SIGNAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
669	32659	ARCH HI-TECH COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
670	32672	QUICK MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
671	32676	MAYOPURA HOLY RESORTS PRIVATE LIMITED
672	32688	SRISIVA TRAVELS & BUSINESS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
673	32692	AMBASSADOR LEASING AND FINANCE LIMITED
674	32707	DIGVIJAY MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
675	32711	PEGASUS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
676	32720	FREQUENCY MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
677	32735	YOGAM FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
678	32744	MBRN IMPEX PRIVATE LIMITED
679	32750	SILAM EVANGELICAL MISSION PRIVATE LIMITED
680	32756	RAMAJAYAM BUILDERS LIMITED
681	32763	VKV HILL GARDEN PRIVATE LIMITED
682	32778	J.R.V.S. FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
683	32781	CRYSTAL BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
684	32796	SHIMLA STEEL AND ALLIED PRIVATE LIMITED
685	32800	AKSHITHA GARMENTS PRIVATE LIMITED
686	32802	ANNAI CHINTHA MARKETING PRIVATE LIMITED
687	32812	RADUM WEATHER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
688	32813	SAINAD SEA FOODS PRIVATE LIMITED
689	32814	EALLAM VALLAN BENEFIT FUNDS LIMITED
690	32822	A.C.FINANCE MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
691	32823	GOLDEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
692	32835	IMPACT COMPUTERS PRIVATE LIMITED
693	32876	REHM IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
694	32887	ESSEM GREEN WORTH PRIVATE LIMITED
695	32891	DO-WEL ACADEMY FOR ECO TOURS AND ADVENTURE SPORTS LIMITED
696	32897	JVR FARM RESORTS PRIVATE LIMITED
697	32907	THENI OM SAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
698	32919	VGM GOAT FARM PRIVATE LIMITED
699	32920	CLIFF ENGINEERING PRIVATE LIMITED
700	32929	R.D.TRADELINKS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
701	32932	GK INVESTMENT RESEARCH INDIA PRIVATE LIMITED
702	32939	ROYAL TEAK AND AGRO PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
703	32945	PICHAVARAM GOLDEN AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
704	32955	MMR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
705	32959	ARMS MARKETING PRIVATE LIMITED
706	32960	AGNI METALS PRIVATE LIMITED
707	33008	AMERISAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
708	33014	SHELDON BLUE METALS PRIVATE LIMITED
709	33016	KAREN BLUE METALS PRIVATE LIMITED
710	33025	WAVES COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
711	33029	HIGH POWER ELECTRICALS INDIA PRIVATE LIMITED
712	33032	SRIPURAM BENEFIT FUND LIMITED
713	33051	JBR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
714	33057	SJ PROMOTERS LIMITED
715	33060	E C B AGRO FARMS LIMITED
716	33069	SRI AYYANAR SPINTEX PRIVATE LIMITED
717	33074	VISHVASH CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
718	33075	TALENT INVESTMENTS & FINANCIALS PRIVATE LIMITED
719	33079	SOUTHERN TAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
720	33088	SRI VENKATESWARA BENEFIT FUND LIMITED
721	33089	NMK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
722	33091	NMK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
723	33095	CLAIRVOYEE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
724	33097	LATHAS TEXTILES LIMITED
725	33121	D.P.BITMATE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
726	33126	THENI SRI ANGALAESWARI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
727	33143	GRANDEUR SURVEYORS PRIVATE LIMITED
728	33152	MICROFINE MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED
729	33160	QUANTUM IDEAS & SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
730	33169	S.B.A.CHITS PRIVATE LIMITED
731	33176	MADRAS GENERAL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
732	33194	SREE INVESTMENTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
733	33220	SOLANCI FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
734	33222	ANCO MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
735	33229	KALAKRITI IMPORTS PRIVATE LIMITED
736	33237	SAKALYA EXPORTS PRIVATE LIMITED
737	33239	SHREE KARPAGAVINAYAGAR STOCK & SHARES LIMITED
738	33261	ROLA AGROTECH FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
739	33304	POOVULAGIN NANBARGAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
740	33306	GHENJI GRANITES PRIVATE LIMITED
741	33342	ADULATH FABRIC PRIVATE LIMITED
742	33352	PARIMALESWARAR FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
743	33355	AJT SECURITIES PRIVATE LIMITED
744	33363	SRI RAASI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
745	33368	GANGA KAVERI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
746	33375	WATAN FASHIONS PRIVATE LIMITED
747	33392	ABIRA EXPORTS PRIVATE LIMITED
748	33421	WINFRED ASSOCIATES EXIM PRIVATE LIMITED
749	33445	BUCHANAN CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
750	33477	EMAYAM CREDITS AND INVESTMENTS CO PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
751	33478	P R K FINANCE PRIVATE LIMITED
752	33495	VR STONES PRIVATE LIMITED
753	33508	MOHTA FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
754	33536	BALASAI SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
755	33542	KALANGI INVESTMENTS AND SECURITIES LIMITED
756	33547	FU GEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
757	33554	PERFIX ENGINEERING PRIVATE LIMITED
758	33559	KRISH DATA (INDIA) PRIVATE LIMITED
759	33587	NANDINI DIARY & AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
760	33607	UNICARD MARKETING CBE PRIVATE LIMITED
761	33627	QUINTESSENCE MULTI MEDIA PRIVATE LIMITED
762	33629	SAGA KNITTING PRIVATE LIMITED
763	33639	CLASSIC SUPERMARKET PRIVATE LIMITED
764	33641	FASHION COSMTICS PRIVATE LIMITED
765	33651	GAY FINSER CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
766	33659	ANBUBHAV INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
767	33661	A J INFORMATIONS PRIVATE LIMITED
768	33666	SUNTRAN FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
769	33667	SUNTRAN CHITS PRIVATE LIMITED
770	33672	ASISWARYA CREATIONS PRIVATE LIMITED
771	33674	COSMOS FOREST LIMITED
772	33703	ROYAL FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
773	33719	AAT CERMICS PRIVATE LIMITED
774	33733	GEESEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
775	33734	GEE DEE HI TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
776	33743	ANJANEYA PETROLEUM COMPANY LIMITED
777	33746	CONTRAST ADVERTISING & DESIGNING AGENCIES PRIVATE LIMITED
778	33762	LONGMEN TRADING INDIA LIMITED
779	33773	CATTLE CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
780	33779	SUBISH PLASTIC PRIVATE LIMITED
781	33789	ANUGRAHA GOAT FARM PRIVATE LIMITED
782	33815	THIRUMAGAL LEASING LIMITED
783	33843	TROPICANA SOFTWARE LIMITED
784	33854	ELIM HOUSING AND ESTATES PRIVATE LIMITED
785	33863	RHINOZ IMPEX PRIVATE LIMITED
786	33865	KAMALA SHANMUGA FINANCE PRIVATE LIMITED
787	33870	MADURAI VINAYAKA WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
788	33874	ANNAI GARDEN PRIVATE LIMITED
789	33878	VAIGAI CEMENTS PRIVATE LIMITED
790	33882	IBHAR FASHIONS PRIVATE LIMITED
791	33906	JOTHI IND FIN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
792	33908	SEMMEEN CHITS PRIVATE LIMITED
793	33910	SILVER HAMMER IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
794	33920	VASSTU HOMES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
795	33960	HINDUSTAN CHITS PRIVATE LIMITED
796	33979	RIGHT CHOICE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
797	33982	MERLIN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
798	34001	DIGITAL CHANNELS INDIA PRIVATE LIMITED
799	34005	DYANACO COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
800	34016	SUGAN EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
801	34031	GOLDEN WING ADS PRIVATE LIMITED
802	34037	SRI AKILA FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
803	34039	KISMAT INVESTMENT & LEASING PRIVATE LIMITED
804	34044	SANGAMITHIRAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
805	34060	OSMANIC OIL MILL PRIVATE LIMITED
806	34063	PAM ESTATES PRIVATE LIMITED
807	34065	KALIMA TRAVEL SERICES PRIVATE LIMITED
808	34069	C N A SOFT VISION PRIVATE LIMITED
809	34071	TECHNO TRACING INDIA PRIVATE LIMITED
810	34079	TOPNOTCH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
811	34086	LEGEND ELECTRONIC PRIVATE LIMITED
812	34092	PALACE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
813	34094	GEETH SAGAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
814	34097	TRICHY CATTLE FARAMS PRIVATE LIMITED
815	34108	SRI MOOKAMBIKAS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
816	34112	SWATHI SPICES AND CONDIMENTS LIMITED
817	34141	VET FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
818	34143	MEEZAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
819	34146	PRIYADEEP FINANCE AND INVESMENTS PRIVATE LIMITED
820	34170	SUNSHINE HEALTH FOODS PRIVATE LIMITED
821	34172	MANI MANI HOUSING PRIVATE LIMITED
822	34176	JET HOLIDAY TOURS INDIA PRIVATE LIMITED
823	34177	MACRO CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
824	34199	SUN FRUIT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
825	34217	BHAGAT MINERALS PROCESSING COMPANY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
826	34237	VIJAYLAXMI FLORITECH PRIVATE LIMITED
827	34256	GVR FOUNDATION PRIVATE LIMITED
828	34259	TRAVEL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
829	34292	SWIFT AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
830	34296	VEL PAPER PRODUCT PRIVATE LIMITED
831	34312	VIMEL AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED
832	34314	MOTHER INDIA GOAT FARMS PRIVATE LIMITED
833	34324	TRIDENT MEDICARE PRIVATE LIMITED
834	34373	EAST WEST AQUA VENTURES PRIVATE LIMITED
835	34377	DECCAN AIRLINES PRIVATE LIMITED
836	34399	ILLMORYA SCRIPS AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
837	34410	SAKTHIVEL ASSOCIATES ARCHITECTURE INDIA PRIVATE LIMITED
838	34411	SRI KALIGAMBAL AGRO GOAT FARM PRIVATE LIMITED
839	34424	JEYAS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
840	34435	SREE VAIDYANATHA TEXTILES PRIVATE LIMITED
841	34484	V G HOMES PRIVATE LIMITED
842	34499	AARBE INFOTECH PRIVATE LIMITED
843	34505	J R MAINE FABRICS PRIVATE LIMITED
844	34528	SARAVANA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
845	34532	ALPHA CADD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
846	34534	GEORGE BROS FLAT PROMOTERS PRIVATE LIMITED
847	34581	ZION FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
848	34847	SHAKTHI INSTITUTE OF HOUSEKEEPING PRIVATE LIMITED
849	34863	SUNDAR CHITS MADRAS PRIVATE LIMITED
850	34866	PLEASANT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
851	34872	SANGUINO MEDI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
852	34873	RAJDAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
853	34879	GRAMS STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
854	34880	TAMIL PANDIYAN CHITS TRICHY PRIVATE LIMITED
855	34890	EMKAY TRAVELS PRIVATE LIMITED
856	34892	TAMILNADU THERMOPLAST PRIVATE LIMITED
857	34897	BLUEMOUNT AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
858	34904	ARAFAA (INDIA) FARMS PRIVATE LIMITED
859	34906	MABEL FARMS PRIVATE LIMITED
860	34907	CANAAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
861	34930	J K DECOILERS PRIVATE LIMITED
862	34948	APMACA INFOTECH PRIVATE LIMITED
863	34949	BHARGAVAA MULTIMEDIA INFOSYS PRIVATE LIMITED
864	34952	DMR LEATHERS PRIVATE LIMITED
865	34956	VALAR HOMES PRIVATE LIMITED
866	34957	SHREE SHANKESHWARA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
867	34959	AARUDHRA PLASTICS PRIVATE LIMITED
868	34960	AHANA SECURITIES PRIVATE LIMITED
869	34974	J A J TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
870	34982	ANNAIKANI FINANCE PRIVATE LIMITED
871	34983	INDD ASIAN STEELS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
872	34992	CUMBUM ANNAI AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED
873	34996	CHAKRA APPARELS PRIVATE LIMITED
874	35032	MA CONTACT CLUB PRIVATE LIMITED
875	35039	DHANWANTRI MEDICAL RESEARCH INSTITUTE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
876	35041	VEETEC PHARMA PRIVATE LIMITED
877	35127	ZOOM VISION PRIVATE LIMITED
878	35141	HAWK ENGINES PRIVATE LIMITED
879	35268	DEVAKI EXPORTS PRIVATE LIMITED
880	35602	CMS SHIPPING PRIVATE LIMITED
881	35613	C.P.N.CHIT PRIVATE LIMITED
882	35615	HITECH LAMPS PRIVATE LIMITED
883	35618	PERAMBUR POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
884	35625	MONACH ENGINEERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
885	35627	FIDEE FILTER PRIVATE LIMITED
886	35631	SAAR EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
887	35632	QUALITY CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
888	35640	DINESH KNITWEAR GARMENTS PRIVATE LIMITED
889	35656	ATLANTIC COURIERS PRIVATE LIMITED
890	35668	ASWIN KNITWEARS EXPORTERS PRIVATE LIMITED
891	35669	ARUL TRADES & EXPORT PRIVATE LIMITED
892	35678	ROMALA EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
893	35680	SACHIYA SYNTEX PRIVATE LIMITED
894	40021	SHRIDI SAI MAHARAJ MARKETING SERVICES EXCHANGE PRIVATE LIMITED
895	40023	VISHAL CLOTHINGS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
896	40037	JAYANTHI HOTELS PRIVATE LIMITED
897	40040	KVR FOODS AND SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
898	40088	SUCCESS POLYMERS INDIA PRIVATE LIMITED
899	40124	PERFECT LINK SERVICES PRIVATE LIMITED
900	40140	KADIRAVAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
901	40145	PRIYA ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
902	40146	SHRIDI ANDAVAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
903	40251	HAPPY RESIDENCY PRIVATE LIMITED
904	40350	ANN CHERIAN'S TRAVEL HOUSE PRIVATE LIMITED
905	40400	CYBER SERVICES PRIVATE LIMITED
906	40402	CAITANYA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
907	40403	A.R.HOUSING AND AGRO FARM PRIVATE LIMITED
908	40410	ARR THAMPOOL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
909	40411	RAYSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
910	40413	VESTA MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED
911	40419	THILLAI TEXTILES PRIVATE LIMITED
912	40424	HOTEL SRIRAM NALLAMANI PRIVATE LIMITED
913	40436	P.G.HIGH VALUE AGROTECH PRIVATE LIMITED
914	40448	LOTUS PAINTS PRIVATE LIMITED
915	40478	VIMGRAASS SHIPPING SERVICE PRIVATE LIMITED
916	40479	PRASANNA IMPORTERS & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
917	40483	GEE CEE AGENCIES PRIVATE LIMITED
918	40493	TV MEDIA MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
919	40495	OMEGA MARITECH EXPORTS PRIVATE LIMITED
920	40498	CHENNAI TELEWORKING SERVICES PRIVATE LIMITED
921	40546	VISAGAM CONSTRUCTIONS & CONTRACT PRIVATE LIMITED
922	40547	PRITHIPAL HI-TECH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
923	40569	CERTIFIED MARKETING SERVICES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
924	40584	CUSTOSS FINLEASE PRIVATE LIMITED
925	40644	INTELLIGENCE FOR GENERATING ADVANCE COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
926	40671	VISHAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
927	40673	A.G.P. FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
928	40702	INDUSSAKTHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
929	40714	VICTORY TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
930	40753	RELIANT MANPOWER EXPORTS PRIVATE LIMITED
931	40759	EDNET INFOTECHS PRIVATE LIMITED
932	40767	TSE SHOES PRIVATE LIMITED
933	40824	VENKATESWARA PHONES PRIVATE LIMITED
934	40973	AMBADI DAIRY PRIVATE LIMITED
935	42476	SUPER PAX INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
936	44000	CR MICROTOUCH POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
937	44036	LINX NETWORKS PRIVATE LIMITED
938	44040	WEB COMPUTERS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
939	44043	CENTUM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
940	44237	SUNDARAGANAPATHY CHITS PRIVATE LIMITED
941	44416	JADE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
942	44480	BROADBAND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
943	44673	ELSR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
944	44676	OMEGA SIGNALMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED
945	44687	MATTU SONS EXPORTS PRIVATE LIMITED
946	44688	VETRI MARUTHI POLYMERS PRIVATE LIMITED
947	44695	CLARABENS CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
948	44697	TRUENET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
949	44703	SRI YEM TEX PRIVATE LIMITED
950	44709	CORONATION PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
951	44713	TYCOON PRODUCTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
952	44729	DOCTNET PRIVATE LIMITED
953	44730	AUROBIN SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
954	44734	MEEKAMANDAPAM K.P.S. FINANCE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
955	44740	PRIYA SHELTERS PRIVATE LIMITED
956	44743	SRI VIDYALAKSHMI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
957	44753	R.R.N AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
958	44785	NISTEMS LOGISTICS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
959	44786	SUKADEV DECCAN PHARMA PRIVATE LIMITED
960	44797	YAMI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
961	44798	ARUHU EXPORTS PRIVATE LIMITED
962	44822	MALIK TIMES PRIVATE LIMITED
963	44836	USHODAYA IMPEX PRIVATE LIMITED
964	44838	SHOLINGUR DYEING EFFLUENT TREATMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
965	44840	TWO STAR GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
966	44843	KALAIMAGAL COACH PRIVATE LIMITED
967	44850	PASUPATHI DAIRIES PRIVATE LIMITED
968	44866	JUMP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
969	44872	PRICE MEDIA PRIVATE LIMITED
970	44876	VIJAIADITYA METALS PRIVATE LIMITED
971	44882	QUALITY QUEST EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
972	44884	SREE VANI STEEL & FORGINGS PRIVATE LIMITED
973	44892	THIRD MILLENNIUM COMPUTERS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
974	44898	JESMARIA HOTELS PRIVATE LIMITED
975	44900	INDOPELL LEATHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
976	44908	JAGA VARNAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
977	44921	M-DIRECT INDIA MARKETINGG COMPANY PRIVATE LIMITED
978	44958	ERL SOLUTION PRIVATE LIMITED
979	44976	ORDERONNET.COM PRIVATE LIMITED
980	44993	THREE TIER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
981	44999	PORTAL POTENTIAL.COM PRIVATE LIMITED

D. SURYANARAYANA
Asst. Registrar of Companies
Tamilnadu, Chennai

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies

Chennai-6, the 27th September 2007

No. 14016 To 40920/560 (3)/Suo Motto-2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved.

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1	14016	C T HEAT AND MASS PRIVATE LIMITED
2	14039	SIVA GANGA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
3	14053	MOTI FISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
4	14069	YOU AND ME CONSUMERS SERVICES PRIVATE LIMITED
5	14077	PRIYADARSHINI CHITS PRIVATE LIMITED
6	14103	K.B.SUBRAMANIAM & ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
7	14106	ENNJAY FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
8	14113	LOTUS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
9	14118	CHAKRA HOMEMAKERS PRIVATE LIMITED
10	14126	KAILASH GRANITES PRIVATE LIMITED
11	14140	LUXMI MOROKS PRIVATE LIMITED
12	15110	MOHNOT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
13	15114	SILVERSHIP REAL ESTATE CO PRIVATE LIMITED
14	15117	GREENSEAS SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED
15	15119	KISGO SHOES PRIVATE LIMITED
16	15128	KARGO WINGS PRIVATE LIMITED
17	15143	BOJAZ BOATS PRIVATE LIMITED
18	15147	KARAIKUDI TEXTILES PRIVATE LIMITED
19	15150	MERCURY HOUSING DEVELOPMENT FINANCE AND INVESTMENT LIMITED
20	15191	CHEM PEC PRODUCT PRIVATE LIMITED
21	15226	RUDRHAM PLASTICS PRIVATE LIMITED
22	15242	VASAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
23	15243	LION OIL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
24	15249	SOUTHERN CARBIDES & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
25	15251	AMARAVATHY ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
26	15252	VIDCAM CAMERA AND ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
27	15295	TOP-STICH PRIVATE LIMITED
28	15311	VEE JAY COMMERCIAL CREDITS PRIVATE LIMITED
29	15312	KANGAROO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
30	15409	SUBARAGAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
31	15411	ANNAMALAIYAR GENERAL AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
32	15446	G.B.MINERALS AND METALS PRIVATE LIMITED
33	15447	KAND & SURI LEATHERS PRIVATE LIMITED
34	15449	DELTA BROILER FARM PRIVATE LIMITED
35	15452	SKYLINE COURIERS PRIVATE LIMITED
36	15454	TRINITY SPORTS PRIVATE LIMITED
37	15473	OCEAN BLUE SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
38	15530	ASHVIN MEDICALS PRIVATE LIMITED
39	15620	SARATHY ORGANICS PRIVATE LIMITED
40	15631	RANKS GRAPHICS PRIVATE LIMITED
41	15634	OM-IND ELECTRICAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
42	15640	SRI LAXMI ORNAMENTS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
43	15677	ENRICHED CHEMICALS AND REFINERY PRIVATE LIMITED
44	15685	CENTURY DETECTIVE AGENCY PRIVATE LIMITED
45	15694	CHENDUR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
46	15729	ACADEMIC SCIENTIFIC TECHNICAL PUBLISHERS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
47	15732	MANGAL CHIT FUND PRIVATE LIMITED
48	15762	OASIS VIDEOTRONICS PRIVATE LIMITED
49	15831	MEDISONICS PRIVATE LIMITED
50	15838	ADITYA MULTI WALL SACKS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
51	15867	VIDEO BANK PRIVATE LIMITED
52	15869	TEJ FASHIONS PRIVATE LIMITED
53	15870	NEELS TECHNO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
54	15877	MURALI MARINE ANCILLARIES PRIVATE LIMITED
55	15878	GANGADHARAN SPINNING MILL PRIVATE LIMITED
56	15884	S.M. ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
57	15909	EMAYAM CHITS PRIVATE LIMITED
58	15910	YOGAMBIGAI PULVERISERS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
59	15917	INTER ED SERVICES PRIVATE LIMITED
60	15919	SRI GANESH LITHO PRINTS PRIVATE LIMITED
61	15945	LEX SHOES PRIVATE LIMITED
62	15946	MACABEES EXPORTS PRIVATE LIMITED
63	15968	GALAXY BATTERY PRIVATE LIMITED
64	15973	SUNSHINE ABRASIVE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
65	15974	ROHINI MARKETING PRIVATE LIMITED
66	16017	ARYA GALVANISING PRIVATE LIMITED
67	16018	BEHERE TOOLS PRIVATE LIMITED
68	16021	ANANTHA FINANCE PRIVATE LIMITED
69	16024	PONNI VALANADI FOODS PRIVATE LIMITED
70	16043	TRICHY TANNING COMPANY PRIVATE LIMITED
71	16044	BARR PACKS PRIVATE LIMITED
72	16048	ART CINEMATOGRAPHY GLORIOUS DEVELOPMENT FILMS PRIVATE LIMITED
73	16064	SRI SAILAM AIRCON PRIVATE LIMITED
74	16081	SHORELINE TRADERS PRIVATE LIMITED
75	16084	SUYAMENDHER INVESTMENT PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
76	16085	INTAN CHEMS PRIVATE LIMITED
77	16087	VIJAYA ADITHYA SOH SENG ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
78	16092	PACE DRUGS AND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
79	16152	PRARTHANA FINANCE PRIVATE LIMITED
80	16201	ZENEX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
81	16244	SELECT TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
82	16253	NELLAI TRADING AGENCIES PRIVATE LIMITED
83	16254	KALPAK CHEMICALS PRIVATE LIMITED
84	16257	SHUTTLE COURIER PRIVATE LIMITED
85	16258	SRI MEENAKSHI FISHERIES PRIVATE LIMITED
86	16260	SUJATHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
87	16262	SRI MARUDHAKESARI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
88	16262	SRI MARUDHAKESARI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
89	16270	SUNJEETH LOOMS PRIVATE LIMITED
90	16297	RAKHEE GRANITE (INDIA) PRIVATE LIMITED
91	16344	SUPREME VIDEO PRIVATE LIMITED
92	16347	MADRAS LEATHER GARMENTS EXPORTERS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
93	16383	MERC HOSPITALS LIMITED
94	16439	GOODWILL SHOES PRIVATE LIMITED
95	16445	HITECH ADDITIVES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
96	16462	ROYLUX COMPUTERS PRIVATE LIMITED
97	16470	SE-SAT MANUFACTURERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
98	16485	THANJAI FISHERIES COMPANY PRIVATE LIMITED
99	16488	TAMILNADU WIRE SALES PRIVATE LIMITED
100	16491	LALITH POLYPACKS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
101	16499	SAUTO FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
102	16529	APEX AQUA FARM PRIVATE LIMITED
103	16534	RAMKRIBHA FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
104	16539	EVERGROW ENGINEERING CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
105	16540	EMBRYONICS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
106	16548	KEYEM INDUSTRIAL VALVES PRIVATE LIMITED
107	16721	MATRIX ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED
108	16762	SINETAX COMPUTER DEVICES PRIVATE LIMITED
109	16769	PURUSHOTTAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
110	16808	POLYMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
111	16825	R.J.GLASS & PRINTS PRIVATE LIMITED
112	16826	SYSTEMS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
113	16829	BALASARAVANA CHITS COMPANY PRIVATE LIMITED
114	16831	SRI ARUL MURUGAN FINANCE PRIVATE LIMITED
115	16832	SANTHNAM SAREES N C PRIVATE LIMITED
116	16869	REDHEX CORROSION CONTROL PRIVATE LIMITED
117	16891	BALAJI SPONGE IRON PRIVATE LIMITED
118	16966	EXTRUPLAST PRIVATE LIMITED
119	17053	TULIP BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
120	17072	M.K. FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
121	17123	INDIAN LIQUID GAS PRIVATE LIMITED
122	17189	HANSHEL TUBES AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
123	17204	AAPPOLLO VALVE PRIVATE LIMITED
124	17206	SWAGATH LEATHERS PRIVATE LIMITED
125	17226	HERITAGE WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
126	17303	AMMA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
127	17307	PEARL FISHNETS PRIVATE LIMITED
128	17324	SRI CHAKRA RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
129	17326	VEENA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
130	17327	PLASTIC FANS PRIVATE LIMITED
131	17342	VEDIC OUSHADALAYA PRIVATE LIMITED
132	17371	INDUSTRIAL CLOTHING COMPANY (MADRAS) PRIVATE LIMITED
133	17388	ALAVI EXPORTS PRIVATE LIMITED
134	17467	A.K.G. CINE ARTS PRIVATE LIMITED
135	17477	FOUNDATION ENGINEERING & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
136	17478	TRANS ALUMINIUM CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
137	17484	STELLER BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
138	17496	BUILDING INVESTMENT AND DEVELOPMENT SYNDICATE PRIVATE LIMITED
139	17519	S P SALVNTS PRIVATE LIMITED.
140	17525	CITY REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED.
141	17530	SHRI HYAGREEVA HOUSING PRIVATE LIMITED.
142	17533	FLORENTINE AGRO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
143	17552	SHIVASANKARA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
144	17553	BHAKTHI LEASING FUNDS LIMITED
145	17568	SREE KAMAKSHI TILES AND MONUMENTS PRIVATE LIMITED
146	17618	SAFARI PACK PRIVATE LIMITED
147	17660	SRI PALANIAPPA FINANCE (MADRAS) PRIVATE LIMITED
148	17671	TUNGABHADRA L.P.C. AGENCIES PRIVATE LIMITED
149	17672	ACETEK SHOES PRIVATE LIMITED
150	17772	H.T. AND SONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
151	17791	ALMIGHTY POLYMERS AND RUBBERS PRIVATE LIMITED
152	17796	RAMAKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED
153	17802	RICH ROCKS INDIA LIMITED
154	17830	GEEAAR MANAGEMENT AND FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
155	17846	GAUTHAM PUBLICITIES PRIVATE LIMITED
156	18262	LASER GRAPHICS REPRO CENTRE PRIVATE LIMITED
157	18270	PHARMA HUVET PRIVATE LIMITED
158	18293	VISHVAK SEVA FINANC AND INVESTMENTS LIMITED
159	18310	VIGNESHWAR COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
160	18406	EBENEZER STEELS PRIVATE LIMITED
161	18417	SANTA INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
162	18425	S R K FINE DRUGS PRIVATE LIMITED
163	18429	SRI RAMACHANDRA CATTLE FEED INDUSTRY PRIVATE LIMITED
164	18495	AUROSHIKA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
165	18498	AUROMA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
166	18501	LEATHER ARTS PRIVATE LIMITED
167	18520	STAR ELEVATORS & EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
168	18525	PRAGMATIC EXIMPO PRIVATE LIMITED
169	18529	VISHNU PRIYA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
170	18538	BRIGHTWAY MARKETING PRIVATE LIMITED
171	18573	CHOLAPURAM ROADLINES PRIVATE LIMITED
172	18575	MADRAS INSTITUTE OF PSYCHOLOGICAL MEDICINE PRIVATE LIMITED
173	18590	SOUTHERN MILLING SYSTEMS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
174	18653	TELESCAN ART CREATORS PRIVATE LIMITED
175	18712	SHANKHARA APPLIANCES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
176	18886	MEHER-HAM SHOES PRIVATE LIMITED
177	18893	DEVI SOLVENT EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
178	18895	LETRAGRAFI SIGNS PRIVATE LIMITED
179	18900	ARUN LEO SHOES PRIVATE LIMITED
180	18963	OM VEL FUNDS PRIVATE LIMITED
181	18965	SRI ANUSHAM COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
182	18992	AMBIKA FLOORING TILES PRIVATE LIMITED
183	19018	CHINTADRI PET FINANCE PRIVATE LIMITED
184	19062	INVOLUTE HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
185	19113	BALAJI LEATHER FASHIONS PRIVATE LIMITED
186	19119	JINNAH STEEL & ALLOYS LIMITED
187	19548	WEDGE AUTO BULBS PRIVATE LIMITED
188	19582	CLASS SHOES CO. (MADRAS) PRIVATE LIMITED
189	19670	BEEHIVE TOOLS PRIVATE LIMITED
190	19694	BENAR SHIPPING & CLEARING AGENCY PRIVATE LIMITED
191	19760	FIBRE BOND POLYESTERS PRIVATE LIMITED
192	19777	SRI THILLAI VENKATESWARA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
193	19872	SURASHRI GRANITES PRIVATE LIMITED
194	19968	SOUTHERN TOOLS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
195	20053	RAJADURGA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
196	20054	S.K. PACKERS PRIVATE LIMITED
197	20163	BENGAL PEARL SHIPPING PRIVATE LIMITED
198	20170	JAMANI PAPER BOARDS PRIVATE LIMITED
199	20172	GALAXY FORGING & METAL CONVERTORS PRIVATE LIMITED
200	20201	DYNA DETERGENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
201	20202	DIVYA PACKAGING SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
202	20203	DECAN ROADWAYS PRIVATE LIMITED
203	20220	VIRTUAL SYNETICS PRIVATE LIMITED
204	20268	VKAS LEATHERS PRIVATE LIMITED
205	20273	DEUTSCHE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
206	20288	LAUREL AGENCIES PRIVATE LIMITED
207	20292	RESEARCH AND MEDIA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
208	20294	JENSAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
209	20301	RAJA ESTATES AND INVESTMENTS LIMITED
210	20324	NDR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
211	20448	GANESH VALLEY TEA PRIVATE LIMITED
212	20517	ANUSHKA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
213	20518	BANSAL CHEMLINE (INDIA)PRIVATE LIMITED
214	20519	K.S.M.TEXTILES (MADURAI) PRIVATE LIMITED
215	20530	GAJANAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
216	20531	E I T INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
217	20536	GAUTAM PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
218	20572	IMPERIAL STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED
219	20574	SILICKON SOFT PRIVATE LIMITED
220	21144	OHM SAKTHI OXYGEN PRIVATE LIMITED
221	21152	AARYAS LEASING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
222	21172	MANSFIELD CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
223	21177	SOUTHERN FASHIONS PRIVATE LIMITED
224	21202	KARTHICK FISHERIES PRIVATE LIMITED
225	21326	TECOATS (INDIA)PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
226	21327	RAJDHARSANS LEATHERS PRIVATE LIMITED
227	21332	GOWRISHANKER FARMS PRIVATE LIMITED
228	21359	NEW ERA TEXTILES LIMITED
229	21374	BYTE WRITE DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
230	21393	ALEEM & IQBAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
231	21411	MADRAS MOVIE LIGHTS PRIVATE LIMITED
232	21451	OPTIMA DATA LOGIC PRIVATE LIMITED
233	21452	DHANADHARA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
234	21453	RENGA CHITS PRIVATE LIMITED
235	21458	SRI RANGA GARMENTS PRIVATE LIMITED
236	21466	CAREWELL HOMES PRIVATE LIMITED
237	21467	RAMVEE INVESTMENT AND HIREPURCHASE CO.PRIVATE LIMITED
238	21480	UTHAM BUILDERS PRIVATE LIMITED
239	21483	HADON PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
240	21484	VAISHNAVI HOME PRODUCTS AND APPLIANCES PRIVATE LIMITED
241	21487	TRINITY SYSTEMS AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
242	21488	ADHARAM ADVERTISING PRIVATE LIMITED
243	21491	AMMIRAJU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
244	21493	PAMS PLASTIK PRIVATE LIMITED
245	21502	SRI RANGA TIMBERS PRIVATE LIMITED
246	21553	SUJDAG EXPORTS PRIVATE LIMITED
247	21650	DHIAZ CONSTRUKTION EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
248	21667	NEW BHARATH SHOES PRIVATE LIMITED
249	21675	INTER-ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
250	21691	SVS ROCKIN STYLES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
251	21698	SHERWOOD GRANITE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
252	21752	EMMEL GRAPHIC PRIVATE LIMITED
253	21753	HORIZON CRAFTS EXPORT PRIVATE LIMITED
254	21788	SILVER COLOR LAB PRIVATE LIMITED
255	21822	BVM RESORTS COMPLEX PRIVATE LIMITED
256	21831	SRI KUMARAN CHITS (MADRAS)PRIVATE LIMITED
257	21848	VIJAYASRI HOUSING AND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
258	21869	ALMAC ELECTRONICS & SYSTEMS (INDIA)PRIVATE LIMITED
259	22012	ANYTIME FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
260	22013	ARGUS SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
261	22019	OVERSEAS MERCANTILE PRIVATE LIMITED
262	22024	RIPRO LEATHERS PRIVATE LIMITED
263	22025	HANIFFA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
264	22034	SALESIAN DATA FORMS PRIVATE LIMITED
265	22037	SRI VADUVAMBIGAI TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
266	22061	MENIYER IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
267	22066	SUBHSHREE INVESTMENTS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
268	22084	TERI WEAVES (INDIA)PRIVATE LIMITED
269	22132	SRI SHAKTHI SAI EDIBLES PRIVATE LIMITED
270	22138	THIRUVENGADAM FINANCE PRIVATE LIMITED
271	22156	PUSHPAVALLI FORMS PRIVATE LIMITED
272	22179	SRIPATHY CHITS MADRAS PRIVATE LIMITED
273	22183	ULTIMATE AIRFREIGHT PRIVATE LIMITED
274	22186	ANDISHWARA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
275	22188	NAGAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
276	22189	JAMES-NORTON MACHINES PRIVATE LIMITED
277	22190	STELLA MARIS SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
278	22198	YOGAM REAL ESTATES & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
279	22202	INJAPNEED GERITA EXPORTS PRIVATE LIMITED
280	22203	NIDHIPRIYA CHITS PRIVATE LIMITED
281	22204	PRABHAT TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED
282	22205	TIRUMALA HOSIERIES PRIVATE LIMITED
283	22206	GLIT GRANITE PRIVATE LIMITED
284	22215	VICTORY MOVIES PRIVATE LIMITED
285	22265	CONSOLIDATED APPARELS PRIVATE LIMITED
286	22267	ESGEE ALLOY CASTINGS PRIVATE LIMITED
287	22271	GNR TRADING PRIVATE LIMITED
288	22273	TREMENDOUS LEDER PRIVATE LIMITED
289	22276	A&E TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
290	22282	ABIRAMI SURFACTS PRIVATE LIMITED
291	22285	AVR-BHARATH TRADERS PRIVATE LIMITED
292	22286	KL&M CHEMICALS PRIVATE LIMITED
293	22287	VARJITHA HOSIERIES PRIVATE LIMITED
294	22338	JEFFCOATES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
295	22339	CIVITAS SHOE AND LEATHER PRIVATE LIMITED
296	22342	VINTAGE INN HOTELS PRIVATE LIMITED
297	22353	PARAMOUNT RUBBER PRIVATE LIMITED
298	22372	EXCO (INDIA) PRIVATE LIMITED
299	22383	PALK BAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
300	22386	SAL SABIL EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
301	22393	MONIEGUE APARELS PRIVATE LIMITED
302	22437	NEYVELI CHITS PRIVATE LIMITED
303	22438	DILIGENT FINANCE PRIVATE LIMITED
304	22443	KRISH MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
305	22448	GOWELL GARMENT PRIVATE LIMITED
306	23011	HONEYWELL PACKAGING PRIVATE LIMITED
307	23014	NAVAN ROAD TECHS PRIVATE LIMITED
308	23024	T.D.S.BUILDERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
309	23032	PREMIER TEAK FARM PRIVATE LIMITED
310	23043	LINGAM LEASING & FINANCING PRIVATE LIMITED
311	23044	SUNEJA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
312	23046	PROGRESSIVE PLANTATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
313	23073	HAUSER SHOES PRIVATE LIMITED
314	23129	TOP NOTCH FINANCIERS PRIVATE LIMITED
315	23133	SAKTHI LAKSHMI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
316	23155	TAMIL ARASI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
317	23190	CHENNAI ARC PRIVATE LIMITED
318	23210	DATAPUNCH SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
319	23213	TAMILNADU TEAK PRIVATE LIMITED
320	23215	SIVASAKTHI PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
321	23216	KAAMIZ TEX PRIVATE LIMITED
322	23260	ABERDEEN STEAMER AGENCIES INDIA PRIVATE LIMITED
323	23279	RAKESH EXIM PRIVATE LIMITED
324	23301	THENAMBIKA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
325	23323	JOINUS BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
326	23349	ROYAL AQUA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
327	23363	MERLIN HOTELS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
328	23388	SEVEN HILLS AGRO LIMITED
329	23396	THENI SHRI SAKTHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
330	23398	NOAH'S FISHERIES PRIVATE LIMITED
331	23399	SRI LADS CHITS PRIVATE LIMITED
332	23403	SRI RAMAJAYAM BENEFIT FUND LIMITED
333	23410	SRI GOWRI AMBIKA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
334	23411	SHRI SELVA THIRUPATHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
335	23415	CRUISER WRITING INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
336	23425	OPTIMAL ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
337	23426	MANI FINANCE & EXPORTS PRIVATE LIMITED
338	23428	SUKRA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
339	23433	RAJESWARI PACKAGING PRIVATE LIMITED
340	23441	SORNASAGAR HOUSING FINANCE LIMITED
341	23450	KANICA FINANCE PRIVATE LIMITED
342	23464	S.F.CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
343	23467	SARAN TOYS PRIVATE LIMITED
344	23468	DEITY EXPORTS PRIVATE LIMITED
345	23492	YAMIN EXPORTS PRIVATE LIMITED
346	23498	PRAGOSA VENTURES LIMITED
347	23501	KHANDHERI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
348	23507	KALPANA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
349	23514	TRISHUL GRANITE PRIVATE LIMITED
350	23515	KCR PLANTATIONS & RESORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
351	23518	J.J.MARINE PRODUCTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
352	23520	KUMARI GRANITES PRIVATE LIMITED
353	23531	ASCEND SALES PRIVATE LIMITED
354	23534	CIBI FINANCE PRIVATE LIMITED
355	23535	SAKTHYA MANIKANDAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
356	23537	RATNA ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
357	23539	COMDAT MICRO LOGIC PRIVATE LIMITED
358	23542	HOTEL MAHI (MADURAI) PRIVATE LIMITED
359	23545	UNITED CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
360	23548	ALLEGRO CONSULTANCY & MARKETING PRIVATE LIMITED
361	23549	KALYANA CHAKRAVARTHY TEXTILES PRIVATE LIMITED
362	23551	THARANI LEATHER EXPORT PRIVATE LIMITED
363	23560	MOSAAGA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
364	23565	VISHAL HOSPITAL EQUIPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
365	23567	K.R.V.POLYMERS PRIVATE LIMITED
366	23569	LECLANCHE ENGINEERING & RUBBER LININGS PRIVATE LIMITED
367	23571	HENNESSY INTERNATIONAL FOODS PRIVATE LIMITED
368	23572	GOOD WILL ELECTRICALS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
369	23574	SRI RAKAVENDRA GRANITE PRIVATE LIMITED
370	23577	SRI VENKATESWAR CHITS (THANJAVUR) PRIVATE LIMITED
371	23593	VISUAL PERCEPTIONS PRIVATE LIMITED
372	23608	BAKYALAKSHMI DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
373	23612	CARNITECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
374	23618	HORIZON HOSPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
375	23624	SUPERSUN RUBBERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
376	23626	ASMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
377	23628	RANKA STOCKS & SHARES PRIVATE LIMITED
378	23638	KURUNCHI GRANITE INDUSTRY PRIVATE LIMITED
379	23647	SRINGERI CHITS FUND PRIVATE LIMITED
380	23652	SPOT FINANCE PRIVATE LIMITED
381	23658	H.K.COSMOS EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
382	23660	AAA FAST GROWTH INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
383	23667	BRB TRADERS COMPANY PRIVATE LIMITED
384	23675	MAHI FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
385	23678	RAVIRAAG CHITS PRIVATE LIMITED
386	23682	SMP CHITS PRIVATE LIMITED
387	23683	G.T.RESORTS PRIVATE LIMITED
388	23691	BANU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
389	23715	GOLDEN CHIT FUNDS (KOVILPATTI) PRIVATE LIMITED
390	23719	NASI GRANITE PRIVATE LIMITED
391	23726	MADURA NEEDLES PRIVATE LIMITED
392	23738	GREAT MOGHAL CATERERS PRIVATE LIMITED
393	23741	BISMILLAH TRADERS PRIVATE LIMITED
394	23742	SPAN PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
395	23744	SOFIN CHITS COMPANY (MADRAS) PRIVATE LIMITED
396	23752	KPJP FINANCE PRIVATE LIMITED
397	23754	S.A.CHEMICAL AUTOMATION PRIVATE LIMITED
398	23791	WINGS AND WHEELS COURIERS PRIVATE LIMITED
399	23792	INTER DYNAMICS TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
400	23794	VICTORY HOUSE KEEPING SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
401	23804	MUTHURAJ SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
402	23859	IMAGE DYNAMICS PRIVATE LIMITED
403	23864	SAI SANGAM FASHIONS PRIVATE LIMITED
404	23874	S.S.P.FOODS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
405	23879	CLASSIC DATA FORMS PRIVATE LIMITED
406	23903	HELP THE POOR FOUNDATION
407	23911	AQUAA CONSULTANTS & CONSTRUCTIONS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
408	23917	UNION FARMS & RESORTS PRIVATE LIMITED
409	23935	SRI GAYATHRIDEVI CHITS PRIVATE LIMITED
410	23940	DHANAJOTHI EXPORTS PRIVATE LIMITED
411	23942	ASTON CONSULTANT SERVICE PRIVATE LIMITED
412	23945	GREENGROVE ESTATES PRIVATE LIMITED
413	23966	ARCOT SHREE KALAIMAGAL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
414	23975	EAST COAST PICNIC POINT PRIVATE LIMITED
415	23987	CHEMTRONS INDIA PRIVATE LIMITED
416	23990	SUGAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
417	23992	BOBINS CONFECTIONERY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
418	23995	HAYAGRIVA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
419	23996	TAPS PHARMA PRIVATE LIMITED
420	24008	ROHINI NAIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
421	24010	J.B.PACKAGING MACHINES PRIVATE LIMITED
422	24014	JAGAA CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
423	24041	ARUN KAVI TRAVELS PRIVATE LIMITED
424	24045	REJOICE RESORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
425	24050	ALL INDIA GLOVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
426	24058	CAD CAE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
427	24060	ANJANEYA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
428	24067	SUPERFISH EXPORTS PRIVATE LIMITED
429	24068	BAY OF BENGAL SEA FOODS PRIVATE LIMITED
430	24125	SEA ROCK TRADE-EXPO (MADRAS) PRIVATE LIMITED
431	24129	ANJALI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
432	24134	AMBROSIA FASHIONS PRIVATE LIMITED
433	24136	BARAKATH AND RAHMATH FARMS PRIVATE LIMITED.
434	24137	VBC FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
435	24151	SUBA PRADA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
436	24156	SWAGE LOCK INDIA PRIVATE LIMITED
437	24162	KARUMUTTU TEAK PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
438	24182	KING PRAWNS PRIVATE LIMITED
439	24199	SHIVA COMPLEX PRIVATE LIMITED
440	24201	JOTHI THIRUMANA MANDAPAM PRIVATE LIMITED
441	24239	SHWETONE EXIM PRIVATE LIMITED
442	24271	SRI ALAMELU MANGAI TUBE WELL SERVICES PRIVATE LIMITED
443	24272	TEX-IN-TEX EMBROIDERY PRIVATE LIMITED
444	24279	HYFRIC SHOES EXPORTS PRIVATE LIMITED
445	24285	ORYX APPARELS PRIVATE LIMITED
446	24287	EMERALD WED-LOCK PRIVATE LIMITED
447	24290	LEATHER TRANS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
448	24297	CAPRO EXPORTERS PRIVATE LIMITED
449	24300	PRAKASH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
450	24324	BETHEL INDUSTRIAL ENGINEERING FABRICATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
451	24325	APDHA TOOLS PRIVATE LIMITED
452	24339	ASTER EXPORTS PRIVATE LIMITED
453	24340	ROCKTOWN CREDIT AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
454	24345	VEEAAR FORWARDERS PRIVATE LIMITED
455	24346	GARDEN OF EDEN ESTATES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
456	24351	NEW JERCY FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
457	24359	TIRRUPATHI BALAJJI TEAK TREE FARM AND GUEST HOUSE PRIVATE LIMITED
458	24364	VICTORY IMPEX AGENCIES PRIVATE LIMITED
459	24365	QUOTA HOUSE PRIVATE LIMITED
460	24385	J.M.S.CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
461	24409	SRI SASTHA STEELS PRIVATE LIMITED
462	24411	L.V.PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
463	24438	BEST CARBON PRIVATE LIMITED
464	24452	SWIFT EXPORTS PRIVATE LIMITED
465	24456	EMERALD OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
466	24457	SRI HCS TRAVELS AGENCIES PRIVATE LIMITED
467	24463	ETHLAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
468	24470	VIJAY KRISHNA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
469	24491	VAIRAM FINANCE LIMITED
470	24535	VIVEK COMPUTER AND REPROGRAPHIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
471	24564	ZAM-ZAM TEAK (INDIA) LIMITED
472	24565	GOLDEN BAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
473	24569	AKITA TOYS PRIVATE LIMITED
474	24579	MEGALAI TRAVEL AND TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
475	24598	GOLDWIRE CREATIVE AND DESIGN SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
476	24610	ROOPAM MARINE EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
477	24615	HAPPY HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
478	24619	CHIDAMBARAM RASI FINANCE PRIVATE LIMITED
479	24631	FINESSE ITALIA PRIVATE LIMITED
480	24637	ESSARRVEE EXPORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
481	24687	T.G.INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
482	24729	MUSIRI CHITS PRIVATE LIMITED
483	24730	SELVAM AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
484	24733	SUN PROMOTERS PRIVATE LIMITED
485	24734	FICER RUBBERS PRIVATE LIMITED
486	24744	RUBICON MARKETING PRIVATE LIMITED
487	24745	SEA BREEZE FARMS PRIVATE LIMITED
488	24747	KESVM VENKATESWARA CHITS PRIVATE LIMITED
489	24749	VISU AGENCIES PRIVATE LIMITED
490	24753	ULTRAMAX STEELS PRIVATE LIMITED
491	24759	SRI GANESH PUBLICITY (MADRAS) PRIVATE LIMITED
492	24770	BANU GARMENTS PRIVATE LIMITED
493	24795	RUBYCON SYSTEMS PRIVATE LIMITED
494	24817	G.S.FIBRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
495	24825	SURABI CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
496	25022	WAYALURAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
497	25112	NEO ORGANICS PRIVATE LIMITED
498	25121	AB MARKETING & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
499	25128	AIR WINGS CARGO (INDIA) PRIVATE LIMITED
500	25158	KARPAHA VIRUTCHAM PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
501	25208	VAITHIAM FINANCE PRIVATE LIMITED
502	25215	FUTURE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
503	25225	JEYA KUMAR WEAVERS PRIVATE LIMITED
504	25248	FELSPAR MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
505	25256	HASTHRA CHITS PRIVATE LIMITED
506	25275	GURUNATH CHEMCALS PRIVATE LIMITED
507	25285	SRI SWARNAVILAS FINANCE PRIVATE LIMITED
508	25286	SHARMILA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
509	25295	M.L.G. HITECH PRINTERS PRIVATE LIMITED
510	25307	J.C. LEATHERS LIMITED
511	25580	TAMILNAD ABRASIVES PRIVATE LIMITED
512	25621	SCOTLAND RESORTS AND HOUSING PRIVATE LIMITED
513	25629	MOOVARAYAR FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
514	25634	SUMORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
515	25668	SHANVAS FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
516	25671	GRAFITI GRANITES INDIA PRIVATE LIMITED
517	25687	CASTLE EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
518	25690	VIJAY SHAKTHI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
519	25703	AGRO & ANIMAL FARMS (NILAGIRIES) PRIVATE LIMITED
520	25741	PAVITHRA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
521	25759	SOUTH INDIA SOLES PRIVATE LIMITED
522	25763	A'ESEL TRAVELS & TRADE PRIVATE LIMITED
523	25825	EVERGREEN TEA PRIVATE LIMITED
524	25836	CAPE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
525	25841	AANDAVAR EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
526	25846	GLORIA GEM CRAFTS PRIVATE LIMITED
527	25860	KARPADHARU FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
528	25911	PARAMOUNT AUTO ELECTROPLATING PRIVATE LIMITED
529	25928	OUR LADY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
530	25929	MANIANS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
531	25987	SHRI RAM ADVERTISING PRIVATE LIMITED
532	25990	SRI SAI LAKSHMI ESTATES LIMITED
533	26006	APL POLY BUSINESS PRIVATE LIMITED
534	26007	RAMBABU IMPEX PRIVATE LIMITED
535	26069	VIRA AQUACULTURE AND FARMS PRIVATE LIMITED
536	26120	RAVI BIO FUEL PRIVATE LIMITED
537	26128	CELINCO KNITTING PRIVATE LIMITED
538	26139	COCO AQUAMINERAL PRIVATE LIMITED
539	26164	MADRAS FORMS PRIVATE LIMITED
540	26202	MARTHA ACQUA PRIVATE LIMITED
541	26211	NIKITA AQUACULTURE PRIVATE LIMITED
542	26219	AGNI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
543	26227	SHANMUGA BENEFIT FUND PRIVATE LIMITED
544	26249	VISHNELLE PLASTICS PRIVATE LIMITED
545	26269	CYNO CLEAN COMPANY PRIVATE LIMITED
546	26321	THRBUVAN PROPERTIES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
547	26329	V TWO COLOR LAB PRIVATE LIMITED
548	26334	AMERICAN LEATHERS PRIVATE LIMITED
549	26372	VIJAYARAM TEX PRIVATE LIMITED
550	26405	SHREEJI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
551	26412	SARVODAYA LAMPS LIMITED
552	26421	KARPAGA CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
553	26438	BASE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
554	26456	SUBHA SRI CHINNAMMAL CHIT FUND PRIVATE LIMITED
555	26462	VAIBHAV PLANTATIONS & RESORTS LIMITED
556	26472	RAO EMPLOYMENT AGENCIES PRIVATE LIMITED
557	26539	SHAN SU PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
558	26601	SOUTH COAST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
559	26717	RAJ AND YASH ALLOY PRIVATE LIMITED
560	26828	THIRUMAGAL HOUSING PRIVATE LIMITED
561	27605	ABIRAMI SEAFOODS PRIVATE LIMITED
562	28003	SAI SIDDARTH HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
563	28005	VISHNU PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
564	28007	MAYILAI VAILANKANNI CHITS PRIVATE LIMITED
565	28016	JAYAVIJAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
566	28092	AKKUR HOLDINGS PRIVATE LIMITED
567	28093	SRAVANA SECURITIES PRIVATE LIMITED
568	28150	EVERGLOW COURIERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
569	28166	PANDIVILAI PANDIAN CHITS PRIVATE LIMITED
570	28170	GANESH FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
571	28208	MAECO AGRO FARM PRIVATE LIMITED
572	28209	MAECO FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
573	28210	MAECO IRRIGATION PRIVATE LIMITED
574	28226	TCM FOUNDATION PRIVATE LIMITED
575	28252	SOUTHERN AGRO FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
576	28311	BERSHEBA INFORMATIC SERVICES PRIVATE LIMITED
577	28350	MAGNUM BATTERIES PRIVATE LIMITED
578	28355	THAMBI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
579	28753	JBR TRADE AND PRINTING PRIVATE LIMITED
580	28768	SUPREMES GARMENTS EXPORTERS PRIVATE LIMITED
581	28769	PADMASREE FINANCIAL SERVICE PRIVATE LIMITED
582	28776	SNEHAAM CHITS PRIVATE LIMITED
583	28786	SRI KALIAMMAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
584	28795	NKN CHITS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
585	28797	JAYARAM PROPERTIES LIMITED
586	28798	JAYARAM FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED
587	28799	JAYARAM TRANS PRIVATE LIMITED
588	28807	VARUNAN FARMS PRIVATE LIMITED
589	28820	WOOD HAVEN ESTATES & ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
590	28825	SRI KAMALA TRAVELS PRIVATE LIMITED
591	28835	INTERNOVA ORTHO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
592	28837	SHAREEX CENTRE PRIVATE LIMITED
593	28838	DRAS TOP ART PRIVATE LIMITED
594	28856	BOW CARD MARKETING PRIVATE LIMITED
595	28859	SHIELD INFUSIONS PRIVATE LIMITED
596	28862	SUN ROSE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
597	28863	SUN SUMMER RESORTS PRIVATE LIMITED
598	28864	SARA MALLIGAI GARMENTS PRIVATE LIMITED
599	28870	LING TEAK TREE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
600	28963	WATAN STEEL PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
601	28964	ICRC EXPORTS PRIVATE LIMITED
602	28968	RAYMAN MARKETING PRIVATE LIMITED
603	28987	ABITHA FOODS PRIVATE LIMITED
604	28990	MEERA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
605	28992	KALIKA DEVI CHITS PRIVATE LIMITED
606	28997	YOGA HOUSING FINANCE LIMITED
607	29148	EMBASSY CHITS PRIVATE LIMITED
608	29172	SUBUKI BRAKES PRIVATE LIMITED
609	29345	FASHION CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
610	29381	AMUTHASURABHI FINANCE PRIVATE LIMITED
611	29386	MACFAB ENGINEERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
612	29403	BITSLAN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
613	29645	ELJAKS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
614	29670	HREEM SREEM TOOLS PRIVATE LIMITED
615	29692	WORDSWORTH FARMS AND RESORTS LIMITED
616	29765	TITI LEATHER CRAFTS PRIVATE LIMITED
617	29813	COMPONENTS TRADING PRIVATE LIMITED
618	29934	JANANI FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
619	30027	YADHUKULA FINANCE PRIVATE LIMITED
620	30028	HYDRO-MECH & AQUA TECH CONSULTANTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
621	30043	T.K.N.HOUSING & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
622	30061	PIC-N-PAC POLY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
623	30092	RAPHEAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
624	30139	GELO AM EXPORTS PRIVATE LIMITED
625	30188	AMICA LEATHER PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
626	30260	A.G.R. AMARA EXPORTS PRIVATE LIMITED
627	30261	ESQUIRE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
628	30274	PRORICH FOODS PRIVATE LIMITED
629	30281	MAS AQUA HATCHERY PRIVATE LIMITED
630	30283	BODI SRI KAVITHALAYA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
631	30289	SRI RAM COCO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
632	30360	GIANT GRANITES PRIVATE LIMITED
633	30480	TOUCHWOOD FASHIONS PRIVATE LIMITED
634	30481	NEW IMAGE LEASING FINANCE & INVESTMENT PRIVATE LIMITED
635	30506	GRANDEUR MACHINERY & EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
636	30567	RAINBOW INVESTMENTS AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
637	30572	SEEKERS RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
638	30606	MOHANA PLASTIC PIPES PRIVATE LIMITED
639	30680	THAKADI PHARMA LIMITED
640	30703	INTER EXIM LEATHER SHOES PRIVATE LIMITED
641	30704	SELVA ADVERTISING PRIVATE LIMITED
642	30714	BULL'S EYE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
643	30724	GREEN VALLEY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
644	30766	TRISHLA FINANCE & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
645	30785	SURYA POWER AND POWER APPLIANCES PRIVATE LIMITED
646	30814	TOP POINT AGRO FARM PRIVATE LIMITED
647	30964	VIRGO FINSEC PRIVATE LIMITED
648	31004	FRONT LINE CARRIERS PRIVATE LIMITED
649	31037	VALLIAMMAI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
650	31038	SKYLINE FREIGHT FORWARDERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
651	31106	WORK MATS INTERIORS PRIVATE LIMITED
652	31145	MEENA & MEENA LEATHERS PRIVATE LIMITED
653	31154	G.R.V. SECURITIES PRIVATE LIMITED
654	31167	DIPS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
655	31174	SOMASUNDARAM CHETTIAR JEWELLERY MART PRIVATE LIMITED
656	31357	TAMILMAGAL CHITS PRIVATE LIMITED
657	31453	ROCKVIN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
658	31571	ALP CONSTRUCTION LIMITED
659	31577	VIRESH SHELTER PRIVATE LIMITED
660	31673	SHAKTI DURGA HOMES PRIVATE LIMITED
661	31721	S.N.SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
662	31764	GUMMIDIPUNDI IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
663	31781	MADRAS METAL PRIVATE LIMITED
664	31828	SRI JOTHI LAKSHMI TEAK WOOD PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
665	31829	CAPRINE FARMS PRIVATE LIMITED
666	31913	SEA DOLLS AQUA BAY PRIVATE LIMITED
667	32079	JARDIN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
668	32329	VALLAVAN HIRE PURCHASE & LEASING PRIVATE LIMITED
669	32337	SURYA EAST COAST FARMS(INDIA) PRIVATE LIMITED
670	32342	MIRANDA RUBBER FACTORY PRIVATE LIMITED
671	32346	ARCH BUSINESS LINK PRIVATE LIMITED
672	32448	WESTERN GHAT FARMS PRIVATE LIMITED
673	32522	MOOLCHAND TEXTILES PRIVATE LIMITED
674	32526	OM SAKTHI PACKAGING MATERIAL PRIVATE LIMITED
675	32577	SRI AYYAPPA OIL MILL PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
676	32578	AMASINA SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED
677	32586	U.H.S.SHOES PRIVATE LIMITED
678	32699	DHAMODAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
679	32716	A & B SECURITIES PRIVATE LIMITED
680	32719	DHANUSHRAM GRAPH PRIVATE LIMITED
681	32722	SREE KAYVEEYEN INVESTMENTS LIMITED
682	32731	SUBHA REALTORS PRIVATE LIMITED
683	32736	ADVANCED HITECH EXPORT LIMITED
684	32749	LAKSHMIDEVI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
685	32768	SRIGUGAN CHITS PRIVATE LIMITED
686	32952	EMBASSEY RESORTS PRIVATE LIMITED
687	32958	SRI BALAJI SELVALASHMI FINANCE PRIVATE LIMITED
688	32977	IGLOO RESORTS PRIVATE LIMITED
689	32985	KOUSHIK CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
690	32987	GROW BEST FARMS PRIVATE LIMITED
691	32994	SRI THIRUMALAI LAKSHMI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
692	33004	PEREGRINE DESIGNS & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
693	33015	MARLIN GRANITES PRIVATE LIMITED
694	33020	MANUELSONS PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
695	33030	LANDSCAPE MATERIALS & STONES PRIVATE LIMITED
696	33067	VANGAL DAIRIES PRIVATE LIMITED
697	33085	JUANY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
698	33147	LOYOLA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
699	33158	PRINCESS OF HILLS PLANTATIONS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
700	33163	ICNET SHIPPING LINES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
701	33175	HOTEL PRINCE PLAZA PRIVATE LIMITED
702	33219	CARE WELL GOATS FARM PRIVATE LIMITED
703	33238	SOUTH COAST AVIATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
704	33246	VARIETY LEATHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
705	33249	PRECISION CARBONATES PRIVATE LIMITED
706	33262	ALPINE CASTOR PRIVATE LIMITED
707	33264	FRONT LINE BUILDERS PRIVATE LIMITED
708	33293	RAVISEKAR REALTOR PRIVATE LIMITED
709	33344	SKYBEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
710	33377	ROCK TOWN CHITS PRIVATE LIMITED
711	33418	JAYA MAYA VISHNU FINANCE PRIVATE LIMITED
712	33420	SENDFJTHOOR CREATIONS PRIVATE LIMITED
713	33425	PENTAGON GRAPHICS PRIVATE LIMITED
714	33469	PANDIAN SECURITY BUREAU PRIVATE LIMITED
715	33490	CEPHAS CONTECH PRIVATE LIMITED
716	33505	EVEREST COUNTRY CLUB PRIVATE LIMITED
717	33511	KUNA SEAFOOD INDIA PRIVATE LIMITED
718	33526	TITAN BOOKS PRIVATE LIMITED
719	33566	PEROXY FINANCE PRIVATE LIMITED
720	33679	MAANJU GRAFIX PRIVATE LIMITED
721	33688	WILMENMECHAID PRIVATE LIMITED
722	33691	PRAMODH STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
723	33696	NATARAJ SECURITIES AND CREDITES LIMITED
724	33698	ALAYAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
725	33712	METRO GREENS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
726	33739	RAJA MARITIMES PRIVATE LIMITED
727	33742	CITYWIDE EXPRESS COURIER PRIVATE LIMITED
728	33754	RM IMPEX LIMITED
729	33764	MAXWOOD BIOTECH PRIVATE LIMITED
730	33767	INDEX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
731	33772	INDUS MILK MAGNUM PRIVATE LIMITED
732	33825	TUSAN INDIA MAGNETIC PRIVATE LIMITED
733	33828	RSM APPAREL PRIVATE LIMITED
734	33879	STERLING METTALLURGY PRIVATE LIMITED
735	33886	KEYEMMAR DEVICES PRIVATE LIMITED
736	33898	VEE YES ARE TRADING PRIVATE LIMITED
737	33900	KODI ANNAMALAI EXPORTS PRIVATE LIMITED
738	33934	K L SAFE RECRUITERS PRIVATE LIMITED
739	33937	THIRUMAGAL TRADITIONAL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
740	33941	SUXUS PERTROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
741	34107	GALACTICA EXPORTS PRIVATE LIMITED
742	34119	RAJARAJAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
743	34123	JAGIRIDAR STOCKS PRIVATE LIMITED
744	34128	THIRU MURGA FINANCE PRIVATE LIMITED
745	34134	RICH SEA FOOD EXPORT PRIVATE LIMITED
746	34136	SRI ELUMALAYAN FINANCE AND INVESMENTS PRIVATE LIMITED
747	34194	S.V.S.CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
748	34335	HEROTECH MACHINERY PRIVATE LIMITED
749	34458	LEVI COMPUTERS PRIVATE LIMITED
750	34585	KEERTHI GOAT FARMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
751	34599	CHEN - RAPHA PRIVATE LIMITED
752	34600	M C A DEPARTMENTAL STORES & SERVICES PRIVATE LIMITED
753	34612	HARIDHA LABS PRIVATE LIMITED
754	34614	MAY INDIA AGENCIES PRIVATE LIMITED
755	34618	VYSHALI HOME LINKS PRIVATE LIMITED
756	34627	NUTTSMAN KAAJUS PRIVATE LIMITED
757	34652	GOWRI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
758	34725	G R D CREDITS PRIVATE LIMITED
759	34774	GLISTEN INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
760	34828	MAHAA VISHNU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
761	34928	SHAKTI TRAILERS PRIVATE LIMITED.
762	35690	ROLOFORMS INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
763	35699	DAWN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
764	40030	HOTEL TARUN INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
765	40049	AL EASTERN POLYCHEM PRIVATE LIMITED
766	40053	SARAFIN MEDIPLANTS PRIVATE LIMITED
767	40189	HARGAN WIRES AND CABLES (INDIA) PRIVATE LIMITED
768	40374	PYRAMID POWER TECH PRIVATE LIMITED
769	40407	KOREAN FELT INDIA PRIVATE LIMITED
770	40433	ORION VISION PRIVATE LIMITED
771	40456	SHRI VAMAN SOFTWARES AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
772	40463	RK INFO TECH SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
773	40470	ANNAI AUROBINDO SURGICAL PRIVATE LIMITED
774	40486	TFL HEALTH CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
775	40517	ELEGANT CONSTRUCTIONS AND INTERIORS LIMITED
776	40747	DOLLA CANTIK TRADING PRIVATE LIMITED
777	40920	M.S.M.P. TEXTILES PRIVATE LIMITED

D. SURYANARAYANA
Asst. Registrar of Companies
Tamilnadu, Chennai

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies

Kochi, the 20th September 2007

No. 560 (5) SM/11216/2007.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off the from Register and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Reg. No.	Company Name
1	2	3
1.	3501	M/s. Bhadradeepam Chit Funds Private Limited
2.	3522	M/s. Thaum Engineering Works Private Limited
3.	3544	M/s. ESGI Lumber India Private Limited
4.	3577	M/s. Ibex Hotel Consultants Private Limited
5.	3586	M/s. Surgical Aids Private Limited
6.	3606	M/s. Premier Overseas Construction Co. Private Limited
7.	3683	M/s. Puliara Diary and Allied Industries Private Limited
8.	3697	M/s. Friends Publishing Co. Private Limited
9.	3702	M/s. Petite Services Private Limited
10.	3715	M/s. Little Prince Publications Private Limited
11.	3721	M/s. Highrock Cements and Industries Private Limited
12.	3736	M/s. Tellic Marketing Private Limited
13.	3755	M/s. Link Marketing Services Private Limited
14.	3817	M/s. Venad Bottling Plant Private Limited
15.	3823	M/s. Cross Detective and Security Services Private Limited
16.	3833	M/s. Snokiss Food Products Private Limited
17.	3828	M/s. Anashwara Films Private Limited
18.	3850	M/s. Udayalakshmi Kuries and Loans Private Limited
19.	3884	M/s. Malanad Kuries Private Limited
20.	3888	M/s. K. N. Shihab Constructions Private Limited
21.	3907	M/s. Travelcard Services India Private Limited
22.	3925	M/s. Surge Printing and Publishing Co. Private Limited
23.	3972	M/s. Genuine Oils and Consumer Products Private Limited
24.	4011	M/s. Air Conditioning Accessories and General Equipments Private Limited
25.	4016	M/s. Bapuji Bricks and Clay Works Private Limited
26.	4019	M/s. Lourdes Hospital Complex Private Limited
27.	4030	M/s. Tecon Steel Industries Private Limited
28.	4043	M/s. Anaswara Publications Private Limited
29.	4044	M/s. Eben-Ezer Home for Integrated Healing Private Limited
30.	4050	M/s. Bluelinks Enterprises Private Limited
31.	4056	M/s. Hotel Bigben Private Limited
32.	4067	M/s. Geo Cylinders Private Limited

1	2	3
33.	4070	M/s. Oasis Soaps and Detergents Manufacturing Co. Private Limited
34.	4081	M/s. Promocure Private Limited
35.	4086	M/s. Attapadi Food Industries Private Limited
36.	4106	M/s. Erathu Vimuktha Bhada Motor Service Private Limited
37.	4109	M/s. Hotel Ebenezer Private Limited
38.	4122	M/s. Peacock Engineers Private Limited
39.	4135	M/s. Das Distilleries Private Limited
40.	4137	M/s. Crown Soft Drinks Private Limited
41.	4144	M/s. Oasis Furnishers Private Limited
42.	4156	M/s. Pegasus Consortium Private Limited
43.	4160	M/s. Priya Metals Private Limited
44.	4171	M/s. Apsara Builders Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhijit Borewell Company Private Limited

Bangalore-560 034, the 21st September 2007

No. TA/SVK/560 (3) 7545/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Abhijit Borewell Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Advance Telesystems Private Limited

Bangalore-560 034, the 27th September 2007

No. STA/560 (3) 15872/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Advance Telesystems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Bangalore-560 034, the 28th September 2007

No. ROCB/560 (3)/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	28186	M/s. Neo Tech Process Solutions Private Limited
2.	29152	M/s. Campus Inforesources Private Limited

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-560 034, the 1st October 2007

No. ROCB/AROC/(SKG)/560 (5)/SES-2005/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said companies are dissolved:—

Sl. No.	Company Number	Name of the Company
01	25119	SWARNA HEATING & CONTROL CO. PRIVATE LIMITED
02	26006	TUNGA TOURS PRIVATE LIMITED
03	32803	PROGRESSIVE INTRAPRENEURS PRIVATE LIMITED
04	28215	T R P e-COM PRIVATE LIMITED
05	30273	ePAYWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
06	24763	TASK INFO CENTRE PRIVATE LIMITED
07	27526	INTERFORM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
08	29909	DHAR SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
09	30164	PROFREM-ELVEE SERVICES PRIVATE LIMITED
10	30642	CHIK NIK POULTRY & AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
11	29987	MY FORTUNE SERVICES PRIVATE LIMITED
12	31112	21 ST CENTURY NUTRITIONAL PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
13	28558	YAGNA INFOTECH PRIVATE LIMITED
14	29963	DAMODHARA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
15	28479	M.K. INFOTECH PRIVATE LIMITED
16	33708	SCHMITZ ENGINEERING PRIVATE LIMITED
17	30553	DICE ICE CREAMS PRIVATE LIMITED
18	28571	SAI SHREE MOTORS PRIVATE LIMITED
19	33821	GCC TRAVELS & HEALTH TOURISM PRIVATE LIMITED
20	30937	FJ WOODS PRIVATE LIMITED
21	27849	BANASHRI 2000 MULTICOM SERVICES PRIVATE LIMITED

22	32705	MAQ PROPERTY MANAGEMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED
23	27122	BULL INFOTECH PRIVATE LIMITED
24	26401	FOCAL INFOTEK PRIVATE LIMITED
25	31992	CHAAYA AGROWOODTECH PRIVATE LIMITED
26	29398	SPECTRUM INFORMATION & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	24107	ROBOQUIN DISPLAYS PRIVATE LIMITED
28	30778	OMACS ELECTROMECH PRIVATE LIMITED
29	32204	SOLFIN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
30	30539	HEPTAGON ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
31	32703	GREEN PAGES INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32	35072	VERTEBRAND SALES AND MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
33	28272	SABA FINSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
34	27133	GANNA ELASTICS PRIVATE LIMITED
35	27280	COMMODITY WORLD TRADE.COM PRIVATE LIMITED
36	32737	PROPEL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
37	32736	PROPEL INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
38	29637	MSR SPORTS & HEALTH CENTRE PRIVATE LIMITED
39	31777	MANJUNATHA AIRCONDITIONING ENGINEERS PRIVATE LIMITED
40	31701	HUBLI ONLINE FORTUNES CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
41	34165	ASHIRATHNAM ALLOYS & STEEL TRADERS PRIVATE LIMITED
42	26999	TEL SPEC MED SERVICES PRIVATE LIMITED
43	30016	KANSU COMPUTERS PRIVATE LIMITED
44	25133	INFORMIX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
45	28856	V5 SWITCH GEAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
46	27917	SAHA SPRAGUE ENTERPRISES (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
47	31517	INFOWORD MARKETING & CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
48	28105	VEGA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	27565	GHEVERCHAND JAIN POWERS PRIVATE LIMITED
50	28077	CEASEWIRE LABS PRIVATE LIMITED
51	26163	MILLENNIUM SYSTECS PRIVATE LIMITED
52	32825	GEMINI MEDICURSION PRIVATE LIMITED
53	27553	GREENWOODS HOLIDAYS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
54	25758	TRIDENT PRECISION ENGINEERING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
55	31102	ACHARYA COMPUSYS PRIVATE LIMITED
56	30662	BUBBLE MOTION PRIVATE LIMITED
57	29657	MEHVISH IMPEX PRIVATE LIMITED
58	25880	TUNGABHADRA AGRO ENERGY PRIVATE LIMITED
59	31814	KILMIST SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

60	28384	BALAJI PETROLEUM PRIVATE LIMITED
61	32121	SWARNAJYOTHI NETWORK PRIVATE LIMITED
62	26385	MANDALA DATA SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
63	27011	EDU FREE.COM PRIVATE LIMITED
64	29572	SIGMA POWER CARE PRIVATE LIMITED
65	24849	TRANSPORTATION TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
66	28134	INTERZIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
67	27902	VANAS GASTECNIX PRIVATE LIMITED
68	34493	JEJE SYLICON PRIVATE LIMITED
69	31235	REVOLUTION FINANCIAL SERVICE PRIVATE LIMITED
70	26513	INFOCON PROCESSION INITIATIVES PRIVATE LIMITED
71	27930	TARANG T.V. LIMITED
72	28586	JAYACHANDRA HOTELS PRIVATE LIMITED
73	24784	YOGA NARASIMHA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
74	31895	JAGRUTI RESORTS PRIVATE LIMITED
75	24036	PARADISE THEME PARK AND CLUB LIMITED
76	30936	MINDPARK SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
77	29951	FEMILA DAIRY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
78	31828	BOHEMIA RECREATION PRIVATE LIMITED
79	26269	Q S Q SYSTEMS PRIVATE LIMITED
80	26797	SID-VIN INFOTECH PRIVATE LIMITED
81	29630	CATALYST FOOD VENTURES PRIVATE LIMITED
82	28203	BRIGHT SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
83	26883	MAHITI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

(SANJAY KUMAR GUPTA)
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-560 034, the 1st October 2007

No. ROCB/AROC/(SKG)/560 (3)/SES-2005/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company Number	Name of the Company
01	32708	T.A.R. TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
02	30440	ISOFTEL TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
03	24859	ASTRAL DETERGENTS PRIVATE LIMITED
04	35230	SUBODH WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
05	29597	MIB SOFT PRIVATE LIMITED
06	26868	VRUKSHA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
07	30240	KOOLOX FASHION GARMENTS PRIVATE LIMITED
08	31109	FOCUS HUMAN RESOURCES CONSULTING PRIVATE LIMITED
09	24734	STARNET COMPUTERS AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
10	26891	OMTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
11	27152	PRIME INFOSITES PRIVATE LIMITED
12	27681	eAntsoft.com Private Limited
13	24002	VESTA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
14	26479	FANTASY TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
15	31625	CHITRA BLUE DIAMOND DIRECT MARKETING PRIVATE LIMITED
16	32506	JUPITER TAPES AND ADHESIVES PRIVATE LIMITED
17	27422	NANO MEMBRANES PRIVATE LIMITED
18	26369	PROCON PROJECTS PRIVATE LIMITED
19	28302	TEACHANNEL PRIVATE LIMITED
20	24069	SHIVAYOGI FARMS LIMITED
21	25665	ANJANADRI CHITS PRIVATE LIMITED
22	25425	RATHNA ROY INFOGROUP PRIVATE LIMITED
23	29342	SIFFYNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	27963	FUTURISTIC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
25	30908	VENTURZ WIRELESS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
26	31206	NEXUS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
27	29828	INDIAN EXPERIENCE TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
28	28150	SUSMI CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED
29	29191	BASAVAGOURI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
30	25016	MANGALORE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
31	27441	SRISHTI NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32	25666	S.N. HOMEFIN (INDIA) LIMITED
33	24606	SILENT ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
34	30275	INTEGRATED TEACHING TEAM PRIVATE LIMITED
35	31805	eXact Outsource Private Limited

36	31189	VINAAP SOFTWARE PRIVATE LIMITED
37	25464	VASUPRADHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
38	25977	INFOMED HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
39	29894	BHAGAVAN GANESH CHITS PRIVATE LIMITED
40	25488	ALISONS HOLDINGS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
41	27577	XTELLIGENCE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
42	29033	BAGYANIDHI CHITS PRIVATE LIMITED
43	28068	SHUBHADHAN CHITS PRIVATE LIMITED
44	25406	VIRCON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	32322	J-DAC MARKETING PRIVATE LIMITED
46	25202	STAR COFFEE ESTATES PRIVATE LIMITED
47	25203	NIRMALA COFFEE ESTATES PRIVATE LIMITED
48	27334	VERCHAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
49	26658	TECHSAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	27356	BHARATLOGISTICS PRIVATE LIMITED
51	29292	SHRI SAMPATHLAKSHMI CHITS PRIVATE LIMITED
52	29639	SAURAKSHANA INSURANCE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
53	25553	HEBRI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
54	27185	SAMVRUDDI SECURITIES PRIVATE LIMITED
55	28995	M V R R RESORTS SERVICES PRIVATE LIMITED
56	25116	SURAJ POWER & HOUSING PRIVATE LIMITED
57	26958	JBH INFRATECH PRIVATE LIMITED
58	25033	BUTTER SPONGE BAKERY & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
59	25125	IBEX TECHNOLOGIES LIMITED
60	25421	GUDWIL AIR SEAS LIMITED
61	30361	embedX INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
62	34359	SYMCON RIVERSAND SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
63	32426	SCHUNK CLAMPING AND AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
64	25507	SEMAPHORE SOFT PRIVATE LIMITED
65	33408	MUMBAI TALK SERVICES PRIVATE LIMITED
66	28794	JEET TRAVELS PRIVATE LIMITED
67	31380	ALEXANDER TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
68	25503	GRAND INFOTECH PRIVATE LIMITED
69	33237	SAINTLIFE BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
70	24928	ADVANCED TECHNOLOGY COLLEGE PRIVATE LIMITED
71	33492	ISIS DATA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
72	31513	ACCORD BIOTECH PRIVATE LIMITED
73	25754	KALA MATRIX METAL PRIVATE LIMITED
74	25831	HITRACK IT DOT COM PRIVATE LIMITED
75	31239	DEUCE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
76	29003	MICRO MOTORS AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED
77	35693	SENDO CELLULAR TELECOM INDIA PRIVATE LIMITED
78	25350	ADRIJA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

79	35401	VANILLA TRADING PRIVATE LIMITED
80	24542	GAUTHAM STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
81	30355	SHRI PRAGATI CHITS PRIVATE LIMITED
82	28369	HEGGADAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
83	25163	SAVANTHI CHITS PRIVATE LIMITED
84	32098	QUADSCAPE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
85	29364	SAFEX CHITS PRIVATE LIMITED
86	27487	PROGRESS INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
87	24302	V.M.NEWS PRIVATE LIMITED
88	25695	BUOYANT E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
89	29872	TAIHIND ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
90	25032	GANGOTHRI STOCKS & SHARES PRIVATE LIMITED
91	29489	MANIPAL APEX CHITS PRIVATE LIMITED
92	26714	e-SOLEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
93	26337	INFOSTREAM SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
94	30331	SRI SIDDIVINAYAKA CHITS MYSORE PRIVATE LIMITED
95	25929	SCS CHITS PRIVATE LIMITED
96	26492	SAPTAJANYA CHITS PRIVATE LIMITED
97	25204	ARCHIES PLANTATION PRIVATE LIMITED
98	30090	K.D.M. FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
99	24867	UNISOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
100	30525	KNOLCOM MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
101	29784	TALISMA OUTSOURCE SERVICES PRIVATE LIMITED
102	24816	BELL CYBER PUB PRIVATE LIMITED
103	24151	VIVEKA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
104	32450	DAKSHIN TRAVELS PRIVATE LIMITED
105	26686	SUKHEERTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
106	28603	N.S.R. GAS POINT PRIVATE LIMITED
107	25932	CHARWAS KNITWEAR PRIVATE LIMITED
108	27306	DEVANAND EXIM PRIVATE LIMITED
109	28920	BENAK APPAREL EXPORTS PRIVATE LIMITED
110	28336	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
111	25439	SRI SUMUKHA ARECA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
112	30397	SRI SHANMUKHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
113	29073	JYOTI AUTO ACCESSORIES PRIVATE LIMITED

SANJAY KUMAR GUPTA
Astt. Registrar of Companies
Karnataka